

॥ थौ ॥

* हरिदास—संस्कृत—ग्रन्थमाला *-

१५६

महर्षिजैमिनिप्रणीतम्—

जैमिनिसूत्रम्

सोदाहरण—‘विमला’—संस्कृत हिन्दी टीकाद्वय—
समलद्वारम् ।



प्रशासक

जयकृष्णदास—हरिदास गुप्तः,
चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस,
बलापुर चिट्ठी ।

मूल (१)

अस्मत् प्रकाशित उपोतिष ग्रन्थः—

- १ चापीयत्रिकोणगणितं-विविध-वाचना-समर्लेखतम्
- २ गोलीयरेखागणितम् । परिशिष्ट सहितम् ।
- ३ चलनकलन-प्रद्वानात्तदविवरणम् ।
- ४ तिथिचिन्तामणिः । 'विजयतस्मी' हिन्दीटीका-उदाहरण सहितः ॥५
- ५ ताजिकतीलक्षणो-गंगाधरमिथकृत 'जलदगर्जन' सं.हि.टीकाद्योपेतः ॥६
- ६ परबलयद्वेष्ट्रम् । सम्पादक ज्योतिषाचार्यं प० धीमुखीधरठषकुरः ॥७
- ७ रेखागणितम् । पष्ठाष्याय-परिभाषारूपपदभाष्यायसहित „ ॥८
- ८ लघुपाराशरी-प्रध्यपाराशरी-सोदाहरण-'मुखेषिनी' सं० हि० टीका ॥९
- ९ प्रतिभावोधकम् । गंगाधरमिथकृतदर्शतलसंशक्तिलकेनाऽलङ्घतम् ॥१०
- १० प्रदनभूषणम् । विमला-सरला संस्कृत हिन्दी टीकाद्योपेतम् । ॥११
- ११ वीजवासना(खोपवत्तिक्षीजगणित) सम्पादक ज्यो. आ. गंगाधरमिथ ॥१२
- १२ यृहज्ञातकम् । भट्टत्पलटीका नवीनगणितोपपत्त्यादि टिप्पणी सहित ॥१३
- १३ यृहज्ञातकम् । खोदाहरणोपत्ति 'विमला' हिन्दी टीका सहित ॥१४
- १४ लीलायती । प० धीमुखीधरठक्षुर कृत नवीनवासना सहिता ॥१५
- १५ मायग्रकाशः । अमृतान्वय-भावयोषिनी भाशाटीका प्रश्नपत्र सहित ॥१६
- १६ घास्तुरस्तनावली-'मुखेषिनी' सं० हि० टीका, परिशिष्ट सहित ॥१७
- १७ रेखागणितम् । ११-१२ अस्यायी धीमुखाधरद्विवेदि विवितः ॥१८
- १८ शिशुयोधः । विमला भा.टी.।) १९योगिनोजातकः । 'विमला' भा.टी.॥१९
- २० शीघ्रयोधः । अनूपमिथकृत 'सरला' हिन्दी टीका सहितः ॥२१
- २१ सरलश्रिकोणमिति । ग. ग. यात्रुदेव शारिं योक्तिता सटिप्पन ॥२२
- २२ सरलरेखागणितम् । १-२ अस्यायी विनयेश्वरोप्रसाद द्विवेदि कृते ॥२३
- २३ सिद्धान्तश्रितोपमणिः । वाचनाभाष्य तथा टिप्पणी सहित गम्भीर ॥२४
- २४ करणप्रकाशः । धीमुखद्विवितः ॥२५
- २५ दैयदकामयेनुः । ग० ग० प० लनवगर्दीर्त्तप्रसादवरेण सद्वितः ॥२६
- २६ चामत्कारचिन्तामणिः । आन्वय-‘मावप्रयोषिनी’ हिन्दी टीका सहित ॥२७
- २७ ऊमिनिदूषम्-खोदाहरण 'विमला' संस्कृत दिन्दी टीकाद्योपेतम् ॥२८
- २८ लग्नारस्तनाकरः । आन्वय-‘पितुषेषिनी’ दिन्दी टीका सहित ॥२९
- २९ घास्तुरस्तनाकर-अद्वितयत्ययुत । विनयेश्वरोप्रसादकृत दि० टीका ॥३०
- ३० जातकपारिवानः ('मुखादाकिनी' संस्कृत-दिन्दी टीकाद्योपेतः ॥३१

प्राप्तस्थानम्-घोटाम्या संस्कृत पुस्तकालय, वनारस सिटी । १.....

THE
HARIDAS SANSKRIT SERIES
159

THE
JAIMINISUTRA
OF
MAHARSHI JAIMINI
Edited and Compiled with
THE VIMALĀ SANSKRIT COMMENTARY
Examples, Hindi Commentary, Notes,
INTRODUCTION, INDICES AND APPENDICES ETC.,
By
JYAUTIŚĀCHĀRYA & POSTĀCHĀRYA
PANDIT SŪRĪ ACHYUTĀNANDA JHĀ
RIPON GOLD MEDALIST.

PUBLISHED BY
JAYAKRISHNA DĀS HARI DĀS GUPTA
The Chowkhamba Sanskrit Series Office,
Vidya Vilas Press, Benares.

1943

प्रारम्भिक वर्तनव्यम् ।

स्मारं स्मारं मातरं नैकवारं दारं दारं स्मारनारप्रवारम् ।

लाभं लाभं दुर्लभं निर्मलाभं गुवादेशं वच्चिमविजुषिवेशम् ॥

देवहाः—सुविदितमेव तत्त्वभवतां ज्यौतिषिपशास्त्रसेवनानन्दसमुल्लितमानसानां या स्फूर्त्यप्रपात्मकोऽलिमन् ज्यौतिषिपशास्त्रे फलितस्त्वयः कामपि कामनिषतामाचित्प्रोतीति, मन्ये नाय विशिष्टपि विभेकशीलो देवहो विवदेत् ।

तत्त्व सन्निति समुपलब्ध्या सुद्धिता असुद्धिताच्च करिष्ये प्रत्यक्षफलप्रदर्शका घन्यामि परज्ञ समेवा तेषामपेहातामवाप्नोतीदमेव सततयोगाम्ब्यासावदाच्चीकृताम्बुद्धकाणी सहृदयामुरीणैः सुनिष्ठप्रवीणैः श्रीमद्भिर्भृषिपिनीमिनिभिर्महामसम्पादितं सूत्रं निष्पद्धं “जीमिविसूत्रं” नामकं प्रथ्यरत्नमिति ।

तत्त्वाप्यायुविचारावसरे नामादिन्ने समुपलब्धफलितज्यौतिषिपशास्त्रान्तः किमपि पुस्तकमित्यालपन्ति सुकृतकाण्डमनारतफलितशास्त्रपरिशीलनकीलितस्त्रान्ता देवहाः ।

दिमंशोधनपुरस्तरं महता धर्मेणोदाहरणसम्बलिता विमलाभिषेया संस्कृतीका हिंदीटीका चारचिं ।

प्राय हृदय यथार्थाभिषेयं विमलाभिषानं सोदाहरणं संस्कृतहिन्दीटीकायुग्मादपवडोकेनास्य सारं पहीतुं ज्यौतिषिपशास्त्रमात्रसुगन्धिता विषि जना नविषिता भवेत्युः ।

तदिदं स्वहृतिस्वलिते भास्यानां सहृदयातामध्यापकाच्छेत्प्रजनकरम्यकामामन्वते स्थाप्यते, प्रार्थ्यते चोदाराशयाः गुणेकपक्षशास्त्रिनो ज्यौतिषिप्रवराः पण्डितमान्या दूरीकृत्य गुणवत्सु मात्सर्यं चाण्डालजनस्त्रिविविनाधया दृष्ट्या विलोक्यन्ते मामकीनं धर्मं सफलयन्त्वति ।

मात्सर्योतिषिप्रतिष्ठिधिः पुरोभागिनक्तु स्वमात्सर्योपदाशनपुरस्तरमेवैतच्छ्रमं भद्रीयं सुवितुं सफलोकरिष्यन्तेवाच्र प्रार्थ्यनं किमर्थं निरर्थं कम् ।

‘यथा केनाप्युक्तम्—

खलो मृगयते दोषं गुणपूर्णेषु वस्तुतु । यने पुच्छस्त्राकीर्णे शुरीषमिष्य सूक्ष्मः ॥

अषिष—

गच्छतः स्वलतं छापि भवत्पैष ग्रामाद्धतः । इसन्निति दर्जीतास्त्रप्र समाधति सजानाः ॥

अथ यैरिदं सर्वैविध्यत्कृतपुस्तकप्रकाशनवद्यपरिक्लैवर्तिणसेष—चौत्रव्यासंस्कृतस्त्रीरितनामस्युपस्तकालयाद्यहौः श्रेष्ठिप्रवर—गोलोकवासि श्रीहरिदासपुस्तमजैः श्रीजयकृष्णदासमहोदयैरात्मनीनविधाविलासनाम्नि सुदगालये प्रकाशितं वाचाशीराशिभिः संषद्यैर्विमामीति शम् ।

निषेदः—पृ० श्रीमद्युतानन्दभाषा “जरिसो” ।

॥ श्रीः ॥

काशीस्थ “श्रीरामसाधु-संस्कृत-महाविद्यालय”
प्रतिष्ठातृणां विमलसरलोदारशीलानामाश्रितं
जनवत्सलानां स्वामी “श्रीहरिप्रकाशी
नन्दतीर्थ” महोदयनां करकमङ्गयोः ॥

सादरं समर्पणम्—

LIBRARY

भवभीमोदधितीर्थः शशबदुद्ब्रह्मस्वसविदानन्दः ।
स्वामी हरिप्रकाशानन्दतीर्थरिचरणयसि ॥ १ ॥
यः प्रातिभासिकतया तृणवडिसृज्य
प्राप्य खराज्यमनिर्वां निजबन्धुलाङ्ग ।
निश्रेयसप्रसवशालिनि सविदात्मा-
इरामे सदैव रमसे परमाभिरामे ॥ २ ॥
तस्यामनु ते हस्तगतापि भासिका
कथम्ब्रसादाय नवीनयुस्तिका ।
सिवारसास्यादनहन्त्रेतसो
यथा फुरत्तिकरपायचूर्णिका ॥ ३ ॥

तथापि—
लीवन्मुकोचित्तानोपदेशब्रह्मवसायिनः ।
ज्ञानसाधननेतत्ते प्रीतये किन्न कल्पताम् ॥ ४ ॥
विमृशवा स्वयमित्थमिदम्मया
जनयताऽधिकसाहस्रामात्मनः ।
शयकुरोशययोस्तव सादर
समुपहृत्य धृता कृतकृत्यता ॥ ५ ॥

श्रीअच्युतानन्द इषा शार्मिणा

जैमिनिसूत्रस्य ।

२

विषयः

वारकोन् विद्युरादावात्म-	
कारकमाह	३४
ब्रह्म पराशरकारिका	३५
आत्मकारकस्योत्कर्णंतामाह	३६
आमात्यकारकमाह	३६
आत्मकारकमाह	३७
मातृकारकमाह	३८
पितृकारकमाह	३९
पुत्रकारकमाह	३९
ज्ञातिकारकमाह	४०
दाराकारकमाह	४०
वर्त्र वृद्धकारिका	४०
गुरुकारकविकल्पमाह	४०
जग्नोदाहरण्यहृष्टं चक्रम्	४०
जग्नात्मकरण्यम्	४१
नित्यकारकान्वयुमारभते तथादी	
भगिन्यादिकारकमाह	४१
मातृलादिकारकमाह	४१
पितामहादिकारकमाह	४०
पत्नीदिग्दुषकारकमाह	४०
धने, कारकत्वेऽप्रशस्तर्वं	
नैर्मिककलशाह	४०
प्रसङ्गान्लौसंगिकवलमाह	४१
वलनिंयमाह	४१
प्रसादात्मेतत्त्वामुच्चादीनाह	४२
राहुविषयवाराहसीहितापाम्	४३
सामान्यतयौज्युग्मराशिभेदेन	
वरदशायां वर्णगणनामाह	४३
वरयापवादमाह	४४
दशाद्वान्यनावधिमाह	४५
अश्व वृद्धवचनम्	४६
द्विष्वामिकराशिमाह	४८
शाश्वताभिन वाह	४८
ग्रहाणामुच्चल्प्यानानि	४९

विषयः

वरदशालेपनव्रमः	५१	१८
सुकुटचरदशाचक्रम्	५२	१९
स्वूलचरदशाचक्रम्	५३	१९
चरान्तदेशामाह	५४	११
भस्तर्देशोप्रमाणमाह वृद्धः	५४	८
हृष्टचरान्तदेशाचक्रम्	५४	१४
स्वप्तचरान्तदेशाचक्रम्	५५	१
विशेषज्ञापनाथ राशीनामारुड-		
प्रपञ्चार्थं पदमाह	५६	२
अश्व वृद्धवचनम्	५६	१
अश्व विशेषमाह	५६	८
द्वादशरणे क्षेत्रविजात्मकुण्डली ५६	५६	२१
स्वर्णे दारा हृष्टादि सूत्रे		
स्वर्णापहृणे व्यवस्थामाह	५७	४
भावलानाशानयने मदीयः प्रकारः ५७	५७	२८
वर्णराशिज्ञापाथ्यमाह वृद्धः	५७	१३
द्वोराल्पन्थ द्वादशनावचक्रम्	५०	२
वर्णदराशिचक्रम्	५०	३
वर्णद्वादशानप्रकारमाह	५०	४
वर्णदशाचक्रम्	५२	९
अश्वापवादमाह	५२	१०
द्वोरादिज्ञानमाह	५३	७
प्रसादादूषन्थान्तरोक्तद्वोरामाह	५३	१२
स्फुरार्थं द्वोराचक्रम्	५२	२१
देवकाणमाह	५४	२
देवकाणचक्रम्	५४	११
सप्तोदानाह	५४	१२
सुकुटार्थं विषमराशी सप्तांश		
सुकुटम्	५५	१
सुकुटार्थं समराशी सप्तांशचक्रम्	५५	२
नवांशानाह	५५	३
सुकुटार्थं नवांशचक्रम्	५५	१
द्वादशी शादाद	५६	३

विषयानुक्रमणिका ।

३

विषयः	पं.	पं.	विषयः	पं.	पं.
स्फुटार्थं द्वादशांशचक्रम्	६७	१	दि पद्मवर्गे कलमाह	८२	८
इति प्रथमाध्याये प्रथमः पादः			कारकोशात्सप्तमभावस्यफलमाह	८३	९
अथ प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः—			अत्र वृद्धवचनम्	८४	१०
प्रथममात्रमकारकनवोशमालम्ब्य			कारकोशात्चतुर्थभावफलमाह	८४	१०
यद्याणीं कलं वाच्यमित्याह	६८	२	कारकोशात्तृतीयस्थानस्य		
आत्मकारकाधितमेषादिनवांश			फलमाह	८४	१६
फलमाह	६९	१	अत्र वृद्धवचनम्	८४	२६
अत्र वृद्धवचनम्	७०	१०	कपेक्षोगमाह	८४	२६
कारकोशात्पद्मित्याह फलान्याह	७१	२	अत्र विशेषमाह	८५	६
अत्र वृद्धवचनम्	७२	११	कारकोशात्पद्माद्यभावस्य		
कारकोशिस्थितराहुयुतों सुम्			फलमाह	८५	११
यद्याद्यवलोकिते फलान्याह	७३	१	अत्र वृद्धवचनम्	८५	१२
अत्र वृद्धवचनम्	७४	१	अत्र विशेषमाह	८५	६
गुलिकसहितकारकोशोफलमाह	७४	६	कारकोशात्पद्माद्यभावस्य		
गुलिकयुते कारकोशो चन्द्रादिपद्य-			फलमाह	८५	११
द्विष्टशात्कलमाह	७४	१२	अत्र वृद्धवचनम्	८५	१२
गुलिकज्ञानप्रकारो वृद्धेत्तरः	७४	२३	अत्र विशेषमाह	८५	१२
सुयोदिवारे गुलिकखण्डसंख्या-			मित्याह	८५	२७
माह	७५	११	मानित्तक्षोगमाह	८८	१३
स्खण्डातो गुलिकेष्वानप्रकारो			नियहानुषाहक्षोगावाह	८८	११
मदीयः	७६	१	रसवादिमिष्य-योगावाह	८८	३०
केतुयुते कारकोशो पापप्रहादिद्ये			पापहुदिष्टविषयादियोगव्रयमाह	८९	१
कलान्याह	७७	१२	कारकोशात्चतुर्थपञ्चमस्थानव-		
अत्र वृद्धवचनम्	७८	१६	शाचोगानाह	८९	२१
केवल कारकोशो रविगुकान्यो			कारकोशात्पद्माद्यभावस्यानवशा-		
हप्ते फलान्याह	७८	२४	द्योगानाहै	९०	१४
अथ वृद्धः	७९	१	कारकोशात्पद्माद्यभावस्यानवशा-		
कारकोशाद्यभावफलमाह	७९	६	द्यूपन्यहुत्यादियोगानाहै	९१	६
अत्र वृद्धवचनम्	७९	२३	कारकोशात्पद्मित्याहेकलविचार-		
कारकोशात्चतुर्थभावफलम्	८१	२८	व्यवस्थामाहै	९२	१०
अत्र वृद्धवचनम्	८०	२१	स्तवध्वाग्योगमाहै	९२	२२
कारकोशात्चतुर्थभावफलम्	८१	२८	केमद्वयोगमाहै	९२	२८
कारकोशात्पद्माद्यभावफलम्	८१	२८	अथ वृद्धवचनम्	९४	११
कारकोशात्पद्माद्यभावफलम्	८१	२८	फलसमयमाहै	९४	१६
कारकोशात्पद्माद्यभावफलम्	८१	२८	इति प्रथमाध्याये द्वितीय पादः—		
कारकोशात्पद्माद्यभावफलम्	८१	२८	अथ प्रथमाध्याये तृतीयः पादः—		
कारकोशात्पद्माद्यभावफलम्	८१	२८	पदमवलम्ब्य फलादेशः कार्य-		

विषया:	पृ.	पं.	विषया:	पृ.	पं.
इत्युपदिशति	१९	२	राजचिन्हयोगमाह	१२२	१६
अथ पलं कथयति तथ प्रथमे			हति प्रथमाध्याये उनीयः पादः ।		
श्रीमद्वादियोगमाह	१६	१	अथ प्रयमाध्याये चतुर्थः पादः—		
अत्र वृद्धवचनम्	१६	१	वयोपपदात्कलकथनाय प्रथम-		
व्याधिकथयोगमाह	१६	१८	सुपर्णं निल्पयति	१२३	२४
कस्माद्वयव्याधिकथमित्याह	१६	२८	वयोपपदात्प्रवृत्त्यादारनाश		
उद्धमव्ययोगमाह	१७	२३	योगावाह	१२४	९
वार्द्धक्यचिह्नयोगमाह	१७	२८	अप्र रेः शुभत्वमाह	१२५	६
श्रीमध्योगमाह	१८	१	पूर्वयोगापवादिमाह	१२९	१०
अत्र वृद्धवचनम्	१८	१३	दारनाशयोगमाह	१२९	१६
अवदेषफलकथने किञ्चिदाह	१८	२१	बहुदारयोगमाह	१३६	२१
पुनरेवान् योगानाह	१९	१	वार्द्धक्ये श्रीरहितयोगमाह	१३६	२९
अत्र वृद्धवचनम्	१९	२६	अथोत्तमकुलादारलामयोग-		
अन्यानपियोगान्नाह	१९	२९	माह	१२६	६
अत्र वृद्धवचनम्	१००	६	नीचकुलात्सवीलाभयोगमाह	१२६	११
राजयोगान्नाह	१००	११	सुन्दरीघीयोगमाह	१२६	१७
अत्र वृद्धवचनम्	१०४	१४	लोकाप्यादात्त्वत्रीत्यागघी		
प्रथ्यान्तरादाकृत्य राजयो-			नाशयोगावाह	१२६	२२
गानाह	१०४	२२	अन्यानपि योगानाह	१२६	२८
यन्मयोगमाह	११७	१	सप्तमांशप्रहेत्यः कलविदे		
पैदानिरुद्योगमाह	११७	२२	कव्यवस्थामाह	१२८	२४
पुनराजयोगमाह	११८	१	अयाग्र फलमाह	१२९	१
पुनराह	११८	१६	जन्मलरमतदीशतन्नवीशप्रहे-		
प्रथ्यान्तरीयदरिद्रयोगमाह	११९	१	भ्यः पूर्वोक्तविचारः कार्य-		
अन्यज्ञातकोक्तदरिद्रयोगा-			इत्याह	१२९	२९
काह	११९	७	अत्रकलान्याह	१३०	३१
दारिद्रयोगकलम्	१२०	१	द्वंद्वायुक्तयोगमाह	१३३	२
राजसम्बन्धिगुणसेनापति			वस्तुन्देहिमयोगमाह	१३३	१७
योगावाह	१२०	५	कुरुपयोगमाह	१३३	१३
कारकलग्नयोरपरिपहृष्टि-			अत्र वृद्धवचनम्	१३३	१८
पश्चात्कलमाह	१२०	१८	योगादिवर्णज्ञानमाह	१३३	२७
अन्यज्ञातयोगमाह	१२१	१७	अन्यज्ञातकोक्तवर्णवाह	१३३	३
नेत्रदाययोगमाह	१२२	१	स्तुटाये चक्रम्	१३३	८

विषयानुक्रमणिका ।

५

विषयः	पु.	पं.	विषयः	पु.	पं.
देवभक्तिविचारमाह	१३३	९	तात्कालिकः स्फुटप्रहा:	१४४	१
परज्ञातादियोगमाह	१३३	२१	सगतिकाः	१४४	१
जातकतत्त्वेजारजयोगः	१३४	२४	तन्वाद्यो द्वादशभावाः	१४४	२
जारजभद्योगः	१३६	११	सप्तस्थयः	१४४	२
इति प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः ।			जन्मकुण्डली	१४६	१
अथ द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः ।			लंशादियोगकारकप्रहा:	१४६	१२
आयुर्विचारं विवश्वरादौ कृतं			स्फुटायुः साधने मरीयः सु-		
आयुर्विचारः कार्यं इत्याह	१३६	२३	लमः प्रकारः	१४६	१६
स्वगतेन दीघायुपर्योगमाह	१३६	२८	द्वितीयोदाहरणम्	१४७	८
प्रकारान्तरेणायुर्विचारमाह	१३७	२९	स्फुटप्रहा: सगतिकाः	१४७	१७
तृतीयप्रकारेणायुर्विचारमाह	१३८	१९	तन्वाद्यो द्वादशभावाः		
चक्रवर्चनाप्रकार उक्तो वृद्धैः	१३८	३१	सप्तस्थयः	१४८	१
दीघायायुर्वानाय सुलभः प्रकारः १३८	२१		जन्मकुण्डली	१४८	२
आयुर्वानाय स्फुटायुः चक्रम्	१३९	१६	तृतीयोदाहरणम्	१५०	५
प्रकारप्रयेस्य एकस्मिन्नेव			तात्कालिकस्फुटप्रहा: स-		
समागते तदेवायुपोषामिति			गतिकाः	१५०	१४
विविवादमेव प्रकारप्रयेष्वेष्टस्मा			तन्वाद्यो द्वादशभावाः		
द्विन्नायुपि समागते निंग-			सप्तस्थयः	१५१	१
यमाह	१३९	१७	जन्मकुण्डली	१५१	२
प्रहारप्रयेण भिन्ने भिन्ने आ-			चतुर्थोदाहरणम्	१५२	१
युपि समागते निंगप्रमाह ।	१४०	७	तात्कालिकस्फुटप्रहा:		
पश्चमसूत्रसन्देहनिराकुबन्नाह	१४०	१३	सगतिकाः	१५३	१०
दीघायुर्योगमाह वृद्धः	१४१	१८	तन्वाद्यो द्वादशभावाः		
मध्यायुर्योगाः	१४१	२३	सप्तस्थयः	१५४	१
सात्रपायुर्योगाः	१४१	२६	जन्मकुण्डली	१५४	२
तथा पुनर्वृद्धेनोक्तम्	१४१	२१	पश्चमसूत्राहरणम्	१५५	११
दीघायुर्योगप्रयमाह वृद्धः	१४१	७	तात्कालिकस्फुटप्रहा:		
मध्यायुर्योगप्रयमाह	१४२	१०	सगतिकाः	१५६	३
सात्रपायुर्योगप्रयमाह	१४२	१३	तन्वाद्यो द्वादशभावाः स-		
सात्र स्फुटायुः चक्रम्	१४२	१	सप्तस्थयः	१५६	४
आयुर्विचारं प्रयमोदाहरणम्	१४३	१६	जन्मकुण्डली	१५७	१
स्फुटायुः साधनप्रकारः	१४३	२	ज्ञानेयोगकारकत्वे विशेषप्रमाह	१५८	११

विषयः	पु.	पं.	विषयः	पु.	पं.
पद्मावृद्धियोगमाद	१६१	३१	पद्मपद्माद	१७३	२०
दशारीत्या मरणयोगमाद	१६०	९	अथ विशेषमाद	१७४	१
द्वारशालायोगक्षममाद	१६०	१०	प्रह्लदैश्वरपद्मयोगायुज्ञानमाद १७४	२०	
निष्ठपौगापयादमाद	१६०	२२	मारकपद्मनिधनयोगमाद	१७५	१
शय मूर्त्युर्ध्वं विशेषमाद	१६०	२९	पन्थान्तरे मारकपन्थानमाद	१७६	१७
प्रकारान्तरेण दीर्घायायुर्योग-			मारकेनविचारमाद	१७७	२३
अथमाद	१६१	१४	मरणसमयज्ञानमाद	१७८	१
शय पापविचारे विशिष्टे-			प्रन्थान्तरेऽप्यायुरादियोगमाद १७९	११	
परीत्यमाद	१६२	३	पन्थान्तरे शयुर्योगमाद:	१७३	२६
कथम्भूलभाद्याभित्याद	१६४	८८	पन्थान्तरे मृत्युर्योगान्तमाद	१७०	२६
शय विशेषमाद	१६४	२६	प्रकारान्तरेण मरणयोगमाद	१७८	६
पूर्वप्रतिगादितदीर्घायायुर्योगेषु			पुन प्रकारान्तरेण मृत्युर्योग-		
कथ्यादासयोगमाद	१६५	९	माद	१७८	१६
गुरुयोगेन कथ्यादासहृदि-			अन्येऽपि मृत्युर्योगाः	१७८	२६
विषयमाद	१६६	१	कष्टसुरमृत्युर्योगान्तमाद	१७९	४
अथाप विशेषमाद	१६६	१६	दाम्पद्याद	१७९	११
दीर्घायायुर्योगमाद पृदः	१६६	२७	पितॄभ्यो समे मृत्युर्योगमाद	१७९	२०
शय रुद्रार्थं चक्रम्	१६७	८	अन्यद्याद	१७९	२६
अथ प्रसागान्तरम्	१६७	८	बलपावृद्धियायुर्योगान्तमाद	१८०	१७
स्तुरार्थं चक्रम्	१६८	१	उत्तरपावृद्धियायाद	१८०	३४
शयद्यूप्योद पृदः	१६८	८	मारणस्थानमुक्तं सर्वार्थं		
पन्थान्तरे-शयुर्योगाः	१६८	१०	पितॄतामगो	१८१	९
पूर्णात्पुरुषोगादवादस्वेन निष्ठ			परिभादिष्योगमाद	१८१	१८
सर्वोत्तमिधादासमर्जन्याद १६९	१		पुशादिष्यस्थयोगमाद	१८१	११
रातिविशेषमाद	१६९	२०	पुर्वमानविश्वामैरगद्योगमाद	१८२	१०
भृशाम्भोगेण रुद्रार्थं निष्ठय			हान्येऽप्यसिद्धोगाः	१८२	११
तद्वयोन निष्ठवासीतोगाद	१८०	१४	सति दिव्याद्याप्ते प्रथमं पादः		
शम्भायपद्मनिशेषमाद शृदः	१८१	२०	अथ द्वितीयाद्याप्ते तितीयः पादः		
शृदेवि कदा मारणमित्याद	१८२	६	पितॄदारकपदमाद	१८३	१६
उत्तिष्ठनयोगमाद	१८२	१३	मारुदारकपदमाद	१८४	१३
शयद्यूप्यम्	१८२	२१	तत्र विशेषमाद	१८४	७
प्रश्नारम्भोर्जायुर्विलंपाय			माराविश्वामैरगद्यमयमाद	१८४	१०
सोद्वरपदमाद	१८३	४	अथ मन्त्रान्तरमाद	१८४	१४

जीमिनिसूभस्य

८

विषयः	पृ.	पं.	विषयः	पृ.	पं.
अश्रूदृष्ट्यचनम्	२१३	१	अश्रोदाहरणम्	२१६	१३
कारकेन्द्रियामाह	२१३	८	ग्रहाणां प्रुक्तचक्रम्	२२६	१४
कारकेन्द्रियादिरादिशा चक्रम्	२१३	१६	सूर्यमहादशायां सूर्यादिप्रहा- लामन्तरदेशाचक्रम्	२२६	१५
कान्यारथोः कारकेन्द्रियादि- शायामन्तरेण कारकेन्द्रियादि- शायामन्तरेण २१४	२१४	२	चन्द्रमहादशायां चन्द्रादिप्र- हाणामन्तरदेशाचक्रम्	२२७	१
अश्रूदृष्ट्यचनम्	२१६	११	कुम्भमहादशायां कुम्भादिप्रहा- लाणामन्तरदेशाचक्रम्	२२७	२
अन्तर्देशाविभागमाह	२१६	४	राहुमहादशायां राहुदिप्रहा- लाणामन्तरदेशाचक्रम्	२२७	३
प्रहृतेन्द्रियादिशायाचक्रम्	२१६	८	गुरुमहादशायां गुरुर्दिप्रहाणा- मन्तरदेशाचक्रम्	२२८	१
प्रकारान्तरेण कारकेन्द्रियादि- शायामन्तरेण २१६	२१६	८	शनिमहादशायां शन्यादिप्रहा- लाणामन्तरदेशाचक्रम्	२२८	२
प्रकारान्तरेण कारकेन्द्रियादि- शायामन्तरेण २१८	२१८	१	बुधमहादशायां बुधादिप्रहाणा- मन्तरदेशाचक्रम्	२२८	३
प्रकारान्तरेण कम्योराथोः कारकेन्द्रियादिशायामन्तरेण-			वैत्तमहादशायां वैत्तादि- शायामन्तरदेशाचक्रम्	२२९	१
शाचक्रम्	२१९	१	प्रहाणामन्तरदेशाचक्रम्	२२९	१
अश्रफलमाह	२१९	२	गुरुमहादशायां गुरुकादि- शायामन्तरदेशाचक्रम्	२३०	२
मण्डूदशायामाह	२२०	१	राहुग्रामन्तरदेशाचक्रम्	२३०	३
मण्डूकदशायाचक्रम्	२२०	११	ठपदशानयनम्	२३०	३
धनुराशेषण्डूकदशायामन्तरे- शायाचक्रम्	२२१	२	सूर्यमहादशायां सूर्यान्तरदेशा- यासुष्पदशाचक्रम्	२३०	१
शूलदशायामाह	२२१	२	सूर्यमहादशायां चन्द्राभृत- शेषामासुष्पदशाचक्रम्	२३०	२
सर्वदशास्त्रायारथेन दशारनम्- दशादूननप्तोविदेष्माह	२२२	१	सूर्यमहादशायां गुरुमन्तरदेशा- यासुष्पदशाचक्रम्	२३०	३
नक्षत्रदशानयनमाह	२२२	७	सूर्यमहादशायां राहुन्तरदेशा- यासुष्पदशाचक्रम्	२३०	४
नक्षत्रादृदशापतिक्षानायेमाह	२२२	११	सूर्यमहादशायां गुरुमन्तरदेशा- यासुष्पदशाचक्रम्	२३१	१
प्रहृष्टाणां दशाचर्ष्णवर्णमाह	२२३	२०	सूर्यमहादशायां राहुन्तरदेशा- यासुष्पदशाचक्रम्	२३१	२
दशाज्ञानाय चक्रम्	२२३	३	सूर्यमहादशायां गुरुमन्तरदेशा- यासुष्पदशाचक्रम्	२३१	३
भुक्षमोत्त्वदशाचर्ष्णवर्णनप्तमाह	२२४	६	सूर्यमहादशायां गुरुमन्तरदेशा- यासुष्पदशाचक्रम्	२३१	४
विशेषीत्तीमहादशाचक्रम्	२२५	१	सूर्यमहादशायां गुरुमन्तरदेशा- यासुष्पदशाचक्रम्	२३१	१
अन्तर्देशानयनमाह	२२५	२	सूर्यमहादशायां गुरुमन्तरदेशा- यासुष्पदशाचक्रम्	२३१	२
अन्तर्देशानयनमाह भद्रीय प्रथम्	२२६	१	सूर्यमहादशायां गुरुमन्तरदेशा- यासुष्पदशाचक्रम्	२३१	३

॥ श्री शुशन्तो नम ॥

अथ जैमिनिसूत्रम् ।

सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाद्वयसहितम् ।

तथ प्रथमाष्ट्याये प्रथमः पादः ।

अथ टीकापर्यामद्वलाचरणम्—

यन्दानेऽभिनवपारिदर्श्यस्पाँ
वाली मुख्यमृतिपृजिनपादस्पाम् ।

स्वेराजनां गट्ठामुन्दरक्षेशापामो
पाप्ताम्बरां ग्नरक्षरेनिरामयनाम् ॥

यान्त नितान्तं गुरुषाद्युगम रवान्ते निधायाय परोगि याएवाम् ।
मत्त्वाद्भूत्युदे गनोऽता दीर्घं गुरुकां गुरुवानि हिन्दाम् ॥

अथ द्वादशं अंशितिर्थामित्रेशामस्मद्वत्तमाद—
उपदेशं एषाषयाम्यामः ॥ ३ ॥

१ पादः] सोदाहरण-यिमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाह्रयसहितम् । ३

अथ सम्मुखराशिविषये कस्यचित्पद्यम्—

स्थिरराशेः पष्टुराशिविषयस्याग्रम एव च ।

द्विस्वभावस्य राशेस्तु सप्तमः सम्मुखो मतः ॥

भाषा—चरादिराशि अपने सम्मुख और सम्मुख के चरादिसज्जातीय पाइर्वंवर्ती दोनों राशियों को देखते हैं ।

अथवा चरादि राशि अपने सम्मुख और पाइर्वंवर्ती दोनों राशियों को देखते हैं । यहां चर का स्थान से पश्चम, पूकादा । स्थिर का तृतीय, नवम और द्विस्वभाव का चतुर्थ, दशम पाइर्वंवर्ती राशि सप्तमना चाहिए ।

अर्थात् चर राशि अपने से द्वितीयस्य स्थिर को छोड़ कर सब स्थिर को देखता है । स्थिर राशि अपने से बाहरने चर को छोड़ कर याकी सब चर को देखता है । द्विस्वभाव राशि अपने को छोड़कर याकी सब द्विस्वभाव को देखता है ।

स्थिर पा पष्ट, चर का अष्टम द्विस्वभाव का सप्तम राशि सम्मुख होती है ॥ २ ॥

अथ प्रहृष्टिमाह—

तत्रिष्टान्न तद्रत् ॥ ३ ॥

विद्—तत्रिष्टान्न तद्रत्=तेषु चरस्थिरद्विस्वभावराशिषु, निष्ठा=स्थिताः प्रदा. तद्रत्=राधिष्यज् शेया., अर्थात् स्वस्थानाद्यानि स्थानानि राशयः पद्यन्ति तद्राशि-वर्तमाना प्रदा अपि तानि निष्ठानानि तत्स्थानस्थान् प्रदाद्य परथन्तीति । दृश्यरा-शिषु वर्तमाना यागा. दृश्यराशिसमाना, द्रष्टृराशिषु वर्तमानाद्य द्रष्टृराशिसमाना-स्तस्मात् द्रष्टारो प्रदा: दृश्यराशान् तत्र स्थान् येऽत्यावलोकयन्तीति । द्रष्टुर्भैरहस्य-तद्राशिष्टव्यात्तद्राशिगतचरत्वादिष्मत्वाच्येति ॥ ३ ॥

भाषा—चरादि राशियों में वर्तमान यह भी उन चरादि राशियों के रामान स-सम्मुख, तथा उनके पाइर्वंस्थित राशियों को और उद्भूत पद्धों को देखते हैं । उसे चर-राशि में स्थित प्रदा द्वितीय स्थिर राशि और उद्भूत पद्धों को छोड़ कर सब स्थिर राशि और उद्भूत पद्धों को देखते हैं अर्थात् अपने से अष्टम, पश्चम, और पूकादा स्थानस्य-राशि तथा उद्भूत पद्धों को देखते हैं । निष्ठर राशि में रहने वाले प्रदा द्वादशस्य राशि और उद्भूत पद्धों का छोड़ कर याकी तीनों चर राशि तथा उद्भूत पद्धों को देखते हैं । अर्थात् अपने से पष्ट, तृतीय और नवम राशि तथा उद्भूत पद्धों को देखते हैं । पृथ्वे द्विस्वभाव में रहने वाले प्रदा अपने राशि आर उद्भूत पद्धों को छोड़ कर सब द्विस्व-भाव राशि तथा उद्भूत पद्धों को देखते हैं । अर्थात् अपने से चतुर्थ, सप्तम और उत्तम को देखते हैं ॥ ३ ॥

अत्रायमर्थः—कादि नव, टादि नव, पादि पञ्च, यायष्टी, एवं चत्वारो वर्णा अद्वानां ज्ञानाय स्तीकृताः । अचि परे कट्ययवर्गभैः पिण्डान्तैरस्तरैरङ्गा ज्ञेयाः, संयुक्ताक्षरस्यान्तिमवर्णो यस्तस्य योङ्गः स ज्ञेयः । नकारे नकारे तथा केवले स्वरे सति शून्यं शून्यसमं कथितम् ।

अथ “अद्वानां वामतो गतिः” इति रीत्या सर्वेषां अद्वानां संख्यां विन्यस्य भावानां द्वादशसमत्वाद् द्वादशमिर्मागमाहृत्य शेषमिताऽवभावसंख्या ज्ञेया । यथाऽन्न दार शब्दे दा, र, इत्यक्षरद्वयमस्ति तत्र दा इत्यस्याष्टतुन्यसंख्या, र, इत्यस्य द्विसंख्या । अद्वृन्यासरीत्या न्यासे कुते=२८, द्वादशतष्टेऽप्तवर्षं चतुःसं-ख्याऽतो दारशब्देन चतुः संख्याऽभिहिता । एवं भाग्यशब्दे भा, ग्य इति पिण्ड-द्वयं वर्तते, तत्र भा इत्यस्य चतुःसंख्या, ग्य इत्यस्यान्त्याक्षरप्रहणेन यकारः समाचातस्तत्संख्या १, अतः भाग्य=१४, द्वादशतष्टे द्विसंख्या । एव शब्दशब्दे दा, ल इति पिण्डद्वयं, तत्र शूइत्यस्य पश्चसंख्या, ल इत्यस्य त्रिसंख्या, तेन शूल=३५, पश्चविशत् । द्वादशतष्ट-एकादश शेषमिति । अतो दारभाग्यशूलस्थाक्षतुर्थ-द्वितीयैकादशस्थानस्था इति भवति ॥ ४ ॥

भाषा—जिस किसी भाव के देखने वाले यह से दार (चतुर्थ), भाग्य (द्वितीय) और शूल (एकादश) इन स्थानों में यह हो तो विस भाव का विचार किया जाता है उस भाव पर अर्गला संज्ञक योग होता है, इस को कर्त्तरी भी कहते हैं ।

इस प्रथमे कट्यादि अक्षरों के बश ही भावों का बोध करते हैं । कट्यादि क्र-मध्ये आये हुए अद्व वारह से अधिक हो तो १२ से भाग देकर शेष भाव संख्या होती है

फकार से लेकर छकार पर्यन्त पृकादि नव संख्या, टकार से लेकर धकार पर्यन्त एकादि नव संख्या, पकार से लेकर मकार तक पृकादि पांच संख्या, यकार से लेकर इकार तक पृकादि आठ संख्या प्रदण करते हैं । नकार, यकार और व्यञ्जन वर्जित अकार से लेकर औकार पर्यन्त नव स्वर को शून्य के समान कल्पना करते हैं । तथा यद्वा पिण्ड (संयुक्त) अक्षर हो यहाँ अन्त्य अक्षर से अद्व प्रदण करते हैं ।

जैसे दार इस भाव सूचक शब्द में द्वकार की संख्या आठ और रकार की संख्या दो हुए, इसको धामगति से रखने से २८ हुए, इन में वारह का भाग देने से शेष घार येंचे, यहाँ दार शब्द की संख्या है । अपांत् घुर्युभाव को दार कहते हैं । इसी तरद स्व भाव का शान करना यादिषु ॥ ४ ॥

अथ कठपयादिसंख्याबोधकचक्रम्—

थ=०	क=१	ट=१	प=१	य=१
इ=०	ख=२	ठ=२	फ=२	र=३
उ=०	ग=३	ड=३	ब=३	ल=३
ऋ=०	घ=४	ढ=४	भ=४	व=४
ख्ल=०	ड्ह=५	ण=५	म=५	श=५
ए=०	च=६	त=६	×	य=६
ऐ=०	छ=७	थ=७	×	स=७
ओ=०	ज=८	द=८	×	इ=८
औ=०	श=९	ष=९	×	×
× ×	व=०	न=०	×	×

अथ पापमात्रकृतार्गलामाह—

कामस्था भूयसा पापानाम् ॥ ५ ॥

विऽ—कामस्थेति । द्रष्टव्येष्ठदृश्य वा कामस्था=तृतीयस्थानस्था याडगंला गा, पापानाम्=पापप्रदाणा, भूयसा=वाहुभ्यो भवति । पापप्रदाणा वाहुत्य शिग्रमृतिषु पापप्रदेषु सत्यु भवति । तस्मात् शिग्रमृतिषु पापप्रदेषु कामस्थानस्थितेष्वेचार्गला भवति, न तु द्वाभ्यामेतेज वेत्यर्थ । इयमर्गं ताडप्रतिवर्णना । महर्विभि श्रतिवायकस्यानुष्टव्यात् ॥ ५ ॥

भाषा—पापपदो (मूर्ख, मङ्गल, कृत्या पश्चामी से ऐंकर इक्के पश्चामा तक का चन्द्रमा, शनैँद्वधर, रात्रु, वेतु और पापदह से युगे युग) में से तीन या उष से अधिक दृष्टा यह से तृतीय स्थान में हो सो आर्गला संशुक पोग होता है । इष मूर्ख में पापपदो का

भाद्रुलय कहने से द्रष्टा प्रह से तृतीय स्थान पर एक या दो पाप प्रह हों तो अर्गला संज्ञक योग नहीं होता है ॥ ६ ॥

अथ प्रसङ्गादन्यजातकोक्तप्रप्रहानाह—

क्षीणेन्द्रक्यमाराः पापास्तैः संयुतः सौम्यः ।

भाषा—क्षीण चन्द्रमा, रवि, शनि, मङ्गल और हन प्रहों से युत बुध ये पापप्रह हैं । तथा राहु, केतु भी पापप्रह हैं । ये प्रह (पूर्ण चन्द्रमा, शुहस्पति, शुक्र और पापप्रह से वियुत बुध) शुभप्रह हैं ।

अथ चतुर्थसूत्रोकार्गलावाधकस्थानान्याह—

रिः फ-नीच-कामस्था विरोधिनः ॥ ६ ॥

विं०—रिः फ-नीचति । रिः फ-नीच कामस्थाः=दशमद्वादशतृतीयस्थानस्थिताः प्रहाः कमेण, विरोधिनः=अर्गलाया वाधका भवन्ति । तथा चतुर्थस्थानस्थाया अर्गलाया दशमस्था प्रहा वाधकाः, द्वितीयस्थानस्थाया अर्गलाया द्वादशस्था प्रहा वाधकाः, एकादशस्थानस्थाया अर्गलाया तृतीयस्था प्रहा वाधका भवन्ति । तस्मात् दशमद्वादशतृतीयस्थानेषु प्रहाभावस्तेतदा चतुर्थद्वितीयैकादशस्थानगैः जेटैर्गलायोगो भवति नान्यथा ॥ ६ ॥

भाषा—जिस राशि का विचार किया जाय उसको देखने वाले प्रह से श्रमने दशम, द्वादश और तृतीय में अगर प्रह हो तो अर्गला योग के वाधक होते हैं । जैसे चतुर्थस्थान स्थित अर्गला योग कारक प्रह का दशम स्थान स्थित प्रह वाधक होता है । द्वितीय स्थान स्थित अर्गला योग कारक प्रह का यारहवे स्थान में स्थित प्रह वाधक होता है । और एकादश स्थान स्थित अर्गला योग कारक प्रह का तृतीय स्थान स्थित प्रह वाधक होता है ॥ ६ ॥

अथ वृद्धकारिका—

भयपुण्डविनाभावा द्रष्ट्वराहुः शुभार्गलम् ।

स्फुटयोरेयभावात् विपरीतार्गलं विदुः ॥

भाषा—जिस राशि का विचार किया जाय उसके देखने वाले प्रह से भय (द्विसौय), पुण्ड (एकादश) और विना (चतुर्थ) स्थानमें कोई प्रह हो तो शुभ अर्गला योग कहते हैं । यदि द्रष्टा प्रह से स्फुट (द्वादश), गो (तृतीय) और शेष (दशम) स्थान में प्रह हो तो वस्त्रो द्वितीय, एकादश और चतुर्थ स्थान स्थित अर्गला कारक प्रहों के प्रति वन्धक होते हैं ।

१ पाद] सोदाहरण-चिमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाद्यसहितम् । ६

अथ प्रतिवन्धकस्थाने प्रहसन्तवेऽपि प्रतिवन्धकाभावमाह—
न न्यूना विवलाश्च ॥ ७ ॥

विषेण न्यूनेति । अर्गलायोगकर्त्तुप्रहेभ्यो ये प्रतिवन्धकस्थानहिता प्रहास्ते न्यूना=न्यूनसंख्याका , विवला=निर्वलाद्येत्युस्तदा ते प्रतिवन्धकान भवन्ति । तथा चेदर्गला कर्त्तारो प्रहास्यो द्वौ चेद्वायकी तदा ही योग प्रतिवन्धकी न भवेत्ताम् । द्वौ चेदर्गला कर्त्तारी प्रहासेऽद्वेत्प्रतिवन्धकस्तदापि योगप्रतिवन्धको न भवेदिति न्यूनार्थ । तथा चेद् वश्यमाणप्रकाशानीतवरेषु प्रतिवन्धकप्रहा निर्वला-स्तदा योगभास्त्राकास्ते न स्य ॥ ८ ॥

भाषा—अगर अर्गला योग कारकप्रहों से अर्गला योग वाधक प्रह अल्प संख्यक हों अथवा अर्गला योग कारकप्रहों से अर्गला योग वाधक प्रह निर्वल हों तो प्रतिवन्धक नहीं होते हैं । अर्थात् अर्गला योग कारक तीन हों और अर्गला प्रतिवन्धक प्रह दो हों तो प्रतिवन्धक नहीं होते हैं । वा अर्गला योगकारक प्रह दो हों और प्रतिवन्धक प्रह एक ही हो तो प्रतिवन्धक नहीं होता है । तथा वश्यमाण रीति से सब प्रहों के बल लाकर उस में अर्गला योग कारक प्रह से प्रतिवन्धक प्रह निर्वल हो तो प्रतिवन्धक नहीं होता है ॥ ८ ॥

अथान्यार्गलामाह—

प्राप्यत्विकोणे ॥ ९ ॥

विषेण प्राप्यत्विकोणे=प्रहसन्धमयो , प्राप्यत्वत्=पूर्वसुप्रवत् (अर्गलातत्प्रतिवन्धकस्यात्) । अर्थात्यन्तमें प्रहसन्तेऽर्गला, नवमें न्यूनसंख्याक-निर्वलप्रहसन्तवे तत्प्रतिवन्धक ॥ ९ ॥

भाषा—प्रथम और नवम स्थानमें प्रह होने पर दूसोंक सुशब्द अर्गला और अर्गला प्रतिवन्धक होता है । जसे देखने वाले प्रह से प्रथम स्थानमें प्रह होतो अर्गला होता है । यदि उस देखने वाले प्रह से नवम स्थानमें कोई प्रह हो तो अर्गला प्रतिवन्धक होता है । यदि प्रथमस्थान चित्त प्रह से नवम स्थान हित प्रह अल्प संख्यक या निर्वली होतो अर्गला योग का प्रतिवन्धक नहीं होते हैं ॥ ९ ॥

अथ राहुकेऽप्तेऽप्तोर्गला तद्प्रतिवन्धकस्थानमाह—

यिपरीतं येतो ॥ १० ॥

विषेण विपरीतमिति । केतो =तमोप्रहस्य राहुकेऽप्तोर्गला यिपरीत=अर्गला तत्प्रतिवन्धकस्थानय विलोम शेषम् । तथा यत्र रिपतस्तमोप्रहस्तमाश्यमस्थान

स्थिता प्रहा अर्गलायोगविधायका भवन्ति । तद्मादेव पश्चमे स्थिता प्रहास्तत्प्रतिवन्धका भवन्ति ।

अत्र “दारभास्यशूलस्थाऽर्गला निष्यातुः” “रिःक-नीच-कामस्था विरोधिनः” अनयोः सूत्रयोरेवान्तरे “प्राग्वत्तिकोणे” इति सूत्रस्य न कथं निवेशीकृतः, अर्थात्-दारेत्यादिसूत्रे पश्चमसंख्यायोधकाक्षरस्य रिःकेत्यादिसूत्रे नवमसंख्यापूरकाक्षरस्य च कथं न निवेशो विहित इति नाशङ्कनीयम् । एवं चेत् “विपरीतं केतोः” इति सूत्रे दारेत्यादिसूत्रप्रतिवादितानामर्गलास्थानानां रिःफेत्यादिसूत्रप्रतिपादितानां तद्वाधकस्थानानां च सर्वेषां प्रवृत्तिः स्यात् । परव राहुके वोर्नवमपवमस्थानयोरेव कमेणार्गलायोगतप्रतिबन्धकस्थानत्वात् साहित्योक्तेन सर्वेषां प्रहणात्पृथगुदाहत इति ।

केचिदत्रेत्यमपि दाङ्कन्ते यत् “विपरीतं केतोः” इति सूत्रस्य दारेत्यादिसूत्रे-रिःफेत्यादिसूत्रे च प्रवृत्तिरिति । तदपि न “प्राग्वत्तिकोणे” इत्यस्य दारेत्यादि-रिःफेत्यादिसूत्राभ्यां पृथग् दर्शनात् ।

केचित् “प्राग्वत्तिकोणे” इति सूत्रे नवमपवमस्थानयोद्द्ययोरपि मध्ये प्रतिवन्धकशून्यार्गलां जल्पन्ति, तदपि न “प्राग्वत्तिकोणे” इति सूत्रात् “कमस्था भूयसा पापानाम्” इत्यस्याब्यवहितप्रागदर्शनात् ॥ ९ ॥

भाषा—यदि द्रष्टा पह केतु या राहु हो तो उस का अर्गला और प्रतिवन्धकस्थान विपरीत होता है । जैसे केतु या राहु से नवम में रहने वाला पह अर्गला योगकारक होता है, और पश्चम स्थान में रहने वाला पह उसका प्रतिवन्धक होता है ।

यहां पर प्रश्न यह ऊँटा है कि “दार भास्यशूलस्थार्गला निष्यातुः” इस सूत्रमें पांच संख्या योधक अक्षर और “रिःक-नीच-कामस्था विरोधिनः” इस सूत्रमें नवसंख्या योधक अक्षर दोनों से “प्राग्वत्तिकोणे” इस सूत्र का काम निकल जाता तां पृथग् सूत्र क्यों बनाये ।

इसका समावान यह है कि अगर दारेत्यादि सूत्र, रिःकेत्यादिसूत्र इन दोनों में “प्राग्वत्तिकोणे” इस सूत्र को मिला देते हों “विपरीतं केतोः” इस सूत्र का प्रवृत्ति सर्वप्र हो जाती । किन्तु “विपरीतं केतोः” इस सूत्रही प्रवृत्ति केवल “प्राग्वत्तिकोणे” इसी सूत्र में होने के कारण अलग पाठ किया गया ।

बहुत दीक्षाकारों ने “विपरीतं केतोः” इस सूत्र की प्रवृत्ति “दारभास्यशूलस्थार्गला निष्यातुः” “रिःकनीचकामस्था विरोधिनः” इन दोनों सूत्र में भी पतलाया है । परव अगर हमी तरह जमिनि का मरव रहता हो “प्राग्वत्तिकोणे” इस सूत्र को अलग क्यों लिखें, अतः उनका पतलाना ढीक नहीं है ।

किसी टीकाकार का मत है—कि “प्राच्वतित्रकोणे” इस सूत्र में नवम, पञ्चम इन दोनों स्थानोंमें प्रतिश्वस्क रहित अर्गला होती है, सो भी ठीक नहीं है, अगर “प्राच्व-तित्रकोणे” इस सूत्र के अव्यवहित पूर्व में “कामस्त्या भूयसा पापानाम्” इस सूत्र का पाठ रहता तो साहचर्य से उम का मत ठीक घमजा जाता । किंतु इस सूत्र से अव्यवहित पूर्व में अन्य सूत्रों को रहने के कारण ऐपा अर्थ करना विलकुल असङ्गत है ॥१॥

— अनोदाहरणम् ॥

श्रीमन्तृपतीन्द्रविक्रमसमत्सरे = १९६५, शालिवाहनशके = १८३०, यवनीयसनाद्वे = १३१६, आदिवनशुक्लसमन्या घटथादिमानम् = (३१०१), मूलनक्षत्रे घटथादिमानम् = (५०१०६), सौभाग्यबोगे घटथादिमानम् = (३४३३), गढ़रणे घटथादिमानम् = (३४४२) तदुपरि वणिते, शुक्रान्तरे श्रीसूर्यभुक्तहन्योशकाद्या = (१६१३११५), तत्र श्रीमन्मार्तण्डमङ्गलाधादयादूषतेष्टयन्य = (१७१२६), एतस्मिन् समये कस्यचिज्ञम् जातम् ।

तत्र दिनमानम् = (२९१३०), भिन्नमानम् = (४४१५१), रेखादशात्मूर्द्धेशा न्तरयोजनानि = १२७, इदेशे पलभा = ६, चरखण्डानि = (६०१४८१२०)

अथ मिथ्रेषान्तरानयनम्—

पक्षि स्वेष्टाद्वयेदप्ते पक्त्यामिष्ट विद्योघयेत् ।

तच्चालनमृण ज्ञेय अद्यत्ययाद् व्यत्यय विदु ॥

आपा—पदारू में जिस वारादि समय के यह रहते हैं उमको पक्षि (प्रस्ताव) कहते हैं । यह पक्षि इष्ट काल से आग हो सो पक्षि भी इष्ट काल को घगने से मिथ्रेषान्तर भूषण (क्लृण चालन) होता है । अगर पक्षित से इष्ट काल आग हो तो इष्ट काल में पक्षित को घगने से मिथ्रेषान्तर भूषण (घन चालन) होता है ।

उदाहरण—यहा दिवादि पक्षि (मिथ्रमान) ~ (३४४१५१) होता है, और दिनादि इष्टकाल = (३४१७२६) होता है । यही पक्षि से इष्टकाल को आगे होने के कारण इष्ट काल भी पक्षि को घगया तो नेत्र वारादि = (३४३१३९) — मिथ्रेषान्तर घन होगा ।

अथ पञ्चाङ्गस्थप्रहवकम्—

हा:	रवि:	कुजः	बुधः	गुरुः	शुक्रः	शनिः	केतुः
राशयः	५	८	६	४	३	११	८
अंशाः	१३	४	१०	११	२८	१३	९
कलाः	१६	१२	३	५६	५९	३२	२५
विकलाः	१६	४६	५५	४८	५७	२९	२७
गतिः	ग.	ग.	ग.	ग.	ग.	ग.	ग.
कलाः	५९	३८	५६	१३	६५	४	३
विकलाः	५	३०	११	५०	७	३३	११

अथ पञ्चिस्थप्रहाणो तात्कालिकीकरणमाह—

गतैष्वदिवसायैन गतिर्निघ्नी रपद्धता ।

लघेनांशादिना शोध्यं योज्यं स्पष्ट्या भवेदभ्यः ॥

भाषा—प्रहों की गति को धन चालन या ऋण चालन से (गोमूर्गिका क्रम धरके) गुणा करे, गुणन फल में साठ का भाग देवे लघिय जो अंशादि चालन हो उसको पञ्चाङ्गस्थ (पञ्चिस्थ) प्रहों में हीन या युक्त करे अर्थात् मिथेष्टान्तर ऋण होने से पञ्चिस्थ प्रह में चालन को घटावे और मिथेष्टान्तर धन होने से पञ्चिस्थ प्रह में चालन को युक्त करे, ऐसा करने से तात्कालिक प्रह होते हैं ।

धर्म वक्त्री हो तो पञ्चिस्थ प्रह में चालन विलोम संस्कार करना चाहिए । जोमे मिथेष्टान्तर धन होने से पञ्चिस्थ प्रह में चालन को युक्त करे, और मिथेष्टान्तर ऋण होने से पञ्चिस्थ प्रह में चालन को धन करे ऐसा करने से वक्त्री प्रह तात्कालिक सुप्त प्रह होते हैं ।

अथ प्रहाणो चलनव्यवस्थायां मदुष्पवयम्—

मार्गिणो सततं स्यातां पुष्पवन्तो स्ववर्त्मनि ।

वक्त्रिणो राहुकेतु स्ताः दोपाः स्युर्मार्गिष्वक्त्रिणः ॥

भाषा—रवि और चन्द्रमा सदा मार्गी रहते हैं । राहु और केतु सदा वक्ती रहते हैं । शेष प्रह (मङ्गल, बुध, वृहस्पति, शुक्र और शनि) मार्गी, वक्ती दोनों होते हैं । यह पञ्चाहू में भली भासि देख कर प्रह स्पष्टी करण करे ।

ददाहरण—पूर्वांनीत मिथ्रेषान्तरधन—(२३२३५) इतना है, इसको सूर्य की गति—(५१५) से गोमूत्रिका क्रम कर के गुण किया तो कलादि गुण फल—(१५०११) इतना हुआ, इस में साठ का भाग दिया तो लविध अंशादि चालन—(२३०१९) इतना हुआ, यहा मिथ्रेषान्तर धन होने के कारण इस को पञ्चाहूस्य सूर्य-राश्यादि—(११३१६१६) में युक्त किया तो तात्कालिक स्पष्ट सूर्य—(११४६१३१) हुआ, इसी तरह कुजादि प्रहों को तात्कालिक करना चाहिये ।

अथ भयातभभोगसाधनमाद्—

गतर्क्षनाडी दरसेषु शुदा सूर्योदयादिष्ठटीषु युचा ।

भयातसशा भवतीह तस्य निजर्क्षनाडी सहिता भभोग ॥

भाषा—जिस नक्षत्र में जन्म हो उस की भुक्त (व्यतीत) घटियों को भयात कहते हैं अर्थात् नक्षत्रादि से इष्टकाल पर्यन्त वो भयात कहते हैं । और भुक्त, भोग्य घटियों के योग वो भभोग कहते हैं, अर्थात् नक्षत्रादि से नक्षत्रान्तर पर्यन्त जो घटी पला हों उन को भभोग कहते हैं ।

इन दोनों को लाने का प्रकार-पञ्चाहू में जिय नक्षत्र में जन्म हो उस से पिछड़े नक्षत्र का जो सूर्योदय से घट्यादि मान हो उसको ६० में घनाम, शेष घट्यादि में इष्टकाल को जोड़ देवे, वह भयात हो गा है । उसी शेष में इष्ट कालिक नक्षत्र का सूर्योदय से भोग्य घट्यादि मान जोड़ देने से भभोग होता है ।

अथ विशेषो भद्रीय —

यदाऽभीष्मान गतर्क्षोनपर्युताऽभीष्मानादिशोभ्य भमानम् ।

भयात तदेव गतर्क्षोनपर्युताऽभीष्मानक्षत्रमानैर्भभोग ॥

भाषा—अगर गत नक्षत्र के सूर्योदय से भोग्य घट्यादि मान से अभीष्म घट्यादि मान ज्यादा हो तो इष्ट घट्यादि मान में गत नक्षत्र के सूर्योदय से भोग्य घट्यादि मान को घटावे शेष भयात होता है । और गत नक्षत्र के सूर्योदय से भोग्य घट्यादि मान को साठ में घटा कर यतंमान नक्षत्र के सूर्योदय से भोग्य घट्यादि मान को जोड़ देने से भभोग होता है ।

ददाहरण—पूर्णक ददाहरण में गत नक्षत्र ज्येष्ठा का सूर्योदय से भोग्य घट्यादि मान—(५१५८) इतना है । इष्ट घट्यादि मान—(१३१६) इतना है । और यतंमान नक्षत्र मूल का सूर्योदय से भोग्य घट्यादि मान—(५१०८) इतना है । गतसंघट्यादि मान—(५१५८) को ६० में घट्यादि तो देव १२ इतना रहा, इसको

इष्टघटी में जोड़ा तो भयात् = (२१२९) इतना हुआ। उसी शेष को घर्तमान नक्षत्र के धर्यादि में जोड़ा तो भभोग = (६१०९) इतना हुआ। जहाँ पर गत नक्षत्र के धर्यादि भान से इष्ट धर्यादि भान ज्यादा हो वहाँ उन दोनों का अन्तर तुल्य भयात होता है। भभोग पूर्ववत् साधन करे।

अथ चन्द्रस्पष्टीकरणमाह—

राष्ट्रधनं भयात् भभोगोद्घृतं त-

त्खतर्क्षन्धिष्येषु सुकर्तं द्विनिधनम् ।

वासं शशी भागपूर्वस्तु भुक्तिः

खखाप्राहवेदा (४८०००) भभोगेन भक्ताः ॥

भाया—भयात् और भभोग में धटी और पला ये दो खण्ड हैं। अतः धटी को साठ से गुणाकर पला जोड़ देने से एक जातीय पलात्मक भयात् और भभोग हो जायगा, इस एक जातीय भयात् को साठ से गुणा कर एक जातीय भभोग का भाग देने पर लक्ष्य जो आवे उस को अलग रखे, शेष को साठ से गुणा कर गुणन फल में फिर भभोग का भाग देने पर लक्ष्य जो आवे उसको प्रथम लक्ष्य के आगे रखे, फिर शेष को साठ से गुणा कर भभोग का भाग देने पर लक्ष्य को द्वितीय लक्ष्य के आगे रखे, इस प्रकार तीन खण्ड की लक्ष्य होगी। बाद अश्विन्यादि गत नक्षत्र संलग्न को साठसे गुणा कर गुणन फल जो हो उस को लक्ष्य के प्रथम खण्ड में जोड़ देवे। इस खण्डचयात्मक लक्ष्य को दो से गुणा कर नव का भाग देना, लक्ष्य अंशादि चन्द्र होता है। उंश में तीस का भाग देने से राश्यादि चन्द्र होता है।

उदाहरण— वौक्त उदाहरण में भयात् = (२१२९), और भभोग = (६१०९), इतना है। यहाँ एक जातीय करने के लिये भयात् धटी = (२६) को साठ से गुणा किया तो (१९००) इतना हुआ, इस में पला = (२१) जोड़ा तो एक जातीय भयात् = १६२९ इतना हुआ। एवं एक जातीय भभोग = १८ × ६० + १ = १४८० + १ = १४८१ इतना हुआ। अब इस भयात् = (१६२९) को साठ से गुणा किया तो १६२९ × ६० = ९१३४० हुआ, इस में एक जातीय भभोग = (३४८१) का भाग दिया तो प्रथम लक्ष्य = ३६ इतना हुआ, और शेष = १०२६, इस शेष को साठ से गुणा किया तो (६१९६) इतना हुआ, किर इसमें भभोग का भाग दिया तो द्वितीय लक्ष्य = १०, शेष = २२४७ इतना हुआ, फिर इस शेष को साठ से गुणा किया तो २२४८० इतना हुआ, फिर इसमें भभोग का भाग दिया तो तीसरी लक्ष्य = ३८ और शेष = २२१६, इतना हुआ। स्वल्पान्तर से आगे के खण्ड न लाने के कारण “आधार-पिके रूपं प्राप्यम्” इस नियम से तीसरी लक्ष्य = (३८) में एक जोड़ा तो तीसरी लक्ष्य = ३९ हुआ। अतः भमये लक्ष्य = (२६१३४८१) इतना हुआ, अब गत नक्षत्र


जयेष्ठा होने के कारण आदिवन्यादि क्रमगणना से गठ नक्षत्र संख्या = १८ हुआ। इसको साठ से गुणा किया तो $18 \times 60 = 1080$, इतना हुआ, इसको लघिय में जोड़ा तो 110631439 इतना हुआ। इस को दो से गुणा किया तो - (10631439) $\times 2 = (2212628188$) = (2212628188) इतना हुआ। इन तीनों खण्डों में नवका भाग देना है तो पहले प्रथम खण्ड = २२१२ में नवका भाग दिया तो लघिय = २४६ आया, शेष = ७ चता, इस को साठ से गुणा कर = ४२०, दूसरा खण्ड = ३९ जोड़ा तो ४६६ हुआ, इस में नवका भाग दिया तो लघिय = १०, आया शेष = ८, हुआ इसको दूसरा गुणा कर तीसरा खण्ड १८ जोड़ा तो ३१८ हुआ, इसमें ९ का भाग दिया तो लघिय = ३६ आया, शेष = ३, “अधर्वालिपेत्यान्यम्” इस वियम से इस शेष को नहीं छहन किया। अतः लघिय = (2212628188) = अंशादि चन्द्र हुआ, चंद्र में तीस का भाग दिया तो रात्रयादि चन्द्र = (110631439) इतना हुआ।

अथ ताल्कालिकस्तुत्यग्रहाः संगतिकाः—

रविः	५११५१४६१३१	गतिः	५३१०५
चन्द्रः	८१०५१५०१३५	गतिः	८२५१३७
शौमः	५१०९१५९१०८	गतिः	३८१३०
सुधः	६१९३ २६१३१	गतिः	५६१११
गुरुः	४११६१२६ ०९	गतिः	१२१५०
शुक्रः	४१०१ ३५१३३	गतिः	६५१०७
शनिः	११११३१२००५५	गतिः	४१३३
रहुः	२१०६१ ७१२१	गतिः	३११
फेतुः	८१०९११ १२१	गतिः	३११

* जन्म-कुण्डली *

श. १२



अर्गलावोधकचक्रम्—

केतुवर्जितान्येषा प्रदीपाम्

अर्गलास्थानानि	वापषकस्थानानि
४	१०
१	१२
११	३
५	१
३	०
केतुराहो	
अर्गलास्थानानि	वापषकस्थानानि
९	५

अर्गला-विवेकोददाहरण—

पहुँचे अहार्गला के विचार का उदाहरण लिखते हैं । जैसे रवि से द्वितीय अर्गला स्थान में बुध है, उस के प्रतिवन्धक स्थान द्वादश में शुक्र और शृङ्खलति हैं, अब 'रिष्टनोचकामल्पा विरोधिन' इस सूत्र से अर्गला योग नहीं हुआ । तथा रवि से चतुर्थ अर्गला स्थान में चन्द्रमा और केतु हैं, उसके वापषक दशम स्थान में वेवल एक राहु है, अत "न न्यूना विवलादृच" इस सूत्र से अर्गला योग वापषक राहु नहीं हुआ । अर्थात् चन्द्रमा और केतु अर्गला योग कारक हुए । तथा रवि से पश्चम एकादश और चृतीय स्थानों में कोई प्रह न होने के कारण पश्चम, एकादश और चृतीय-स्थानीय अर्गला योग नहीं हुए ।

अब चन्द्रमा से विचार करते हैं । जैसे चन्द्रमा से द्वितीय अर्गला स्थान में कोई प्रह नहीं है, अत द्वितीय स्थानीय अर्गला योग नहीं हुआ । तथा चन्द्रमा से चतुर्थ अर्गला स्थान में शनि है, उसके वापषक दशम स्थान में रवि और मङ्गल हैं, अत चूर्णप्रतिवादित सूत्र से चतुर्थ स्थानीय अर्गला योग नहीं हुआ । तथा चन्द्रमा से

पञ्चम अर्गला स्थान में कोई ग्रह न होने के कारण पञ्चम स्थानीय अर्गला योग नहीं हुआ । तथा चन्द्रमा से पृकादश अर्गला स्थान में बुध है, इस के वापक तृतीय स्थान में कोई ग्रह नहीं है अतः पृकादश स्थानीय अर्गला योग हुआ, अर्थात् बुध अर्गला योग कारक हुआ । तथा चन्द्रमा से तृतीय शुद्धार्गला स्थान में कोई ग्रह नहीं है, अतः शुद्धार्गला योग नहीं हुआ ।

अब मङ्गल से विचार करते हैं । जसे मङ्गल से द्वितीय अर्गला स्थान में बुध है, उस के प्रतिवन्धक द्वादश स्थान में शुक्र और शूद्धस्पति हैं, अतः पूर्वोक्त सूत्र से द्वितीय स्थानीय अर्गला नहीं हुआ । तथा मङ्गल से चतुर्थ अर्गला स्थान में चन्द्रमा और केतु हैं, उस के प्रतिवन्धक द्वादश स्थान में केवल एक राहु है, अतः पञ्चम स्थानीय अर्गला योग हुआ, अर्थात् चन्द्रमा और केतु अर्गला योग कारक हुए । तथा मङ्गल से तृतीय, पञ्चम और पृकादश अर्गला स्थानों में कोई ग्रह न होने के कारण उन स्थानों के अर्गला योग नहीं हुए ।

अब बुध से विचार करते हैं । बुधसे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पश्चम में कोई ग्रह नहीं है, अतः तत्स्थानीय अर्गला योग नहीं हुए । तथा बुध से पृकादश अर्गला स्थान में शुक्र और शूद्धस्पति है । उस के प्रतिवन्धक तृतीय स्थान में कोई ग्रह नहीं है, अतः शुक्र और शूद्धस्पति अर्गला योग कारक हुए ।

अब शूद्धस्पति से विचार करते हैं । शूद्धस्पति से शुद्धार्गला स्थान तृतीय में बुध है, अतः बुध अर्गला योग कारक हुआ । तथा शूद्धस्पति से द्वितीय अर्गला स्थान में रवि और मङ्गल हैं । उस के वापक स्थान द्वादश में कोई ग्रह नहीं है, अतः रवि और मङ्गल अर्गला योग कारक हुए । तथा उस से चतुर्थ, पश्चम और पृकादश अर्गला स्थान में कोई ग्रह नहीं है, अतः उन स्थानों के अर्गला योग नहीं हुए ।

अब शुक्र से विचार करते हैं । शुक्र से द्वितीय अर्गला स्थान में रवि और मङ्गल हैं, उस के वापक द्वादश स्थान में कोई ग्रह नहीं है, अतः रवि और मङ्गल अर्गला योग कारक हुए । उस से तृतीय शुद्धार्गला स्थान में बुध है, अतः बुध भी अर्गला योग कारक हुआ । तथा उस से चतुर्थ, पश्चम और पृकादश में कोई ग्रह नहीं है, अतः उन स्थानों के अर्गला योग नहीं हुए ।

अब शनि से विचार करते हैं । जिसे शनि से पश्चम अर्गला स्थान में राहु, उस के वापक स्थान द्वादश में चन्द्रमा और केतु हैं, अतः पूर्वोक्त सूत्र से अर्गला योग नहीं हुआ । तथा उस से द्वितीय शून्याय, पश्चम और पृकादश स्थान में कोई ग्रह नहीं है, अतः उन स्थानों का अर्गला योग नहीं हुए ।

अब राहु से विचार करते हैं । जिसे राहु से नशम अर्गला स्थान में कोई ग्रह नहीं है, अतः अर्गला योग नहीं हुआ ।

अब केतु से विचार करते हैं। केतु से नवम अर्गला स्थान में शुक्र और वृहस्पति हैं, उस के प्रतिरन्धक स्थान पञ्चम में कोई वह नहीं है, अतः वृहस्पति और शुक्र अर्गला योग कारक हुए।

अथ स्फुटार्थं ग्रहार्गलाचक्रम्—

प्रहा:	रवि:	चन्द्रः	कुजः	बुधः	गुरुः	शुक्रः	शनि:	राहुः	केतुः
विमला ग्रहार्गला भास्त्र	चन्द्रः	बुधः	चन्द्रः	शुक्रः	बुधः	रवि:	×	×	गुरुः
	केतुः	×	केतुः	मुकु	रवि:	कुजः	×	×	शुक्रः
	×	×	×	×	कुजः	बुधः	×	×	्
	×	×	×	×	×	्	×	्	्
	×	×	्	्	्	्	्	्	्
	्	्	्	्	्	्	्	्	्
	्	्	्	्	्	्	्	्	्
	्	्	्	्	्	्	्	्	्

अथ राश्यर्गलायामावद्यकराशिष्ठलमाह—

अप्रहात्सप्रहो ज्यायान् समहेष्वधिकमहः ।

साम्ये चर-स्थिर-दून्द्वाः क्रमात्सुर्वलशालिन् ॥

भाषा—अप्रह राशि से सप्तह राशि वलयती होती है। अर्थात् जिस राशि में प्रह नहीं हो उस से प्रह युक्त राशि वलयती होती है। अगर विचारणीय दोनों राशि सप्तह हों तो जिस में ज्यादा प्रह हो वह वलयती होती है। अगर दोनों में प्रह की समता हो तो क्रमशः चर से स्थिर, स्थिर से द्वित्वभाव राशि वलयती होती है। इसी वल को आगे द्वितीयाद्याय तृतीय पाद के दृढ़ सूत्र से भन्यतर्तीन् स्पष्ट किया है।

उदाहरण—इसी तरह राशि से भी अर्गला योग समझता। जसे यद्यपि घनु वा विचार करते हैं, इस से द्वितीय अर्गला स्थान में कोई प्रह नहीं है, अतः द्वितीय स्थानीय अर्गला योग नहीं हुआ। इस से चतुर्थ अर्गला स्थान में शनि है, उस पर वायरक दशम स्थान में रवि और महूल है अतः पूर्वोक्त सूत्र से अर्गला योग नहीं हुआ। तथा उस से अर्गला स्थान एकादश में बुध है, उस के वायरक दूतीय स्थान में कोई प्रह नहीं है, अतः एकादश स्थानीय अर्गला योग कारक युक्त हुआ। तथा इससे तृतीय और पश्चम में कोई प्रह नहीं है, अतः तृतीय और पश्चम

स्थानीय अर्गला योग नहीं हुआ ।

अब मकर से विचार करते हैं । द्वितीय स्थान में कोई प्रह नहीं है, अतः द्वितीय स्थानीय अर्गला योग नहीं हुआ । उस से तृतीय शुद्धार्गला स्थान में शनि है, अतः शनि अर्गला योग कारक हुआ । उस से चतुर्थ, पञ्चम और षट्कादश में कोई प्रह नहीं है, अतः उन स्थानों के अर्गला योग नहीं हुए ।

अब कुम्भ से विचार करते हैं । जसे कुम्भ से द्वितीय में शनि है, उस के बाधक

अब यहाँ पर अर्गला योग स्थान और प्रतिवन्धक स्थान में कोन थली है इस का विचार करना है । प्रतिवन्धक पली होने से अर्गला योग नहीं होगा । अर्गला योग स्थान बली होने से अर्गला योग होगा । यहाँ पर प्रतिवन्धक और योग स्थान दोनों में एक एक छह है, अतः “साम्ये चर-स्थिर-दून्हाः क्रमात् स्युर्ण लशालिनः” इस से प्रतिवन्धक स्थान को चर में और अर्गला योग स्थान को द्विस्वभाव में होने के कारण प्रतिवन्धक स्थान से योग स्थान बली हुआ, अतः उस स्थान का अर्गला योग हुआ, अर्थात् राहु अर्गला योग कारक हुआ । तथा उस से षट्कादश स्थान में चन्द्रमा और केतु हैं, उस के बाधक स्थान तृतीय में कोई प्रह नहीं है, अतः चन्द्रमा और केतु अर्गला योग कारक हुए ।

अब मान से विचार करते हैं । मीन से द्वितीय, तृतीय, पञ्चम और षट्कादश में कोई प्रह नहीं है, अतः उन स्थानों का अर्गला योग नहीं हुआ । तथा उस से चतुर्थ में राहु है, उस के बाधक दशम स्थान में चन्द्रमा और केतु है अतः “संपरेष्य-धिकप्रहः” इस से बाधक स्थान को प्रवल होने के कारण अर्गला योग नहीं हुआ ।

अब मेष से विचार करते हैं । मेष से द्वितीय चतुर्थ और षट्कादश में कोई प्रह नहीं है, अतः उन स्थानों का अर्गला योग नहीं हुआ । उस से तृतीय शुद्धार्गला स्थान में राहु है, अतः राहु अर्गला योग कारक हुआ । उस से पञ्चम में शुक्र और सूर्यस्पति हैं, उस के बाधक स्थान नवम में भी चन्द्रमा और केतु है, पर योग स्थान को स्थिर राशि में और बाधक स्थान को द्विस्वभाव राशि में होने के कारण बाधक स्थान ही प्रवल हुआ, इस लिये यहाँ अर्गला योग नहीं हुआ ।

अब शूष से विचार करते हैं । शूष से द्वितीय अर्गला स्थान में राहु है, और उस के बाधक स्थान द्वादश में कोई प्रह नहीं है, अतः राहु अर्गला योग कारक हुआ उस से तृतीय शुद्धार्गला स्थान में कोई प्रह नहीं है, अतः यहाँ अर्गला योग नहीं हुआ । उस से पूर्ण अर्गला स्थान में शुक्र और गुरु है, बाधक स्थान दशम में कोई

प्रह नहीं है, अतः शुक्र और वृद्धस्पति अर्गेला योग कारक हुए। उस से पञ्चम में रवि और महाल हैं, उस के बाधक स्थान नवम में कोई प्रह नहीं है, अतः रवि और महाल अर्गेला योग कारक हुए। दम से प्रकादश अर्गेला स्थान में शनि है, उस के प्रतिवन्धक तृतीय स्थान में कोई प्रह नहीं है, अतः शनि भी अर्गेला योग कारक हुआ।

अब मिथुन से विचार करते हैं। मिथुन से द्वितीय में कोई ग्रह नहीं है अतः उस से चतुर्थ अर्गेला स्थान में शुक्र और बृहस्पति दोनों ग्रहों का विवरण है। उस से चतुर्थ अर्गेला स्थान में वैवल पक शनि है, अतः रवि और महाकल अर्गेला योग कारक हुए। उस से पञ्चम अर्गेला स्थान में तुष्णि है, उस के प्रतिवन्धक लग्नम स्थान में कोई ग्रह नहीं है, अतः तुष्णि अर्गेला योग कारक हुआ। उस से पूर्वादित अर्गेला स्थान में कोई ग्रह नहीं है, अतः एकादश स्थान का अर्गेला योग नहीं हुआ।

अब इस में प्रायः सभी उद्घारण आगये हैं, इस लिये इस उद्घारण को समाप्त करता है।

अथ स्फुटार्थं शश्यग्निलाचक्रम् ।

अथ वर्षादावयनांशानयनमाह—

शाकमेकद्विवेदोनं द्विः कृत्वा दशभिर्हरेत् ।

लब्धं हीनं च तत्रैव सायनांशकलाः स्मृताः ॥

भाषा—इष्ट शक जो हो उस में चार सौ इक्कीस घटा कर शेष जो बचे उस का दशमांश उसी में घटा देने से शेष वर्षादि में कलात्मक अयनांश होता है। उस में साड़ का भाग देने से अंशादि अयनांश होता है।

अथेष्टकालिश्यनांशानयनमाह—

अर्को लघीकृतख्लिञ्चो नखासो विकलामताः ।

तावर्षाद्ययनांशैस्तु युक्ता इष्टदिने स्मृताः ॥

भाषा—तात्कालिक रवि को अंशात्मक कर के तीन से गुणा करे और २० का भाग देवे, लघिध पूर्वांशीत वर्षादिकालिक अयनांश विकलांग में जोड़ देने से तात्कालिक अयनांश होता है।

उदाहरण—यहाँ इष्ट शक १४३० है, इस में चार सौ इक्कीस घटा कर शेष = १४०९ में दश का भाग देने से लघिध = (१४०।६४) कलादि को उसी शेष (१४०९) में घटा देने से वर्षादि का कलादि अयनांश (१२६८।६) हुआ, इस में साड़ का भाग देने से वर्षादि का अंशादि अयनांश = (२१।८।६) हुआ।

अथ तात्कालिक अयनांश बनाने का उदाहरण लिखो है। यहाँ राश्यादि तात्कालिक रवि (१।६।४८।३१) हतना है। इस को अंशात्मक बनाया तो (१६९) हुआ, इस को तीन से गुणा कर = (४९९), बीस का भाग देने से विकलादि लघिध = (२४।१५) को वर्षादि के अपनांश (२१।८।६) में जोड़ा तो तात्कालिक अपनांश (२१।८।३०।१५) हुआ।

अय मिथिलादेशीयस्योदयमानेशानाय पदम्—

अष्टेन्दुपश्चाः शशिवाणपश्चा गुणश्चरामा गुणवेदरामाः ।

शैलान्धिरामा वसुरामरामाः क्षेषोत्कमान्मेषपतुलादिमानम् ॥

मेष का २१८, शूप का २११, मिथिला देशीय उदय मान हैं। इनके विपरीत फरने से तुलादि एं रातियों का स्योदयमान होगे। प्रथम लगन बनाने में हर स्व देशीय उदयमान होना चाहिए।

अथ स्तुटार्थं राशीनां स्वदेशोदयपलचकम्—

मेषमीनी	२९८	कर्षभृष्टि	३४३
शृपकुम्भी	२५१	सिंह खिकौ	३४७
मिथुनमकरी	३०३	कन्यातुली	३३८

अथ लग्नानयनम्—

तरकाले सायनार्थस्य भुजभीम्याद्यसगुणात् ।
स्वोदयहस्ताग्निलब्धं बदु भुज भोरयं रवेस्त्वजेत् ॥
इष्टनाहीपरेभ्यश्च गतगम्या निजोदयात् ।
दोष रात्या हत भक्तमगुदेन लवादिक्षम् ॥
अशुद्धशुद्धभैर्हीनमुक्तुव्यव्यवनाशनम् ।

भाषा—जिय समय का लग्न यनाना हो उस समय के स्वष्ट मूर्ख में तात्कालिक अपनाया जोड़ देने से वह सायनाक हो जायगा । उस सायनाक में राशि पीछोइ कर जो बांदारिक अवयव रहता है उस को भुज कहते हैं । उस भुज अवादि पीकान अश में घटाने से भोरयकल होता है । अब अवनाश युक्त सूर्य नियंत्रिति में हो उस राशि के अपने अपने देश का उदयमान जो हो उस को भुज प्रकार से लग्न यनाना दो तो भुजांतादि से भोरय प्रकार से यनाना हो तो भोरयादादि से गुणा कर गुणन पक्ष में तीस का भाग देने तो पक्षमो सायन रवि का भुजश्च और भोरयकल हो जायगा, अब यामर भुज प्रकार से लग्नानयन यनाना हो तो इष्ट घट्यादि को पहास्तक यनानय वर उस में भुजपूर्ण पक्ष कर गत राशि का उदय मान कर्मणे घण्टना । यदि भार्य प्रकार से लग्नानयन हो तो इष्ट घट्यादि को पक्षात्मक यना कर उस में भोरयकल को घण्टना चाहिए । एवं गत उस से गत तियं से गत राशि का उदयमान घण्टते २ दोष में नियंत्रिता उदयमान नहीं परे एवं यह अशुद्धोदय मान हो दोगा क्योंकि दोनों प्रकार से जो अशुद्ध राशि आता है वही सायन लग्न होता है । दोष पर मान की तीस से गुणा कर अशुद्धोदय से भाग देने से एवं यह उसे भुजांत और भोरयोंत जोगा । अब यदि भुजत प्रकार से लग्नानयन किया गया हो तो अशुद्ध राशि संक्षय में भुजांत पीछाना, यदि भोरय प्रकार से लग्नानयन किया गया हो तो भोरयोंत में अशुद्ध राशि संक्षया जोड़ना, तथा तात्कालिक गापन लग्न हो जायगा इस में अप नीता परारेने से दोष नियंत्रण लग्न हो जायगा ।

सायन सूर्य = ६।६।५६।१ हृतना हुआ । अब भोग्य प्रकार से लगन साधन करना है, इसलिए छै (१) राशि को ढोइ कर अंशादि भुक्तांश = ६।५।१।१ को तीस में घटाया तो भोग्यांशादि = २।४।४।६ हुआ । अब सायनार्क तुला का है इसलिए तुला के उदयमान = ३।८ से भोग्यांशादि = २।३।४।६।१ को गुणा किया तो = ३।७।४।१।०।९।२।१।१।४।३ हुआ, इस को एकजातीय किया तो = ५।०।२।१।४।२।२ हुआ । इस में तीस का भाग देने से सूर्य के भोग्य पलादि = २।६।०।४।१ हुआ, इसको इष्ट दण्डादि = १।७।२।६ को पलात्मक = १।०।४।६ कर के इस में घटाया तो १।०।४।६ - (२।६।०।४।१) = (३।८।१।५।६।१।१) हुआ, यहां सायन सूर्य तुला का है, उस के आगे वृश्चिक का उदय मान = ३।४।७ घटाया तो शेष ४।३।८।१।५।६।१ हुआ, इसके आगे घनु राशि का उदय मान ३।४।३ को इस ४।३।८।१।५।६ में घटाया तो शेष १।६।५।६।१।१ रहा, अब आगे मकर राशि का उदय मान इसमें भर्ही घट सकता, अतः इस शेष = १।६।५।६।१।१ को तीस से गुणा किया तो = २।८।०।१।६।५।१।१।३।० हुआ, इस को एक जातीय किया तो २।८।७।५।५।१।३।० हुआ इस में अद्युद्ध मकर राशि के उदय से भाग दिया तो लच्छि = १।२।१।६।३ हुआ, इस में शुद्ध राशि संख्या (१) जोड़ा तो सायनलग्न = १।१।२।१।५।३ हुआ, इस में अयनांश = (२।१।८।३।०) को घटा देने से नियम प्रथम लग्न = (१।१।८।१।२।३) हुआ ।

अथ सारणीद्वारा लगनानयनमाह—

इष्टार्कराश्यंश तत्त्वे घटीपलं स्वाभीष्टनादीपलसंयुतयः ।

यद्राशिभागस्य तत्त्वे स्थितं भवेत्तदेव लगनश कलानुपातात् ॥

भाषा—अथ सारणी द्वारा लगन बनाने की रीति—जिस रोज जन्म हो उस रोज के तात्कालिक सूर्य के राशि और अंश देख लो । इस चक्र में घाये तरफ राशि का स्थापन किया है, और अंश का स्थापन उत्तर के कोष्ठक में है । अब राशि और अंश के सामने पाले कोष्ठक में जो उत्तरवश्रयामत्क अद्ध मिले उस में ग्रन्थि इष्ट दण्ड और पला को लोइ दो । जो योगाद्ध हो उस को चक्र में लोजोगा । जिस कोष्ठकमें यद्य योगाद्ध या उस के लग भग का अद्ध मिले उस की घायी ओर के कोष्ठक में लगन का राशि और उपर के कोष्ठक में लगन का अंश मिलेगा ।

उदाहरण—यही स्पष्ट सूर्य कन्या में पद्म अंश पर है । अतः कन्या के सामने और १६ के नीचे ३।१।७।३।६ ये अद्ध मिलते हैं । इस में इष्ट दण्डादि १।७।२।६।० को जोड़ देने से योगाद्ध ४।८।१।३।६ हवना होता है । अब इस को चक्र में लोजने पर ये अद्ध नहीं मिलते किन्तु उन के लग भग के अद्ध = ४।८ । ३।१।५ मिलते हैं । इन के घायी ओर पनु और उपर के कोष्ठक में १८ अंश मिलता है । अतः घनु लग्नके १८ अंश पर इस जातक का जग्म है । इस सरह लग्न बनाने में सुविधा जल्द है, किन्तु लग्न स्थूल भावात है ।

अथ एकविंशत्ययनांशे मिथिलायां प्रथमलग्नस्तारिणी—

बथ प्रकारान्तरेण स्थूलगनानयनम्—

मेरे माने चतुर्नां व्यद्वत्वारो वृषकुमयो ।

मकरे मिथुने पञ्च शेषा पट् पट् प्रकीर्तिरा ॥

भाषा—मेर, मीन, वृष की ओर कुम्भ चार २ घड़ियों के होते हैं। मकर और मिथुन पाच घड़ियों के, गोप लाल (कर्ण, मिह, कन्या, तुल, वृश्चिक, षष्ठु) छ घड़ियों के होते हैं। ये एन्जों के स्थूल मान हैं।

बथ दशमभावसाधनार्थं नतानयनम्—

पूर्वं नत स्थादिनरात्रियष्ट दिवानिशोरिष्ठघटीविद्वानम् ।

दिवानिशोरिष्ठघटीपु शुद्ध युरात्रियष्ट त्वपर नत स्थाद् ॥

भाषा—दिनार्थ में यदि इष्ट काल घर जाय तो शेष दिन में पूर्वनव होता है। रात्रियर्थ में अगर रात्रिगत घर जाय तो शेष रात्रि पूर्व नत होता है। अगर दिनार्थ ही दिन गत घरी में घर जाय तो दिन में पश्चिम नत होता है। और रात्रियर्थ रात्रि गत घरी में घर जाय तो रात्रि में पश्चिम नत होता है।

उदाहरण—यहाँ दिनार्थ मान १४४५ हतना है, इष्ट घट्यादि मान १७२६ हतना है, अत दिनार्थ को इष्ट काल म घटाया तो दिवा पश्चिम नत २१४१ और उद्यत ३५। १९ हतना हुआ।

बथ लङ्घोदयमानम्याह—

लङ्घोदया विष्टिका ग्रन्थानि गोष्ठ

दक्षालिपसदहना क्रमगोत्रमस्या ।

भाषा—लङ्घा को विषुवत् रेखा में होते के बारण वहाँ रात और दिन सदासमान होते हैं। तथा मेरादि बाहर रात्रियों के उदयमान भी सर्वदा स्थिर रहते हैं। ऐकिन् लापता देश लङ्घा से उत्तर या दक्षिण होने के कारण दिन, रात, और रात्रियों के उदय में भेद पढ़ता है। मेर का २७८, वृष का २१९, मिथुन का १२३, इस को विपरीत क्रमगो स्थापन करने से कर्क से कन्या तक तात्त्व रात्रियों का उदयमान होता है। जैसे कर्क का ३२३, सिंह का ३१९, कन्या का २७८, उदय मान होता है। एवं मेर से कन्या तक का उदयमान आगया। अब इन सर्वों को विपरीत स्थापन करने से तुआदि के रात्रियों का उदय मान हो जायगा।

अथ स्फुटार्थं राशीनां लङ्घोदयपलचकम् -

मेषमीनौ	२७८
वृषकुम्भौ	२९९
मिथुनमकरौ	३२३
कर्कघनुषी	३२३
सिंहवृश्चिकौ	२९९
कन्यातुलौ	२७८

अथ दशमादिलगनसाधनप्रकारमाद—

एवं लङ्घोदयैर्भुक्तं भोगयं शोध्यं पलीकृतात् ।

पूर्वपश्चात्तादन्यत्राम्बवत्तदशमं भवेत् ॥

सप्तह्मे लग्नस्ये जायातुर्यैः लग्नोनतुर्यतः ।

पष्टांशयुक्ततुः सन्धिरत्रे पष्टांशयोजनात् ॥

त्रयः सप्तमध्यो भावाः पष्टांशोनैकयुक् सुखात् ।

अप्रे त्रयः पठेवं ते भार्ययुक्ताः परेऽपि पट् ॥

भाषा—प्रथमलग्नानयनवत् साधन रवि के भुक्त या भोगय काल को ग्रहण कर दशम लग्न लग्ने के लिये लङ्घोदय मान से उस को गुणा कर, तीस का भाग देवे जो पलादिक लिंग हो उस को नत में (नत को इष्टवयी मान कर पलात्मक बना कर उस में) घटावे । फिर आगे लग्नवत् किया करने से दशम लग्न हो जायगा ।

लग्न और दशम लग्न में छै राशि जोड़ने स सप्तम और चतुर्थ भाव हो जाता है । अर्थात् लग्न में ६ राशि जोड़ देने से सप्तम भाव और दशम लग्न में ६ राशि जोड़ देने से चतुर्थ भाव होता है ।

लग्न को चतुर्थ भाव में घटाने से जो शेष बचे उस में ६ का भाग देवे, अर्थात् लग्न और चतुर्थ भाव के अन्तर का पष्टांश लेवे । वह पष्टांश राश्यादि लग्न में जोड़ देवे,

तो लान की विराम सन्धि और धन भाव की आरम्भ सन्धि होती है । उस सन्धि में पञ्चांश युक्त करने से धन भाव हो जाता है । धन भाव में पञ्चांश जोड़ने से धन भाव की विराम सन्धि और तृतीय भाव की आरम्भ सन्धि होती है । उस सन्धि में पञ्चांश जोड़ देने से तृतीय भाव हो जाता है । फिर तृतीय भाव में पञ्चांश जोड़ देने से तृतीय भाव की विराम सन्धि और चतुर्थ भाव की आरम्भ सन्धि हो जाती है । अब पञ्चांश को पृक्ष में घटाये जो शेष बचे उस को चतुर्थ भाव में जोड़ देने से चतुर्थ भाव की विराम सन्धि और पञ्चम भाव की आरम्भ सन्धि हो जाती है । उस सन्धि में शेष जोड़ देने से पञ्चम भाव हो जाता है । पञ्चम भाव में शेष जोड़ देने से पञ्चम भाव की विराम सन्धि और पञ्चम भाव की आरम्भ सन्धि हो जाती है । पठमाव में शेष जोड़ देने से पष्ठ भाव का विराम सन्धि और सप्तम भाव की आरम्भ सन्धि हो जाती है ।

लानादि छ भावों में छ छ राशि युक्त करने से सन्धि सहित सप्तम आदि भाव हो जाते हैं ।

उद्दहरण—स्पष्ट सूर्य राशयादि— ६१११४६।३१ में अयनाश—२१०८।३० को युक्त किया तो साधन सूर्य—६।६।५६।०१ हुआ, यहाँ भौगोलिक प्रकार म दक्षम छन्न इक्कोदयमानानि—

२७८

२९९

३२३

३२३

२९९

२७८ उद्य

साधन करता है अत साधन रवि में राशि को छोड़ कर अं शादि ६।५६।१ को ३० में घटाया तो शेष रप्ट रवि का भौ-

ग्याशादि—२३।४।६।६ हुआ । अब साधनार्क तुला राशि का है, अत तुला राशि के इक्कोदय २७८ से भौयाशादि—२३।४।

६।६।५६।०१ हुआ, इसको सठिया देने से ६४।७।६।१२।१६।४।०२ हुआ, इस में तीस का भाग दिया

तो रविये २।३।५।४।११ हुआ, यहा पश्चिम नत—२।४।१ है, इससे इष्ट घटी पल मान कर पलात्मक बनाया तो १६।१ हुआ,

इस में पर्वांगत लक्ष्य २।३।५।४।११ धरना चाहिए । किन्तु ज्यादा होने के कारण नहीं घटता ।

अत यहाँ लगानेवन का प्रकार—

भुक्त भौग्य स्वेष्टकालान्नशुद्धयेत्रिशन्निन्नात्स्वौरियास लवायम् ।

हीन युक्त मास्करे तत्त्वं स्याद्रात्री लग्नं भार्द्युक्तादवेत्क्षु ॥

भाषा—अगर पलात्मक हृष्टमें रवि के भुक्तकाल या भोग्यकाल नहीं घटे तो हृष्ट पल को तीस से गुणा कर स्वोदय का भाग दे, जो लब्धिं अंशादि आये उस को भुक्त किया में सूर्य में घटाये, भोग्यकिया में जोड़ देवे तो उन हो जायगा ।

उदाहरण—अब यहाँ पर भोग्यकाल—२१३।१४।११ को हृष्ट पल १६१ से अधिक होने के कारण हृष्ट पल १६१ को तीस से गुणा किया तो ४८३० हुआ, हस में स्वोदय २७८ का भाग दिया तो लब्धिं अंशादि १७।२३।२६ हुआ, यहाँ भोग्य प्रकार से लग्नानयन करने के कारण स्पष्ट रवि में इस को जोड़ा तो राश्यादि दशम लग्न—६।३।१।५७ हुआ ।

लग्न ८।१।२६।४९ में छै राशि जोड़ देने से सप्तम भाव २।१।२६।४९ हुआ, दशम लग्न ६।३।१५७ में छ राशि जोड़ देने से चतुर्थ भाव ०।०।३।१।५७ हुआ ।

अथ सारणीतो दशमलग्नानयनज्ञानाय सदीयसूत्रावतारः—

इष्टार्द्धराश्यं शतले घटी पलं न तेष्टनाडीपलहीनसंयुतम् ।

कार्यं ब्रह्मात्प्राक्परभागके न ते यद्राशिभागे दशमोदयं स वै ॥

भाषा—न त घट्यादि को हृष्ट मान कर तात्कालिक स्पष्ट रवि की राशि पूर्व अंश के कोष्ठ के सामने जो अहृष्टमिले उस में पश्चिम न त हो तो युत करे पूर्व न त हो तो हीन करे ऐसा करने से जो दण्डादि फल मिले उस को चक्र में खोजना । यदि ठीक २ वह धंक चक्र में न मिले तो उस के सब से निकट वर्ती जो अहृष्ट चक्र में मिले उसी को ग्रहण करना चाहिए उस अंक के बाये तरफ के राशि कोष्ठ के में जो राशि मिले वही दशम लग्न की राशि होगी । और उस अंक के सामने ऊपर भाग में जो अंक मिलेगा वही दशम लग्न की राशि का अंश होगा ।

उदाहरण—यहाँ स्पष्ट सूर्य कन्या में पन्द्रह अंश पर है । अतः कन्या के सामने १५ के नीचे ३।०।६।३।६ यह अंक मिलता है । हस में पश्चिम न त रूप हृष्ट काल २।४।१ को जोड़ा तो ३।३।३।६ हुआ, हस को चक्र में खोजने से इस के लग्न भग का अहृष्ट हुला के तीसरे अंश के नीचे मिलता है । अतः दशम लग्न स्थूल रूप से ६।३ आया ।

अथ दृश्यम्-लग्नसारिणी—

ब्रथ धनादिभावसाधनोदाहरण—

प्रथम लगन का राश्यादिमान=८१८१२१२३ इतना है। चतुर्थ भाव में लगन को घटाया तो शेष ३१४१४७१३४ बचा, इस में छै का भाग दिया अर्थात् पष्टांश नि काला तो =००११७१२७१६६ हुआ, इस को लगन ८१८१२१२३ में जोड़ा तो लगन की विराम सन्धि और धन भाव की प्रारम्भ सन्धि =१११४११११ इतनी हुई। इस में पष्टांश जोड़ने से धन भाव ११२३११७११५ इतना हुआ, इस में पष्टांश जोड़ने से धन भाव की विराम सन्धि और सहज भाव की प्रारम्भ सन्धि =१०१०१४११११ इतनी हुई, इस में पष्टांश जोड़ने से तृतीय भाव=१०१२११२३०७ इतना हुआ, इस में पष्टांश जोड़ने से तृतीय भाव की विराम सन्धि और चतुर्थ भाव की प्रारम्भ सन्धि=११११४११०३ इतनी हुई,

इस के पाइ एकम घटाया तो शेष ००१७१२७१६६ को एकम घटाया तो शेष ००११२१३२१४४ हुआ, इस शेष को चतुर्थ भाव में ००१०३१०८१०५ में जोड़ा तो सुख भाव की विराम सन्धि और पञ्चम भाव की प्रारम्भ सन्धि =००११४११०१ इतनी हुई, इस में शेष को युत किया तो पञ्चम भाव =००१२१११३१०१ इतना हुआ, इस में शेष को युत किया तो पञ्चम भाव की विराम सन्धि और पछ भाव की प्रारम्भ सन्धि =११०१४१०९ इतनी हुई, इस में शेष को युत किया तो पठ्ठ भाव=११२११७१३ इतना हुआ, इस में शेष को युत किया तो पठ्ठ भाव की विराम सन्धि और सप्तम की प्रारम्भ सन्धि =२०१०४११०७ इतनी हुई, इन सन्धियों सहित उन भावों में छै की राशि समन्वित करने से सप्तमादि सन्धि सहित है भाव होगें।

अथ रुक्तार्थ चतुर्म्—

त	८१८१२१२३	स	११०५१४५११०
भ	११२११७१५	स	१०११०१४५१११
स	१०१२११३१०५	स	१११७१४११०३
य	००१०३१०८१५७	स	००११५१४११०२
मु	००१२११३१०५	उ	०११०१४५१०९
रि	०११२११७११३	स	०२१०५१४५११७
जा	०३१८१३११३	उ	३१०५१४५११३
मृ	०३१२३११७१५	स	४११०१४५१११
ध	०४१२११३१०५	स	५११५१४११०३
क	०६१०३१०८१५७	स	६११५१४११०१
आ	०६११८११३१०५	स	७११०१४५१०९
च्य	८१२११७१११	स	८१०५१४५११७

अथ कारकान् विवशुरादावात्मकारकमाह—

मात्माधिकः कलादिभिर्भोगः सप्तानामष्टानां चा ॥ १० ॥

विद्—आत्माधिक इति । सप्तानां=रव्यादिशन्यन्तानां, चा=मतान्तरेण, अष्टानां=रव्यादिराहन्तानां मध्ये, कलादिभिः=कला भादी येषां ते कलादयस्तैः कलादिभिरंशादिभिः, अधिकः=अनल्पः, नभोग =खेटः, आत्मा=आत्मकारकः भवेत् ॥ १० ॥

भाषा—सूर्य से लेकर शनि पर्व्यन्त सात ग्रहों में, अथवा प्रकारान्तर से सूर्य से लेकर राहु पर्व्यन्त आठ ग्रहों में जिस के अंश अधिक हो वह आत्मकारक होता है ।

भावार्थ यह है कि सूर्यादि सात या आठ ग्रहों में जिस ग्रह का अंश मान अधिक हो वह आत्मकारक होता है ।

अंशों के बराबर होने पर कलामान् जिस प्रह का अधिक हो वह आत्मकारक होता है ।

यदि अंश, कला दोनों बराबर हों तो जिस का विकला मान ज्यादा हो वही आत्मकारक होता है ।

यदि अंश, कला, विकला इत्यादि सब बराबर हों तो उन में सब से बड़ी प्रह आत्मकारक होता है ॥ १० ॥

अथ पराशरकारिका—

अथाग्रे संप्रदव्यामि प्रहाणां कारकान् द्विज ।

आत्मादिकारकान् सप्त यथावत् कथयामि ते ॥

रव्यादि शनिपर्व्यन्ता भवन्ति सप्तकारकाः ।

अंशौ साम्यौ प्रहौ द्वौ च राहन्तान् गणयेद् द्विज ॥

रव्यादि पक्षुपर्व्यन्तमंशाधेकप्रहोऽपि चेत् ।

कारकेन्द्रोऽपि स ज्ञेय आत्मकारक उच्यते ॥

अंश साम्यप्रहौ यथ कलाधिकर्य च पश्यति ।

कलासाम्ये पलाधिकर्यमात्मकारक ईर्यते ॥

तत्र राशिकलाधिकये नैव प्राप्तः प्रधानकः ।

अंशाधिकये कारकः स्यादल्पमागोऽन्तकारकः ॥

मध्यांशो मध्यसेदः स्यादुपसेटः स एव हि ।

अपोऽथः कारका शेयाद्वराणि सप्त कारकाः ॥

तेषां मध्ये प्रधार्न तु आत्मकारक उच्यते ।
जातकराट् स विज्ञेयः सर्वेषां मुख्यकारकः ॥
यथा भूमी प्रसिद्धोऽस्ति नराणा शितिपालकः ।
सर्ववार्ताधिकारी च बन्धकृन्मोक्षकृतया ॥

पुत्रामात्यग्रजानां तु तत्तदोपगुणस्तथा । बन्धकृन्मोक्षकृद्विग्र तथा सन्मानकारकः ॥
तथैव कारको राजन् ग्रहणां फलकारकः । आमेत्यादिकलं तत्ते चान्यथा स्थापयेद्विज ॥
यथा राजाहया विप्र पुत्रामात्यादयोऽपि च । सर्वया लोककार्येषु तथैवान्योपकारकः ॥
कारकराजवस्त्रेन फलदातान्यकारकः । यथा राजनि शुद्धे च सर्वेऽपात्यादयो द्विज ॥

स्वजनाना कार्यकर्तुमसमर्था भवन्ति हि ।

हितरथे भूये द्यमात्यादिः स्वदात्रूर्णा द्विजोत्तम ॥

अकार्यकर्तुं नो शक्तस्तथैवान्योऽपकारकः ।

भाषा—इष्ट है ॥ १० ॥

अथात्मकारकस्योत्कर्पतामाइ—

स इष्टे बन्धमोक्षयोः ॥ ११ ॥

विद—ऐति । स=आत्मकारकः, बन्धमोक्षयोः=दुःप्रमुखयोः, इष्टे=स्वामी
भवति, नीचराशि पापयोगीच्चादिराशिशुभयोगीरिति शेषः, नीचपापसमन्वितकारकः
निजदशान्तर्दशासु बन्धनादिदुःखदः स्यात्, उच्चादिशुभप्रहस्यमन्वितस्तु ग्रहा-
न्तरबलेन यदस्यापि मोक्षणकर्ता भवति । यदा प्रतिकूलक आत्मकारकः पापकर्म-
प्रवृत्तिद्वारा देखारहृपवन्धनदः स्यात् । अनुकूलस्तु ज्ञान धर्मस्थान-वासादिमिश्र-
कर्ता स्यात् ॥ ११ ॥

भाषा—इह आत्मकारक ग्रह नीच राशि और पाप योग से बन्धन का स्वामी
होता है, उच्चादिराशि और शुभ योग से मोक्ष का स्वामी होता है ।

अथात् नीच और पापप्रह से युक्त होने पर आत्मकारक अपने दशा और अन्त-
दशा में बन्धनादि दुःख देने वाला होता है । और उच्च स्था शुभ ग्रह से युक्त आ-
त्मकारक अपने दशा और अन्तदशा में मोक्ष कर्ता होता है । अथात् अन्यप्रह-जन्य-
दोष से बन्ये हुए को भी मोक्ष कर्ता होता है ।

अथवा आत्मकारक प्रतिकूल होकर पापकर्म प्रशृचि के द्वारा हंसारूप बन्धन
में देता है । और अनुकूल होकर ज्ञान धर्मस्थानवासादिद्वारा मोक्ष कर्ता होता
है ॥ ११ ॥

अथामात्यकारकमाह—

तस्यानुसरणादमात्यः ॥ १२ ॥

चिं०—तस्येति । तस्य=आत्मकारकस्य, अनुसरणात्=अनुपधात्सरणादगमनात् (आत्मकारकापेक्षया न्यूनशक्तया पश्चाद्वर्तमानात्), अमात्यः=अमात्यकारक; मन्त्रिकारको भवतीति शेषः ॥ १२ ॥

भाषा—जो अमात्यकारक प्रह पहले कहा गया है उस से न्यून अंशादिवाला प्रह अमात्यकारक (मन्त्रिकारक) होता है अर्थात् अमात्यकारक प्रह से अल्प अंश कला इत्यादि जिस प्रह का हो वह अमात्यकारक होता है ।

जिस कुण्डली में अमात्यकारक प्रह नीचादि पापप्रह से युक्त हो उस कुण्डली थाले को राजा, मन्त्री, स्वामी इत्यादि श्रेष्ठ लोगों से दुख होता है । तथा उच्चादि शुभ प्रह से युक्त हो तो राजा आदि जनों से सुख मिलता है ॥ १२ ॥

अथ भ्रातृकारकप्रहमाह—

तस्य भ्राता ॥ १३ ॥

चिं०—तस्येति । तस्य=अमात्यकारकप्रहस्य (अनुपद्वादल्पांशक्तया वर्तमानात्), भ्राता=भ्रातृकारकः स्यादिति शेषः ॥ १३ ॥

भाषा—अमात्यकारक प्रह से जिस प्रह का अंशादि असूप हो वह भ्रातृकारक होता है ।

भ्रातृकारकप्रह से भ्रातृ सन्वन्धी सुख दुःखादिकों का विचार होता है ॥ १३ ॥

अथ भ्रातृकारकप्रहमाह—

तस्य भ्राता ॥ १४ ॥

चिं०—तस्य भ्रातेति । तस्य=भ्रातृकारकस्य (अल्पांशक्तयाऽनुसरणात्), गाता=भ्रातृगारकः स्यात् ॥ १४ ॥

भाषा—भ्रातृकारक प्रह से जिस प्रह का अंशादि थोड़ा हो वह भ्रातृकारक होता है ।

भ्रातृकारक प्रह से भ्रातृ सन्वन्धी सुख दुःखादि का विचार किया जाता है ॥ १४ ॥

अथ पितृकारकप्रहमाह—

तस्य पिता ॥ १५ ॥

चिं०—तस्येति । तस्य=मातृकारकस्य (अन्वल्पांशक्तया वर्तमानात्), पिता=पितृकारकः स्यादिति शेषः ।

अस्याएकारकगणनावसर एव गणना कार्या ॥ १५ ॥

१ पाद] सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाद्यसहितम् । ३७

भाषा—मातृकारक प्रह से अंशादि अल्प जिस प्रह का हो वह पितृकारक होता है ॥ १६ ॥

अथ पुत्रकारकप्रहमाह—

तस्य पुत्रः ॥ १६ ॥

विद्य०—तस्य पुत्रेति । तस्य=मातृकारकस्य (अशाश्वल्पकलयाऽनुसरणात्), पुत्र = पुत्रकारक स्याद् ॥ १६ ॥

भाषा—मातृकारक प्रह से जिस प्रह का अंशादि योदा हो वह पुत्र कारक होता है । पुत्र कारक प्रह से पुत्र सम्बन्धी सुख दुःखदि का विचार किया जाता है ॥ १६ ॥

अथ ज्ञातिकारकप्रहमाह—

तस्य ज्ञातिः ॥ १७ ॥

विद्य०—तस्येति । तस्य=पुत्रकारकस्य (अल्पाशकनयाऽनुसरणात्), ज्ञाति =ज्ञातिकारक स्याद् ॥ १७ ॥

भाषा—पुत्र कारक प्रह से जिस प्रह का अंशादि अल्प हो वह ज्ञातिकारक होता है । ज्ञातिकारक प्रह से ज्ञाति सम्बन्धी सुख दुःखदि का विचार किया जाता है ॥ १७ ॥

अथ दाराकारकप्रहमाह—

तस्य दाराश्च ॥ १८ ॥

विद्य०—तस्येति । तस्य=ज्ञातिकारकस्य (अल्पाशकनयाऽनुसरणात्) दारा =स्त्रीकारक स्याद् ।

अत्र “तस्य दारा ” इत्यनेनैवार्थोपस्थितत्वाच्चकारो निरर्थक इति न वा यम्, चकारस्यानुकरणमुच्चयार्थत्वाद् । तेन यमस्थिरकारकपदोगपदादिभ्योऽपि स्त्री विचार कर्तव्यो न तु दारकारकादेवेति सूचयति ॥ १८ ॥

भाषा—ज्ञाति कारक प्रह से जिस प्रह का अंशादि योदा हो वह स्त्रीकारक होता है । स्त्रीकारक प्रह से स्त्री सम्बन्धी सुख दुःख का विचार करना चाहिए ॥

इस सूत्र में चकारोपादान करना निरर्थक है ऐसा नाकहना चाहिए । यह चकार अनुक समुच्चयार्थ योधक है अर्थात् समकारक, स्थिरकारक, पद और उपदादि से भी स्त्री सम्बन्धी विचार करना चाहिए केवल दारकारक से ही नहीं । इस अर्थके चकार सूचित कराता है ॥ १८ ॥

अथात्र वृद्धकारिका —

आत्मकारकरेण न्यूनमागो हि यद्मह ।

अमात्यर्थज्ञा तस्यैव ज्ञायते द्विजसत्तम ॥

थमात्यन्यूनो भ्राता च आतृन्यूनं च मातृकम् ।

मातृकारकयेटेन न्यूनभागो हि यो ग्रहः ॥

स पुत्रकारको ज्ञेयस्तदोनो शातिकारकः ।

शातिकारकयेटेन हीनभागो हि यो ग्रहः ॥

दारकारकविह्वेयो निर्विशद्वे दिजोत्तम ।

चरात्य कारकाः सप्त ग्रहाणा चोदिता पुरा ॥

भाषा—स्पष्ट है ।

अथ पुत्रकारकविकल्पमाह—

मात्रा सह पुत्रमेके समामनन्ति ॥ १६ ॥

चिं—मात्रेति । एके=केचिदाचार्योः, मात्रा = मातृकारकेण, सह=समं, पुत्रं=पुत्रकारकं, समामनन्ति=स्त्रीकुर्वन्ति । मातृकारकप्रदादेव पुत्रकारको विचारणीय-इति केचन वदन्तीत्यर्थः ॥ १६ ॥

भाषा—कितने आचार्य मातृकारक ग्रह को ही पुत्रकारक मानते हैं । अर्थात् मातृकारक ग्रह से ही पुत्र का विचार करते हैं ॥ १६ ॥

अत्रोदाहरणरूपं सप्तकारकचक्रमिदम्—

रविः	१५१४६१३१	आत्मकारकः
शनिः	१३२०१५५	वामात्यकारकः
गुरुः	१३१२९१०९	आतृकारकः
बुधः	१२१२६१३१	मातृकारकः
चन्द्रमाः	५१५०१३५	पुत्रकारकः
भौमः	११५९१०२	शातिकारकः
शुक्रः	११३५१३३	स्त्रीकारकः

अथाष्टकारकचक्रम्—

रविः	१५११६१३९	वातगकारकः
शनिः	१३१३०१५५	अमात्यकारकः
गुरुः	१२१२९१०९	आतृकारकः
बुधः	१२१२६११९	भातृकारकः
राहुः	९१३३१३३	पितृकारकः
चन्द्रमा:	५१५०१३५	पुत्रकारकः
भौमः	११५११०२	ज्ञातिकारकः
शुक्रः	११२५१३३	स्त्रीकारकः

अथ नित्यकारकान्वयतु मारमते—

तत्रादै भगिन्यादिकारकानाह—

भगिन्यारतः प्रयालः कलीयान् जननी चेति ॥ २० ॥

विं०—भगिन्येति । आरतः=महालात्, भगिनी=स्वसा, इयालः=स्त्रीभ्राता, कनियान्=कनिष्ठभ्राता, जननी=मता च, इति विचारणीयाः ॥ २० ॥

भापा—महाल से बहिन, साला, छोटाभाई और माता का विचार करना चाहिए । अर्थात् महाल उच्चादिशुभयुक्त हो तो बहिन आदि का सुष कहना चाहिए । नीचादि पापयुक्त हो तो बहिन आदि को लेकर दुःख कहना चाहिए ।

अथ मातुलादिकारकानाह—

मातुलादयो यन्धवो मातुसजातीया इत्युच्चरः ॥ २१ ॥

विं०—मातुलादय इति । उत्तरतः=महलवारापिमातुल्यधात्, मातुलादयः=मातुलभ्रातुभगिन्यादयः, यन्धवः=यन्धुजनाः, मातुसजातीयाः=मातुसप्तन्यथ विचार्याः ॥ २१ ॥

भाषा—मन्त्र से उत्तर शुधवार से मामा, मामा के भाई, मामा के बहिन आदि-
का, वन्मुख का और माता की सप्तनी का विचार करना चाहिए ॥ २१ ॥

अथ पितामहादिकारकानाह—

पितामहः पतिपुत्रादिति गुरुमुखादेवजानीयात् ॥ २२ ॥

विद्—पितामह इति । गुरुमुखात् = वृहस्पत्यादितः (क्रमेणेति शेषः),
पितामहः=पितृपिता, पतिपुत्री=स्वामिसुती, इति एव=निथयेन, जानीयात्=विचार-
येत् । अत्रायमाशयः गुरोः पितामहः, शुक्रात् स्वामी, शनेः पुत्रः विचारणीयः ॥ २२ ॥

भाषा—वृहस्पति आदि से पितामह, स्वामी और पुत्र का विचार करना चा-
हिए, अर्थात् वृहस्पति से पितामह का, शुक्र से स्वामी का, शनि से पुत्र का विचार-
करना चाहिए ॥ २२ ॥

अथ पत्न्यादिषु शुक्कारकमाह—

० पत्नीपितरौ इवसुरौ मातामहा इत्यन्तेवासिनः ॥ २३ ॥

विद्—पत्नीति । अन्तेवासिनः = पूर्वप्रतिपादितवृहस्पत्यन्तेवासिनः शुक्रात्,
पत्नी=भार्या, पितरौ=मातापितरै, इवसुरौ=इवश्रुश्वशुरै, मातामहः=मातुः पिता,
इति सबे विचारणीयाः ॥ २३ ॥

भाषा—वृहस्पति के अन्तेवासी शुक्र से स्त्री, माता, पिता, सास, समुर और
मातामह इन सर्वों का विचार करना चाहिए ॥ २३ ॥

अथ कारकत्वेन द्वित्रादिं हस्पाते—

कमन्त्रालम्ब्य विचारणीय इति सन्दिग्धे कलाधिक्यं प्रदात्रापि निसर्गविलतः
कार्यस्तत्र ।

शनेः कारकत्वेऽप्रशस्तर्वं नैसर्गिकवलशाह—

मन्दोऽज्यायान् ग्रहेषु ॥ २४ ॥

विद्—मन्द इति । ग्रहेषु=रव्यादिसप्तमु ग्रहेषु, मन्दः=शनैश्चरः, अज्या-
यान्=अत्यप्रशस्तः (कारकविचारे शनिरत्यप्रशस्त इत्यर्थः, ज्यायान् वृद्देऽतिप्रश-
स्ते—इति मैदिनी) ।

यदि य “मन्दो ज्यायान् ग्रहेषु” इति मुनेरभिप्रेतसर्वं स्यात्तदाऽयमर्थः—

ग्रहेषु = सप्तमु, ग्रहेषु, मन्दः=शनिः, ज्यायान्=ईदः (दुर्बल इत्यर्थः),
अर्थात्कारत्वेनोक्ता भीमादयो गगनवराः क्रमाद्वलिनः, सर्वेभ्यो मन्दो हीनवलः ।

अथ द्रयोरप्यर्थयोः सहतार्थत्वेन पर्यवसानाद्वावपि मुनेरभिप्रेताविति । सर्वथा लाघवत्वे मुनिहृषिदर्शनाद्यलेपेणार्थद्वयं प्रदर्शितमिति ॥ २४ ॥

भाषा—रवि से लेकर शनि पर्यवेन सात प्रहों में शनश्चर कारक विचार में अति अप्रशस्त है ।

आगर “अज्यायान्” के स्थान में “ज्यायान्” ऐसा मुनि का अभिप्रेत हो जो सात प्रहों में शनि अत्यन्त दुर्बल है, ऐसा अर्थ समझना चाहिए ।

सब प्रकार से लाखव के तरफ मुनि की हाइ देखने के कारण और यहाँ दोनों अर्थों के सहात के कारण दोनों अर्थ मुनि के अभीष्ट हैं ऐसा समझना चाहिए ॥ २५ ॥

अथ प्रसङ्गान्ते सर्विकवलमाह—

✓ श र मु गु श्च च राया शुद्धितो वीर्यवन्तः ।

अपरेऽपि—

बलसाम्ये निसर्गारुद्यवलं वक्ष्ये शनिः कुजः ।

ज्ञेऽवशुकन्दुरवयो वलिनः स्युर्यथोत्तरम् ॥

भाषा—शनि, मङ्गल, तुथ, शुद्धपति, शुक और रवि पथाक्रम बलवान् हैं । अर्थात् शनि से मङ्गल, मङ्गल से तुथ, तुथ से शुद्धपति, शुद्धपति से शुक और शुक से रवि बलवान् हैं । बल की समवा होने पर निसर्गिक बल का पहण करना चाहिए ।

यही बल “मन्दो ज्यायान् पदेषु” हस सूत्र से मुनि ने कहा है ।

यहाँ पर किसी टीका कारने रवि भादि ब्रह्मर्थे प्रह दुर्बल होते हैं, अर्थात् रविसे चन्द्रमा, चन्द्रमा से मङ्गल, मङ्गल से तुथ, तुथ से शुद्धपति, शुद्धपति से शुक, और शुक से शनि दुर्बल हैं, ऐसा अर्थ जो मुनि के सूत्र से निकाला है सो ठीक नहीं है ।

अथ बलनिर्णयमाह—

सौराद्विगुणो भौमो चलवान् भीमाचतुर्गुणः सौम्यः ।

जीवोऽष्टगुणः सौम्याज्ञीवादृथाधिको भूर्गुर्वलवान् ॥

शुकाच्छोदशबलश्चन्द्रो भानुस्ततो द्विगुणः ।

द्विगुणः सर्वेषां राहुर्वलवान् निसर्गजनितथ ॥

भाषा—शनि से मङ्गल दो गुना बलवान् है । मङ्गल से तुथ चौगुना, तुथ से शुद्धपति अठगुना, शुद्धपति से शुक अठगुना, शुक से चन्द्रमा सोलह गुना, चन्द्रमा से सूर्य दो गुना और सूर्य से दो गुना राहु स्वधाव से षष्ठवान् है । इस से सिद्ध होता है कि राहु और केतु नव प्रहों में सब से यही है ।

अथ प्रसन्नाराहुकेतूनामुचादीनाद—

✓ कन्या राहुगृहं प्रोवतं राहुर्च मिथुनं स्थृतम् ।
मूलत्रिकोणं इष्टभं केतोस्तत्यप्तभं परे ॥

भाषा—राहुका वर्णना घर कन्या है । उच्चस्थान मिथुन है । मूल त्रिकोण मीन है । और राहु से सप्तम स्थान केतु का गृहादि है ।

अत्र कथिदाह—

✓ राहोद्यु वृषभः केतोर्वृश्चिकस्तुज्जसंज्ञकः ।

मूलत्रिकोणं कुम्भश्च क्रियं मित्रममुच्यते ॥

कन्या च स्वगृहं प्रोवतं मीनश्च स्वगृहं स्थृतम् ॥

भाषा—किसी आचार्य का मत है कि राहु का वृष और केतु का वृश्चिक उच्च स्थान है । कुम्भ मूल त्रिकोण और मेष मित्र क्षेत्र है । राहु का घर कन्या और केतु का घर मीन है ॥

अथापरस्त्येवमाह—

कन्यागृहं कुम्भश्च त्रिकोणमुच्चं लघुमं परमं नखांशम् ।

मनीषिणः केऽपि वदन्ति राहोस्ततस्ततः सप्तमकं च केतोः ॥

भाषा—किसी आचार्य का मत है कि राहु का घर कन्या, मूल त्रिकोण कुम्भ, उच्च मिथुन के २० अंश तक है । राहु के गृहादि से सप्तम स्थान केतु का गृहादि है ।

अथान्यस्त्येवमाह—

उच्चं लघुमं घटभं त्रिकोणं कन्यागृहं शुकशनी च मित्रे ।

सूर्यः शशाङ्को धरणीमुत्तर राहोरिपुर्विश्वातिकः परांशः ॥

भाषा—किसी का मत है कि राहु का उच्च मिथुन, मूल त्रिकोण कुम्भ, कन्या स्वगृह, शुक तथा शनि मित्र तथा रवि, चन्द्रमा और महाल शत्रु हैं । २० अंश परमोच्चं है ।

अथ पुनरन्यदाह—

✓ सिंहत्रिकोणं भनुवचसंज्ञं मीनोगृहं शुकशनी विपक्षौ ।

सूर्योरचन्द्राः सुहृदः समाख्यौ जीवेन्दुजौ पद्मशिखिनः परांशः ॥

भाषा—किसी का मत है कि केतु का मूल त्रिकोण सिंह, उच्च घन, स्वगृह मोन, शुक और शनि शत्रु, सूर्य, महाल और चन्द्र मित्र, शृहस्पति और वृष सम हैं । परमोच्चांश छ है ।

अथ पुनरन्यदाह—

तुङ्ग युग जगुरगोर्गृहमस्य कन्या
बोद्धण्डमण्डनमिहो चण्डे हे तु तेतो ।

तुङ्ग वचित्वलिगगो शिखिनध तुम्भम् ॥

भाषा—किसी का मत है कि राहु का उच्च मिथुन और स्वगृह कन्या है । तथा केतु का उच्च धनु, और स्वगृह मीन है । किसी मत है कि राहु का उच्च वृश्चिक और चेतु का तुम्भ है ।

अथ राहुविषये वाराहसहितायाम्—

अमृतास्यादविदेषाच्छ्रितमपि शिर विलासुरस्येदम् ।

प्राणीरपरित्यक्त प्रहतो यात वदन्त्यैके ॥

इन्द्रके मण्डलाट्टिरसितत्वात् किं न दद्यते गगने ।

अन्यत्र पर्वकालाद् वरयदानात्कमलयोने ॥

मुखपुच्छविभक्तात् भुज्ज्ञमाकारमुपदिशन्त्यन्ये ।

कथयन्त्यमूर्तमपरे तमोमय सैंहिकेयाह्यम् ॥

भाषा—किसी का मत है कि राहु नामक राक्षस का भस्तक वर्जने पर भी अमृत पीने के कारण प्राण नाश नहीं होकर प्रहृत्व को प्राप्त किया ।

चन्द्र और रवि के मण्डल के सदृश राहु को काला होने के कारण वृहस्पति के चर प्रदान से पर्वत काल से भिन्न समय में आकाश में नहीं दिखाई देता ।

किसी का मत है कि मुख और पुच्छ से विमच्छ है अहम् निय का ऐसा जो सर्व का आकार वही राहु का आकार है ।

किसी का मत है कि राहु का आकार कोई भी नहीं है, वेवह अन्यकार समय है, इत्याद्यनेक प्रमाण राहु का विषय में मिलते हैं ।

अथ सामान्यतयोऽप्युगमा॑दिभेदेन चरदशाया वर्षगणनामाह—

प्राचीवृत्तिर्विषयमेषु ॥ २५ ॥

परावृत्योच्चरेषु ॥ २६ ॥

विष०—प्राचीति । विषमेषु = विषमराशिषु (भेषमिथुनादिषु), प्राचीवृत्ति = वृत्तिर्विषय (भेषष्ठपादिरीत्या) गणना स्यात् । उत्तरेषु=समराशिषु (वृषकर्क-दिषु), परावृत्यो=वैष्परीत्येन (वृषमेषमीनदुम्भादिरीत्या) गणना स्यात् ॥ २५-२६ ॥

भाषा—चर दशा के वर्णनयन के लिये विषम राशि (भेष, मिथुन, सिंह, तुल, धनु, कुम्भ) में व्रतमयो गणना होती है । जैसे भेष, वृष, मिथुन इत्यादि । समराशि

(वृप, कक्षं कन्या, वृद्धिचक, मकर, मीन) में उत्क्रम गणना होती है, अर्थात् वृप, मेष मीन इत्यादि ॥ २५-२६ ॥

अत्रापवादमात्—

न क्वचित् ॥ २७ ॥

विद्—नेति । क्वचित् = कुत्रचित् (विषमराशौ, समराशौ च), न = पूर्व-सूत्रद्वयोक्तगणनाकमो न स्यात् (अर्थात् विषमराशौ क्रमगणना समराशावृत्क्रम-गणना च न स्यात्) ।

कुत्र न स्यादित्याकाशायां प्राचीनकारिका—

क्रमाद्वृपे वृद्धिचके च व्युत्क्रमात्कुम्भसिंहयोः ।

अथ “प्राचीवृत्तो”त्यादिसूत्रत्रयफलितार्थसप्रहो नीलंकण्ठब्याख्याख्यामेवमस्ति—
मेषादित्रित्रिमैज्ञेयं पदमोजपदे क्रमात् ।

दशाद्वानयने कार्या गणना व्युत्क्रमात् समे ॥

ननु यदि पदव्यवस्थयैव गणनाकमः समीचीनस्तर्हि “प्राचीवृत्तिर्विषमपदे”
“परावृत्त्योत्तरे” एवं सूत्रद्वयमेव कर्थं नोक्तं सर्वथालापवश्रयतमानेन मुनिनेति
चेन । अस्मिन् पद पदे “यावदीशाभ्यर्थं पदमृक्षाणाम्” इति सूत्रेण भिन्न प्रका-
रेण वक्तव्यपदप्रहणभीतेरेवं नोक्तम् । अस्याऽन्तरदशायां अप्रे विकेणदशायाऽच
पदव्यवस्थया वर्णगणनाकमोऽस्ति । परश्वास्मिन्नेवपदे पदसंज्ञया भिन्नार्थप्रकाशना-
दन्तपदशट्टोपादानेन तदेवपदं लोका जानीयुरिति भिया पदशट्टोपादानं न कृतम् ॥ २७ ॥

आपा—कहीं विषम राशि में भी क्रम गणना नहीं होती । तथा कहीं सम राशि में भी उत्क्रम गणना नहीं होती । कहाँ नहीं होती इसके जिज्ञासा में प्राचीन कारिका-(क्रमाद् वृपे वृद्धिचके च व्युत्क्रमात्कुम्भसिंहयोः) अर्थात् विषमपदीय सम राशि वृप और वृद्धिचक में क्रम गणना होती है, तथा समपदीय विषम राशि सिंह और कुम्भ में उत्क्रम गणना होती है । अतः यहाँ “प्राचीवृत्ति” इत्यादि तीनों सूत्रों का फलितार्थं नीलकण्ठ ने इस तरह कहा है (मेषादित्रित्रिमैज्ञेयं पदमोजपदे क्रमात् । दशाद्वानयने कार्या गणना व्युत्क्रमात् समे ॥) अर्थात् मेषादि तीन २ राशियों का एक २ पद होता है । विषम पद में क्रम गणना से अरदशा वर्ष गणना करना चाहिए । सम पद में वेष्टरीत्य क्रमशे चर दशा वर्ष गणना करना चाहिए ।

अगर यहाँ पर पदव्यवस्था ही से गणना कहा गया तो लाघव के लिये सर्वथा अत्यन्वान मुनिने “प्राचीवृत्तिर्विषमपदे” “परावृत्त्योत्तरपदे” ऐसा सूत्रद्वय ही क्यों नहीं कहा । इस का मतलब यह है कि इसी आव्याय के इसी पाद के २१ सूत्र में

पद संज्ञा भिन्न प्रकार से भिन्न विषय के लिये जो कहा गया है, उस का पहल हो जाता अतः मुनिने सूधग्रथ से इस वाच को स्पष्ट किया है ।

अथ दद्वादानयनावधिमाह—

नाथान्ताः समाः प्रायेण ॥ २८ ॥

चिं—नाथान्ता इति । चरदशायामस्यी नाथान्ता=स्वस्वनाथाश्रितराणिष्ठ-र्यन्ताः, समाः=दद्वावर्णाणि दद्वानि । अत्रायमाशयः—पूर्वोक्त “प्राचीहृती” त्यादि सूत्रब्रयेण क्रमगणनासुतक्रमगणनावेति निश्चित्य, तत्र क्रमगणना चेतदा भावरात्यादितस्तत्त्वामिनि द्वितीये—एकोद्धः, तृतोये द्वावद्वौ, चतुर्थं त्रयोऽद्वाः, इत्यादि क्रमेण द्वादशे—एकादशाद्वाः । तद्यथा मेषे भावः तृष्णे भावनाप्रश्चेदेकोऽद्वः, मेषे भावः मिथुने भावनाथश्चेद् द्वावद्वौ, मेषे भावः बक्के भावनाथश्चेत् त्रयोऽद्वाः, इति क्रमेण मेषे भावः मीने भावनाथश्चेदेकादशाद्वाः ज्येष्ठाः ।

अथोत्क्रमगणना चेतदा भावरात्यादितस्तत्त्वामिनि द्वादशे एकोद्धः, एकादशे द्वावद्वौः, दशमे त्रयोऽद्वाः, इत्यादि क्रमेण द्वितीये—एकादशाद्वाः । तद्यथा तृष्णे भाव मेषे भावनाथश्चेदेकोऽद्वः, तृष्णे भावः मीने भावनाथश्चेद् द्वावद्वौ, तृष्णे भावः कुम्भे भावनाथश्चेत् त्रयोऽद्वाः इति क्रमेण तृष्णे भावः मिथुने भावनाथश्चेदेकादशाद्वाः ज्येष्ठाः ।

अत्रीतदुक्तं भवति—चेत्क्रमगणना तदा प्रहाद्वावें विश्वीष्यावशिष्टे राशितुल्यं वर्षभूषादिभिरनुपातेन भासादयो ज्यातव्याः । यद्युत्क्रमगणना तदा भावाद्यग्रहं विशोष्यावशिष्टराशिसमं वर्षभूषादिभिरनुपातेन भासादयो ज्येष्ठाः ।

सूत्रेऽस्मिन् प्रायेणेति पदेन प्रन्थकर्तुमुनोराशयत्रये प्रकाशितं भवति । तत्र भावरात्यादौ तन्माये द्वादशाद्वा इत्यैकः ।

अत्र त्रुदः—

तस्मातदीशपर्यन्तं संख्यामन दशो विदुः ।

वर्षद्वादशकं तत्र नचेदेकं विनिर्दिशेत् ॥

अत्रायमर्थः—तेस्मात्=इष्टभावात्, तदीशपर्यन्तं=भावस्वामिनं यावत् (ज्येष्ठेत्क्रमगणनया राशित्वेति शेषः), राशनया या संख्या ता संख्यामन दशो विदुः । तत्र=तस्मिन् भावे स्वमिनि वर्षद्वादशक=द्वादशवर्णाणि स्युः, न चेतदेकं =एकादिक्रमेण विनिर्दिशेत् ।

तथा भावस्वामिनः उच्चवर्णीवत्वाभ्यामेकैकवर्षद्विद्वासाविति द्वितीयः ।

तत्र वृद्धः—

उच्चखेटस्य सद्गावे वर्षमेकं विनिश्चिपेत् ।

तथैव नीचखेटस्य वर्षमेकं विशोधयेत् ॥

अत्रायमर्थः—उच्चखेटस्य=उच्चगतप्रहस्य, सद्गावे=विद्यमाने सति, वर्षमेकं=तद्गावदशायामेकं वर्षं, विनिश्चिपेत्=योजयेत् । तथैव=तेनैव प्रकारेण नीचखेटस्य=नीचगतप्रहस्य सद्गावे वर्षमेकं विशोधयेत् ।

तथा च वृथिककुम्भयोर्विशेषप्रतिपादनार्थमिति तृतीय वाशयः प्रायेणेति पदस्येति
तत्र वृद्धाः—

द्विनाशक्षेत्रयोरत्र कियते निर्णयोऽधुना ।

एकः स्वक्षेत्रगोऽन्यस्तु परत्र यदि संस्थितः ॥

तदान्यत्र स्थितं नाथं परिगृह्य दशां नयेत् ।

स्वक्षेत्रे मिलितावेव स्वामिनौ द्वादशाद्वकाः ॥

एकस्य स्वगृहस्थत्वं नैव कायौपदीयिकम् । द्वावप्येकर्कगौ तौचेत् सप्रहो बलवान् भवेत् ॥

अहयोगसमत्वे तु ह्रेयं राशिबलाद्वलम् । चरस्थिरद्विस्वभावाः क्रमात् स्युर्बलशालिनः ॥

राशिबलसमानत्वे बहुवर्णो यली भवेत् । एकः स्वोच्चगतस्त्वन्यः परत्र यदि संस्थितः ॥

आद्यं तदुच्चखेटस्यं राशिमन्यं विहाय च ।

एवं सर्वं समालोच्य जातकस्य फलं वदेत् ॥

अत्रायमर्थः—द्विनाशक्षेत्रयोः=द्विस्वामिगृहयोः (वृथिककुम्भयोः), आधुना=साम्रातं, निर्णयः, कियते=विधीयते । यदि=चेत्, एकः=एको नाथः, स्वक्षेत्रगः=स्वराशिस्थः, अन्यः=इतरो नाथः, परत्र=अन्यराशौ संस्थितः, तदा=तर्हि, अन्यत्र स्थितं=अन्यत्र वर्तमानं, नाथं=स्वामिनं, परिगृह्य=परिगृह्यते कृत्वा, दशां=पाकं नयेत् । यदि तावेव=पूर्वोक्तवेव, स्वक्षेत्रे=स्वराशौ, मिलितौ=सम्मिलितौ भवेताम्, तदा द्वादशाद्वकाः=द्वादशाद्वः स्युः । एकस्य=एकनाशस्य, स्वगृहस्थत्वे=स्वराशिवर्तमानत्वं, कायौपदीयिकं=कायौपदीयितां नैव । आपि=निथयेन, तौ=पूर्वोक्तौ, द्वौ=नाथौ अन्यर्थाणौ=अन्यराशिस्थो चेद्रवतः, तत्र उप्रहः=प्रहयुक्तः, बलवान्=यली भवेत् । प्रहयोगसमत्वे=प्रहयोगसम्ये तु, राशिवलात्=तद्राशिवलात्, वर्णं ह्रेयम् ।

अथ राशिवलं घदति—चरस्थिरद्विस्वभावाः=चरस्थिरद्विस्वभावराशयः, क्रमात् बलशालिनः=बलवन्तः स्युः । अथ राशिवलस्थमत्वे=राशिवलसाम्ये,

बहुवर्ष = बहुवर्षप्रद, बली मवेत् । बदि एक = एको नाथ, स्वेच्छात = स्वेच्छा-राशिस्थ, अन्य = अन्या नाथ, परन्तःमिश्राशी स्थितस्तदा अन्य = द्वितीय, राशि = भ, विद्याय = हित्वा, उच्चेष्टस्थ = उच्चेष्टगतं भ शाश्वम् । एव = पूर्वोच्चशक्त-रेण, सर्व = अस्ति, समालोच्य = विचित्र्य, जातकस्य = जातस्य, फल वदेत् ।

भाषा—चर दशा में प्रत्येक भाव से उस के स्वामी की राशि पर्यन्त जो संलग्न हों वे चरदशा वर्ष होते हैं । अर्थात् पहले पूर्व कथित “प्राचीवृत्ति” हृत्यादि तीन सूत्रों से क्रम गणना या उत्क्रम गणना है इस का निश्चय करके अगर क्रम गणना हो तो भाव राश्यादि से उस के स्वामी द्वितीय में हो तो पूरुष, तृतीय में हो तो दो वर्ष, चतुर्थ में हो तो तीन वर्ष इस क्रमशे बारहने में हो तो चारह वर्ष होते हैं । जैसे अगर मेष में भाव और वृष्ट में उस के स्वामी हो तो एक वर्ष, मेष में भाव और मिथुन में भाव स्वामी हो तो दो वर्ष, मेष में भाव और कर्त्ता में भाव स्वामी हो तो तीन वर्ष इसी क्रमशे मेष में भाव और मीन में भाव स्वामी हो तो चारह वर्ष होते हैं ।

तथा अगर उत्क्रम गणना हो तो भावराश्यादि से उस के स्वामी ह्रादत्र में हो तो एक वर्ष, एकादश में हो तो दो वर्ष, दशमे में हो तो तीन वर्ष इसी क्रमशे द्वितीय में हो तो चारह वर्ष होते हैं ।

जैसे वृष्ट में भाव और मेष में भाव स्वामी हो तो एक वर्ष, वृष्ट में भाव और मीन में भाव स्वामी हो तो दो वर्ष, वृष्ट में भाव और कुम्भ में भाव स्वामी हो तो तीन वर्ष इसी क्रमशे वृष्ट में भाव और मेष में भाव स्वामी हो तो चारह वर्ष होते हैं । इसी तरह और दूसरे क्रमोत्क्रमगणना वाले राशि से भी विचार करना ।

पूर्वोक्त कथन से यह सिद्ध होता है कि जहा पर क्रम गणनाहो वर्षा पह में भाव को शोधन करके शेष जो बचे उस में राशि के वरापर दशा वर्ष होगा । अंशादि को बारह से गुणकर तीस का भाग देने से मासादि आजायेंगे ।

जहा पर उत्क्रम गणना हो वहा भाव राश्यादि में पह राश्यादि को घटा कर शेष जो बचे उस में राशि के वरापर दशा वर्ष होगा, अंशादि को बारह से गुणकर तीस का भाग देने मासादि आजायेंगे ।

इस सूत्र में “प्रावेण” इस पद से प्रन्थकर्ता को तीन आशय प्रकाशित होते हैं ।

इन तीन आशय में पहला यह है कि अगर भाव में भावस्वामी पड़े तो चारह दशा वर्ष होते हैं ।

इस में प्रमाण यूद्दों का वाक्य भी है ।

अर्थ—भाव से भावस्वामी पर्यन्त वितनी संलग्नाये हों ये दशावर्ष होते हैं । इसी अर्थ को स्पष्ट करते हैं कि अगर भाव में भावस्वामी पड़े तो चारह वर्ष होते हैं ।

हैं। भाव में न पड़े तो क्रम या उत्क्रम गणना से एक एक वर्ष बढ़ि वर्के दो वर्ष होते हैं।

तथा ग्रन्थकार का दूसरा आशय यह है कि अगर भावस्वामी उच्च में पड़े हों एक वर्ष अधिक और नीच में एक वर्ष हीन करने से वहाँ दशा वर्ष होते हैं।

इस में भी प्रमाण छुद्दों का वाक्य है।

अर्थ—अगर भावस्वामी उच्चलित प्रह हो तो उस के पूर्वानीत दशा वर्ष में एक वर्ष अधिक करना चाहिए। अगर भावस्वामी नीच का हो तो पूर्वानीत दशा वर्ष में एक वर्ष हीन करना चाहिए।

दो दो स्वामी वाले राशि में विशेष कहना यह तीसरा आशय है। न्या विशेष कहना है इस में प्रमाण घृद्ध का वाक्य यह है—

अर्थ—दो स्वामी वाले राशियों का निर्णय करते हैं। अगर भाव का एक स्वामी उसी राशि में हो जो और दूसरा स्वामी अन्यत्र हो तो दूसरे स्वामी तक दशा वर्ष प्रहण करना चाहिए। अगर भाव हो में दोनों स्वामी पड़े तो दशा वर्ष बारह होते हैं। इस से यह सिद्ध होता है कि एक स्वामी का भाव में रहना कार्यापयोगित्व नहीं है। अगर दोनों भावस्वामी स्वरूप से हृतर स्पान में अलग अलग हों तो जिस स्वामी के साथ प्रह हो पह यलवान् होता है। अर्थात् उसी से छेकर दशा वर्ष प्रहण करना चाहिए। अगर दोनों स्वामियों में प्रहमोग दरायर हो तो राशि के बल से बली होता है। राशि के बल कहते हैं—

चर से स्तिथ, स्तिथ से द्विस्वामिव बली होता है। अगर राशि के बल में समता हो तो जिस का दशा वर्ष ज्यादा हो पह बली होता है। अगर एक स्वामी स्वोच्छ में हो और दूसरा उस से अन्यत्र हो तो दूसरे का व्येष्ठा वर्के उच्चस्थ पह पर्यन्त दशा वर्ष संटया प्रहण करना चाहिए। इस सरह विचार कर जातक का फलादेश करता चाहिए।

अथ द्विस्वामिकरातिभाद—

एविकाधिपती द्वौ च कुब्रेतद्विजोत्तम ।

स्वर्मानुपद्गु कुम्मस्य पती द्वौ विन्तपेद्विद्वन् ॥

मापा—बूदिष्ठ के महूल और नेत्र स्वामी हैं तथा कुम्म के राहु और शत्रि हैं।

अथ राशिस्वामिन आह—

सिंहादिपद्गस्य पतिर्दिनेशः कर्णंतपद्गस्य पतिर्निरोशः ।

ताम्या प्रदशः प्रमदोऽपिद्याये नशुकभीमेन्द्रशतैर्देभ्यः ॥

मेषशुधिकयोभीमः शुक्रो वृषतुलाधिप् ।

फन्याग्निशुनयो चौम्ये कर्कस्वामी च चन्द्रमा ॥

सिंहस्वाधिपति सर्वो गुरुस्तु धनभीनयो ।

शनिर्नक्ष्य कुम्भस्य कथितो गणकोत्तमै ॥

भाषा—सिंहादि छे राशियों (सिंह, कन्या, तुला वृश्चिक, धनु और मकर) का उत्तरांश ज्योतिर्लक्षण नहीं हैं इनके लिए नहीं ज्योतिर्लक्षण नहीं हैं अर्थात् ये तीनों राशियों का शुक्र, कन्या और मिथुन का वृश्चिक, कर्क का चन्द्रमा, सिंह का रवि, धनु और भीम का वृहस्पति, मकर और कुम्भ का स्वामी रहनेवाले हैं ।

अथ प्रह्लाणमुच्चस्थानानि—

अजशृपभस्तगद्वान्कुलीरा लक्षविणिजो च दिवाकरादिगुहाः ।

दशशिखिमनुसुकृतियीन्द्रियाशैखिनवतिविशतिभित्ति सेस्तनीवा ॥

भाषा—सूर्य का मेष, चन्द्रमा का वृष्ट, मङ्गल का महर, बुध का कन्या, वृहस्पति का कर्क, शुक्र का भीम, शनैङ्गवर का तुला और (राहु का मिथुन वैतु का धन) उच्च है । उच्च से सत्तमस्थान नीच होता है । अर्थात् रवि का तुला, चन्द्रमा का वृश्चिक, मङ्गल का कर्क, बुध का भीम, वृहस्पति का महर, शुक्र का कन्या, शनैङ्गवर का मेष और (राहु का धन, वैतु का मिथुन) नीच है । परम उच्च और नीच का अंतर सूर्य का १०, चन्द्रमा का ३, मङ्गल का २८, बुध का १०, वृहस्पति का ६, शुक्र का २७, शनि का २० और (राहु का २०, वैतु का ६) इतना है ।

उदाहरण—पूर्वोक्त उदाहरण में धनु लग्न राशयादि—४११२२१२३ इतना है । लग्न के स्वामी वृहस्पति के राशयादि—४११२२२१९ इतना है । यहाँ लग्न को विषम पदोंव होने के कारण कम गणना सिद्ध हुआ, इस लिये लग्न राशयादि को उस के स्वामी वृहस्पति के राशयादि में पटाने से बोप—(४११२२२१९०९)—(४११२२१२१२३)—५१२४३७४६ पृच्छा । इस में राशि (७) के तुरन्त घण्टे हुआ । बोप अंशादि—(२४३७४६) इतना हुआ, लव यद्यां अंशादि यर से मासादि लग्न के लिए अनुपात किया कि अपर अंश ३० में यादह मास पाते हैं तो बोप अंशादि में

बोप— $\frac{1}{30} (२४३७४६)$ — $\frac{3}{9} (२४३७४६)$ — $\frac{८४११२१२३}{९}$ — $\frac{८४११२१२३}{९}$ यद्यां बोप

यम लग्न में भाग देने से लग्न मास=६, बोप = $\frac{३११६१३२}{९}$ इस को गीप

से गुणा किया दिनादि = $\frac{३० (३१११३२)}{६} = ६ (३१११३२) = १८१९०१९२ =$

१११३३१२, अतः लक्ष्म का दशा वर्षादि = ३१११११३३१२ ।

द्वितीय भाव मकर को सम पदीय होने के कारण उत्तम गणना सिद्ध हुआ ।
अतः भाव (११२३११७१९) में उस के स्वामी शनि (१११३१२०१९९) को घटाने से शेष = (११२३११७१९) - (१११३१२०१९९) = १०१९१९६१२० इस में राशि (१०) के समान दशा वर्ष हुआ । अंशादि को १२ से गुणा कर ३० का भाग दिया तो $\frac{१२ (११६६१२०)}{३०} = \frac{२ (११६६१२०)}{६} = \frac{१८१९२१४०}{६} = \frac{११६२१४०}{६}$, यहां प्रथम खण्ड

में भाग देने से सध्यमास ३, शेष = $\frac{४१६२१४०}{६}$ इस को तीस से गुणा किया तो दिनादि = $\frac{३० (४१६२१४०)}{६} = ६ (४१६२१४०) = २४१३१२१२४० = २६१६१००$ हुआ,
अतः दशा वर्षादि = १०१३१२११६१०० ।

द्वितीय भाव कुम्भ को विषम पदीय होने के कारण ऋग गणना सिद्ध हुआ ।
अतः भाव राश्यादि (१०१२१११३७) को उस के स्वामी शनि के राश्यादि (१११३१२०१९९) में घटाने से शेष = (१११३१२०१९९) - (१०१२१११३७) = (००११६३४८), यहां राशि स्थान में शून्य होने के कारण दशा वर्ष शून्य हुआ । अंशादि को १२ से गुणा कर तीस का भाग दिया तो = $\frac{१२ (११६३४८)}{३०} = \frac{२ (११६३४८)}{६}$

= $\frac{३०११४१६}{६} - \frac{३०११६१३६}{६}$, प्रथम खण्ड में भाग देने से मास = ६, शेष = $\frac{००११६१३६}{६}$
को तीस से गुणा किया तो दिनादि = $\frac{३० (००११६१३६)}{६} = ६ (००११६१३६) =$
००११०१२१६ = ११३३१३६ । अतः दशा वर्षादि = ००१६११३३१३६ ।

षष्ठुर्ध भाव मेष को विषम पदीय होने के कारण ऋग गणना सिद्ध हुआ । अतः भाव राश्यादि (००१३१११३७) को उस के स्वामी महूल के राश्यादि (१११३११३७) में घटाने से शेष = (१११३११०२) - (००१३११३७) = ४१२११६०१५ इस में राशि (४) के समान वर्ष हुआ । शेष अंशादि को याहर से गुणा कर तीस का भाग दिया तो $\frac{१२ (४१२११६०१५)}{३०} = \frac{२ (४१२११०१५)}{६} = \frac{६६११००११०}{६} = \frac{६४१४०११०}{६}$ यहां प्रथम खण्ड में भाग देने से छाप मास = ११, शेष $\frac{२४१४०११०}{६}$ को तीस से गुणा कि-

१ पादः] सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-दीकाढ्यसहितम् । ५६

$$\text{या वो दिनादि} = \frac{30}{6} (2140110) = 6 (2140110) = 121240160 = 161110, \\ \text{अतः दशा वर्षादि} = 811116110 = 1.$$

पश्चम भाष्य को मेष में होने के कारण व्रम गणना सिद्ध हुआ । अतः उस के स्वामी मधुल के राश्यादि ११११९१२ में भाव राश्यादि ००१२८११३१०५ को घटाने से शेष = (११११९१२) - (००१२८११३१०५) = ११३१४११७ इस में राशि ४ तुल्य वर्ष हुआ, शेष वर्षादि को १२ से गुणा कर तीस का भाग दिया $\frac{12}{30} (314117)$

$$-\frac{2}{9} (2142117) - \frac{6101117}{9} - \frac{713117}{9}, \text{प्रथम खण्ड में भाग देने से लब्ध मास} = 1, \text{ शेष} = \frac{713117}{9} \text{ को तीस से गुणा किया तो दिनादि} = \frac{30}{9} (213117) =$$

$$= 6 (213117) = 1211661328 = 16111128, \text{अतः दशा वर्षादि} = 8111161128$$

एष भाव वृत्त को सम पद्धीय होने के कारण उत्क्रम गणना सिद्ध हुआ । अतः भाव राश्यादि = ११३११७११३ में उस के स्वामी शुक्र के राश्यादि ४११३११३ को घटाने से शेष = ११३१४११४ हुआ, इस में राशि (१) के तुल्य वर्ष हुआ, शेष वर्षादि को चारह से गुणा कर तीस का भाग दिया तो $\frac{12}{30} (2141140) =$

$$-\frac{2}{9} (21421140) - \frac{62011140}{9} - \frac{83123120}{9} \text{ प्रथम खण्ड में भाग देने से लब्ध मास} = 8, \text{ शेष} = \frac{83123120}{9}, \text{इस को तीस से गुणा किया तो दिनादि} = \frac{30}{9} (3123120) =$$

$$= 6 (3123120) = 1611631120 = 20120100, \text{अतः दशा वर्षादि} = 81120120100।$$

इसी तरह सभीमादि भाष्यों का भी दशा ज्ञाननावाहिपु ।

अथ चरदशालेखनक्रम ॥

पथमे पद्मगात् प्राकूप्रत्यक्षत्वे चरदशायाम् २।३।११

भाष्य—लग्न से नवम स्थान अग्र विषम पद्धीय हो तो लग्न, द्वितीय..... इत्यादि क्रमने चर दशा होती है । अग्र लग्न से नवम स्थान सम पद्धीय हो तो लग्न, द्वादशाइत्यादि उत्क्रम गणना से चर दशा होती है ।

यहाँ लग्न धनु से नवम मिह को विषम पद्धीय होने के कारण व्रम गणना सिद्ध हुआ ।

अथ स्फुटचरदशाचकारम्—

राशि	घ.	म.	क्र.	मी.	मे.	वृ.	मि.	क.	सि.	क.	तु.	षु.
ब.	७	१०००	४	४	९	३	७	०	९	९	३	
मा.	९	३	६	११	१	८	५	६	७	११	१	८
दि.	११	२९	१	१६	१५	२०	१९	२९	००	१०	१०	१५
दं.	१३	१६	३३	१	१	२०	१	३०	४०	५५	२९	३३
प.	१२	३	३६	०	२४	००	३६	००	४८	१२	३६	२२
सम्बन्ध	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.
१	१८	१८	४	४	१८	१८	४	१८	४	१८	१८	४
२	१९	१७	५	५	१९	१९	५	१९	५	१९	१७	५
३	१८	१८	६	६	१८	१८	६	१८	६	१८	१८	६
४	१७	१७	७	७	१७	१७	७	१७	७	१७	१७	७
५	१६	१६	८	८	१६	१६	८	१६	८	१६	१६	८
६	१५	१५	९	९	१५	१५	९	१५	९	१५	१५	९
७	१४	१४	१०	१०	१४	१४	१०	१४	१०	१४	१४	१०
८	१३	१३	११	११	१३	१३	११	१३	११	१३	१३	११
९	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२
१०	११	११	१३	१३	११	११	१३	११	१३	११	११	१३
११	१०	१०	१४	१४	१०	१०	१४	१०	१४	१०	१०	१४
१२	९	९	१५	१५	९	९	१५	९	१५	९	९	१५
१३	८	८	१६	१६	८	८	१६	८	१६	८	८	१६
१४	७	७	१७	१७	७	७	१७	७	१७	७	७	१७
१५	६	६	१८	१८	६	६	१८	६	१८	६	६	१८
१६	५	५	१९	१९	५	५	१९	५	१९	५	५	१९
१७	४	४	२०	२०	४	४	२०	४	२०	४	४	२०
१८	३	३	२१	२१	३	३	२१	३	२१	३	३	२१
१९	२	२	२२	२२	२	२	२२	२	२२	२	२	२२
२०	१	१	२३	२३	१	१	२३	१	२३	१	१	२३
२१	०	०	२४	२४	०	०	२४	०	२४	०	०	२४

इस के बाद सब भावों को केवल चरदशा वर्षे लानार्थं उदाहरण-प्रयम माव घनु है। इस का स्वामी वृहस्पति घनु से नवम सिंह में है अतः दशा वर्षे ८ हुआ। मकर राशि को सम परीय होने के पारण उत्क्रम गणना सिद्ध हुआ। इस का स्वामी शनि कुम्म का है, अतः उत्क्रम गणना क्रमसे मकर से शनि वर्ष्यन्त ११ हुआ, अतः दशा वर्षे १० हुआ। कुम्म को विषम पदीय होने के कारण क्रम गणना सिद्ध हुआ। इस का स्वामी शनि और रातु दो हैं, उन में रातु मिथुन में है, और शनि मीन में है, याहू रातु के उपर स्थान मिथुन होने के कारण “एकः स्वोऽप्यगतस्त्वयः परत्र वदि संस्थितः। याहू सदोऽप्येत्यर्थं रात्रिमन्यं विद्याय च च” इस कारिका से क्रम गणना क्रमसे कुम्म से रातु वर्ष्यन्त ५ हुआ, अतः दशा वर्षे ४ हुआ। मीन सम परीय है, अतः उत्क्रम गणना सिद्ध हुआ उपर से स्थामी वृहस्पति सिंह में है, भीन से सिद्ध सक उत्क्रम गणना से ८ हुआ, अतः दशा वर्षे ८ आया। मेष को विषम पदीय होने के कारण क्रम गणना सिद्ध हुआ। इस का स्वामी महात्र कन्या में है, अतः मेष से

इन्हा सक दूसरे गणना से ह आया, अतः दशा धर्य ५ हुआ।

५. वृष्टि को सम पदीय होने के कारण उत्क्रम गणना सिद्ध हुआ, इस का स्वार्मी शुक्र सिद्ध में है, अतः वृष्टि से सिंह पर्यंत उत्क्रम गणना से १० आया, अतः दशा वर्ष १ हुआ। मिथुन को विषम पदीय होने के कारण प्रम गणना सिद्ध हुआ। इस वा स्वामी शुक्र तुला में है, अतः मिथुन से तुला पर्यंत प्रम गणना से ६ आया, अतः दशा वर्ष ४ हुआ। कर्के को सम पदीय होने के कारण उत्क्रम गणना सिद्ध हुआ, इष्य का स्वार्मी चन्द्रमा धनु में है, अतः कर्के से धनु पर्यंत उत्क्रम गणना से ८ आया, अतः दशा वर्ष ७ हुआ। सिंह को विषम पदीय होने के कारण क्रम गणना सिद्ध हुआ, इस का स्वामी रवि कन्या में है, अतः सिंह से कन्या पर्यंत क्रम गणना से दो आया, अतः दशा वर्ष १ हुआ। कन्या को सम पदीय होने के कारण उत्क्रम गणना सिद्ध हुआ, इस का स्वामी शुक्र तुला में है। अतः कन्या से तुला पर्यंत उत्क्रम गणना से १२ आया, अतः दशा वर्ष ११ हुआ। तुला को विषम पदीय होने के कारण प्रम गणना सिद्ध हुआ। इस का स्वामी शुक्र सिद्ध में है, अतः तुला से मिह पर्यंत प्रम गणना से ११ आया, अतः दशा वर्ष १० हुआ। शूश्रित का स्वामी केतु, और मङ्गल है, शूश्रित को सम पदीय होने के कारण उत्क्रम गणना सिद्ध हुआ। वैतु धनु में और मङ्गल कन्या में है। पर केतु को स्वोच्छम्य होने के कारण दशादृश्य में आया हुआ पूर्णक प्रमाण से वैतु सम्पन्नी भागत वर्ष ही शूश्रित के दशा वर्ष होगा, अतः शूश्रित से ऐसर धनु तक उत्क्रम गणना से वारह आया, अतः दशा वर्ष ११ हुआ।

अथ स्यूलचरदशाचक्रम्—

अथ चरान्तर्दृशामाह—

यावद् विवेक-मावृत्तिभीनाम् ॥ २६ ॥

विं—यावदिति । भानां=राशीनां, विवेकं=चतुश्त्वारिष्ठादधिकशतसंख्या यावत्, आवृत्तिः = अन्तर्दशासंख्या भवति । अर्थात् प्रति राशिपु ये दशाद्वाधरस्थिरादिदशामु तेषां द्वादशविभागेन द्वादशराशीनामा गुह्तिर्भवति ।

भाषा—प्रत्येक राशि की दशा में यारह राशियों की अन्तर्देशा होती है, अतः अन्तर्देशा की संख्या १४४ होती है।

अन्तर्दशाप्रमाणमाह वृद्धः—

कृत्वार्कधा राशिदशां राशिभुक्ति क्रमाद्वदेत् ।

एवं दशान्तर्दर्शादि कृत्वा तेन फलं वदेत् ॥

भाषा— दशा वर्ष के द्वादशांश सुल्य अन्तर्देशा का मान उस राशि के महादेशा में सब रक्षियों का होता है। अन्तर्देशान्यन में लग्न विषम पद में हो तो एक्सेस, सम पद में हो तो उत्क्रम से अन्तर्देशा लिखना चाहिए।

अथ स्थूलचरान्तर्देशाचक्रम्—

१ पादः] सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाद्यसहितम् । ५५

अथ इष्टेचरान्तर्दशाचक्रम्—

राशि	घ.	म.	क्र. मी.	मे.	वृ.	मि.	क.	सि.	क.	द्व.	वृ.
ब.	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
मा.	७	७	७	७	७	७	७	७	७	७	७
दि.	२४	२४	१४	२४	२४	२४	२४	२४	२४	२४	२४
दं.	७	७	७	७	७	७	७	७	७	७	७
प.	४६	४६	४६	४६	४६	४६	४६	४६	४६	४६	४६
सम्बद्ध	स	सं	सं	सं	सं	सं	सं	सं	सं	सं	सं
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
सूर्य	सू	सू	सू	सू	सू	सू	सू	सू	सू	सू	सू
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
५	१	३	४	०	८	४	०	७	३	११	५
१५	१	४	२८	२२	१६	१०	४	२८	२२	१७	११
४६	५४	२	१	१७	३५	३३	४०	४८	५६	४	११
३१	१७	३	४९	३५	२१	७	५३	३९	२५	११	५५

अथ विदेषज्ञापनाय राशीनामाल्लपरपर्यायं पदमाह— २१

यावदीशाधर्यं पदमृक्षाणाम् ॥ ३० ॥

विद्य—यावदिति । कुक्षाणां=राशीना, ईशाधर्यं यावत्=विचराधर्योभूतराशे-स्तदीशपर्यन्तं या संख्या तामीशादप्रे प्रणीय सा संख्या यत्र समाप्ता तद्विस्तारप्रहस्यामिकरणिः पदे स्थात् । नमु—ईशाधर्यादप्रे प्रणीयेत्यर्थं क्यं सत्त्वच्छते २ अश्रोत्यते यावच्चासावीशध यावदीशः यावदीश आध्रयो यस्य तद्यावदीशाधर्यं पदगिति समाप्तालभ्यत इति ॥ ३० ॥

भाषा—विचाराधर्योभूत राशि से उस के स्वामी तक गिन कर जिसना संख्या हो उतना किर डस से गिन कर जो राशि होगी, वही विचाराधर्योभूत राशि का पद (आरूप) होती है ।

अत्र षुट्टाः—

लग्नादावत्तिथे राशी तिष्ठेत्तरनेत्वरः क्रमात् ।

ततस्तावतिथं राशि लग्नारूढं प्रवक्षते ॥

भाषा—विचारणीय राशि से जितनी संख्या पर विचारणीय राशि के स्थामी वेदा हो उस से उसनी संख्या वाली राशि विचारणीय राशि का आरूढ़ होता है ।

उदाहरण—पूर्वोक्त उदाहरण में धनु लग्न है, उस का स्थामी धनु से नवम स्थान सिंह में है, अतः सिंह से नवम स्थान धनु का पद हुआ अर्थात् मेष पद हुआ ।

अथात् विशेषयमाद्—

स्वस्थे दाराः ॥ ३१ ॥

सुतस्थे जन्म ॥ ३२ ॥

विऽ—स्वस्थ इति । स्वस्थे=भावात्तचतुर्थस्ये तथाथे, दाराः=चतुर्थस्थानमेव पदं भवति । तथा सुतस्थे=भावात्सप्तमस्थे तथाथे, जन्म=दशमो राशिः (विकाराश्रवीभूतभावादशमो राशिः) पदं भवति ॥ ३१-३२ ॥

भाषा—अगर विचारणीय भाव से उस का स्थामी पत्रुर्थस्थान में हो तो भाव स्थामी युत घटुपं स्थान ही उस भाव का पद होता है ।

तथा यदि विचारणीय राति से सप्तम में उस का स्थामी हो तो विचारणीय राशि से दशम राशि उम राशि का पद होता है ॥ ३१-३२ ॥

उदाहरण—शाके १४९ सन् १३३९ साल मार्गशुक्लवृत्तीया दण्डादि: = ३०१८
तदुपरि चतुर्थी, मूलनक्षयदण्डादि: = ११५८, रवियासो श्रीसूर्येगुरुकृष्णिकांशरात्राः = ११२६।४६, श्रीसूर्योदयादिष्टश्याः = ५७।०२, भयात्म = ४६।४, भमोगः = १२।९,

अस्मिन् समये कस्यचिन्मत्स्नेहिनो जन्मजातम् ।

* जन्म-कुण्डली *



पादः] सोद्वाहरण-विमला संस्कृत-हिन्दी-टीकाध्यसहितम् । ५७

यहाँ सिंह के स्वामी रवि सिंह से चतुर्थ बृशिक में है, अतः सिंह का बृशिक पद हुआ । तथा मेष के स्वामी मङ्गल मेष से सप्तम तुला में है, अतः मेष से दशवां मङ्गल मेष का पद हुआ, इत्यादि ।

अथ स्वस्थे दारा इत्यादिस्त्रे संख्याप्रहणव्यवस्थामाह—

सद्वश सद्वर्णा भावा राशयश्च ॥ ३३ ॥

विं०—सर्ववेति । सर्वप्र=सर्वस्मिन् स्थाने (अस्मिन् ग्रन्थे आदितोन्तं याद्-दित्यर्थः), भावा राशयश्च, सद्वर्णा=एकादिसंख्यामोधकाक्षरगम्याः (कठपयवर्ण ... इत्यादिपूर्वप्रतिपादितैरत्यगम्या इत्यर्थः) ।

तथा चकारात् भावा राशयश्च सद्वर्णा वर्णदेन (राशिना) सहिता वर्णदराशि-दशाधिता प्राज्ञा ॥ ३३ ॥

भाषा—इस प्रथम में आदि से लेकर अन्त तक सब जगह भाव और राशियों की संख्या पूर्व कथित कठपयवर्णम् ... इत्यादि वर्ण के अनुपार प्रहण करना चाहिए । तथा चकार से वर्ण दशा के साथ भाव राशियों का प्रहण करना चाहिए ।

अथ वर्णदराशि-ज्ञानार्थमाह गृहः—

ओजलग्नप्रसूतानां मेषादिर्गणयेत् क्रमात् । समलग्नप्रसूताना भीनादेश्वकमादिति ॥
मेषमीनादितो जन्मलग्नान्तं गणयेत् सुधी । तथैव होरालग्नान्तं गणयित्वा ततः परम् ॥
पुस्तवेन खीतया वैते सजातीये उभे वदि । तर्हि संख्ये योजयीत वैजात्वे तु विद्योषयेत् ॥

मेषमीनादितः पश्चात्यो राशिः सतु वर्णद ।

भाषा—आगर जन्म लग्न विषयम् राशि में पड़े तो मेषादि क्रमसे गणना करना चाहिए, अर्थात् यथावत् रहने देना चाहिए । भगव सम राशिमें पड़े तो उक्तम् गणना करना चाहिए, अर्थात् यारह में घटा कर जो दोष यच्च घट ऐना चाहिए । इसी तरह होरा लग्न को भी यना लेना चाहिए । अब पूर्व कथित प्रकार से यना हुआ जन्मलग्न और होरा लग्न दोनों यदि सम राशि या विषयम् राशि में पड़े तो दोनों का योग कर ऐना चाहिए । अगर यह विषयम् और दूसरा सम में पड़े तो दोनों का अन्तर कर लेना चाहिए । इस तरह किया गया योग या अन्तर अगर विषयम् राशि में पड़े तो वही वर्णद हो जायगा । अगर सम राशि में पड़े तो यारह में घटाकर कर शेष जो यच्च घट यंद होगा ।

अथ भावलग्नाद्यानयने मदीयः प्रकारः—

हत्ते जन्मकालेष्टपत्यादिमानं रसर्कसंख्यैश्च शून्यानिभित्वा ।

फर्स यस्तृथ्यमंशकार्यं भवेत्तद्रवी योजनीयं ततः संभवेयु ॥

अमाद्वावहोरापटीलग्नकानि तुधव्यूहप्रीत्वै मदीयः प्रकारः ॥

भाषा—जन्म काल का जो हृष्ट घट्यादि हो उस को तीन जगह में रख कर क्रमशः छै, बारह और तीस से गुणा कर फल अंशादिक जो हो उस को तात्कालिक रवि में अलग जोड़ने से क्रमशः भावलान, होरालग्न और घटीलग्न हो जायेंगे ।

अन्नानयने नृद्धयादियम्—

सूर्योदयात्समारम्भ कलापश्चप्रमाणतः । जन्मेष्टकालपर्यन्तं गणनीयं प्रयत्नतः ॥
ओजराशौ यदा लग्नं सूर्यराश्यानुसारतः । समलग्ने जन्मलग्नमायत्संख्या प्राप्यते द्विज ॥
भावलग्नं विजानीयाद्वोरालग्नं तदुच्यते । तथा सार्धं द्विघटिकामितात् कालादिलग्नमात् ॥
प्रयाति लग्नं तत्त्वामहोरालग्नं द्विजोत्तम । यज्जन्मं विषयमक्षेषु सूर्योदिं गणयेत् कमात् ॥
सुमलग्ने यदा जन्म गणयेऽजन्मभाद् द्विज ॥

भाषा—सूर्योदय से जन्म काल पर्यन्त जो घट्यादिक हो उस में पाँच का भाग देने से लब्ध राशि होती है । शेष को ३० से गुणा कर पाँच का भाग देने से लब्ध अंश होता है, किर चेष को ६० से गुणा कर पाँच का भाग देने से लब्ध कला होती है । पुनः शेष को ६० गुणा कर पाँच का देने से लब्ध विकला होती है । एवं लब्ध राश्यादि को विषयम लग्न हो तो लग्न में तथा सम लग्न हो तो सूर्य में जोड़ने से भाव लग्न होता है । एवं हृष्ट घट्यादि में २॥ से भाव देकर लब्ध राश्यादि को लग्न या सूर्य में जोड़ने से होरा लग्न होता है । पर ऐसा कहना सझूत नहीं है । क्योंकि हृष्टघटी के बश प्रत्येक लग्न की प्रवृत्ति सूर्योदय से ही होता है । इस लिये रवि में जोड़ना ही ठीक है ।

उदाहरण—यहले भावलग्नानयन का उदाहरण—हृष्ट घट्यादि=१७।२६ को छै से गुणा किया तो अंशादि फल=१०२ । १५।६=१०४। ३।६. अब अंश में ३० से भाग देने से राश्यादि फल=३।१४।३६' इतना हुआ । इस को स्पष्टरवि=६।१६।४६।३१" में जोड़ने से भावलग्न=१।००।२२।३१" हुआ । इस में एक एक राशि जोड़ने से इस का द्वादश भाव बनता है ॥

होरालग्नानयन के उदाहरण—हृष्ट घट्यादि=१७।२६ को धारह से गुणा किया तो अंशादि फल=२०।४।३१।२=२०।६।१२' अब अंश में धारह का भाग देने से राश्यादि फल=६।२८।१२' हुआ । इस को स्पष्ट सूर्य में जोड़ने से होरा लग्न=००।१४।९८।३१ हुआ । इस में एक एक राशि जोड़ने से इस का धारह भाव बनता है ।

घटीलग्नानयनोदारण—हृष्ट घट्यादि १७।२६ को ३० से गुणा किया तो अंशादि फल=५।१०।४८'c=५२।३।०० अब अंश में तीस का भाग देने से राश्यादि फल=१।७।१३।००' यहां राशि स्थान में धारह से ज्यादा होने के कारण धारह से तटित कर के चेष ६ का प्रहण किया जातः राश्यादि फल=६।१३।०० इस को तात्कालिक स्पष्ट रवि में जोड़ा तो पटी लग्न=१।०।१२।४।६।३१" हुआ । इस में एक ६ राशि जोड़ने से इस का द्वादश भाव बनता है ।

अथ वर्णद राशि जानने के लिये उदाहरण लिखते हैं—

पूर्वोक्त उदाहरण में जन्मलालन=(८१८०११२३), और होरालालन=(००११४१९८०३१), यद्यां इन दोनों को विषम राशि में होने के कारण योग किया तो, (८१८०११२३)+००११४१९८०३१=१०११४१४४१२४) हुआ हुआ। हम योग को सम राशि (मकर) में होने के कारण वारह में घटाया तो योग=(१०२६१४०१६) बचा, अतः वर्णद राशि मिथुन हुआ।

पूर्व जन्म लालन के घन माव (११२३१७११६) और होरालालन के घन माव (१११४१६०१३१) दोनों को सम राशि में होने के कारण वारह में घटाया तो जन्म लालन के घन माव=(२१६०१४२१४९) और होरालालन के घन माव=(१०११६०१२९) हुआ। इन दोनों को विषम में होने के कारण योग किया तो (१११४१४२१४९)+(१०११६०१२९)=००११११४४११४४) हुआ। इस को विषम राशि (मेष) में होने के कारण यही घन माव का वर्णद हुआ।

पूर्व जन्म लालन के सहज माव (१०१२८११३०७) और होरा लालन के सहज माव (२११४१६०१३१) दोनों को विषम में होने के कारण योग किया तो (१०१२८११३०७)+१२१४१६०१३१)=(११३१११३८) हुआ, इस को सम राशि (बृष्टि) होने के कारण वारह में घटाया तो (१०११६१४०१२२) हुआ, इस को विषम राशि में होने के कारण यही सहज माव का वर्णद राशि हुआ।

पूर्व जन्म लालन के बन्धु माव (००१३१८१९७), होरा लालन के बन्धु माव (३११४१६०१३१), यद्यां होरा लालन के बन्धु माव को सम राशि (कर्ण) में होने के कारण वारह में घटाने से योग (८१६०११२९), अब यद्यां योग और लालन के बन्धु माव दोनों को विषम राशि में होने के कारण योग करने से योग फल=(००१३१८१९७)+११६०१०१२६) द११८०१०१२६ इस को विषम राशि (बन्धु) में होने के कारण यही वर्णद हुआ।

पूर्व जन्म लालन के सुत माव (००१२८११३१), होरा लालन के सुत माव (४११४१६०१३१), दोनों को विषम में होने कारण योग करने से योग=(००१२८११३१)+४११४१६०१३१)=(५१३१११३६) को सम राशि (कन्या) में होने के कारण वारह में घटा कर योग ४११६१४०१२४ सुत माव का वर्णद हुआ।

पूर्व जन्म लालन के रिति माव (११२३१७११३), होरा लालन के रिति माव (१११४१६०१३१) इन दोनों को सम राशि में होने के कारण अलग २ वारह में घटाने से योग ग्रहण=(१०१६१४२१४७), (४११६११२९) थे। अब हन दोनों को विषम राशि में होने के कारण योग करने से योग फल ४१२१४४११६ को विषम राशि (सिंह) में होने के कारण यही वर्णद राशि हो गया।

सप्तमादि मावों की वर्णद राशि ग्रहण लालनादि भावों के समान ही होती है।

अतः उसका उदाहरण स्वयं विज्ञ लोग समझ जायगें ।

अथ पूर्वानीततन्वादिभावाः—

भावाः	त.	ध.	स.	व.	सु.	रि.	जा.	मृ.	ध.	क.	आ.	व्य.
रा.	८	९	१०	०	०	१	२	३	४	६	६	७
अ.	१८	२३	२८	३	२८	२३	१८	२३	२८	३	२८	२३
क.	२१	१७	१३	८	१२	१३	२१	१५	१३	८	१३	१५
वि.	२३	१५	७	५७	५	११	२३	१५	७	५७	५	१३

अथ होरालग्नस्य द्वादशभावाः—

भावाः	त.	ध.	स.	व.	सु.	रि.	जा.	मृ.	ध.	क.	आ.	व्य.
रा.	००	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
अ.	१४	१४	१४	१४	१४	१४	१४	१४	१४	१४	१४	१४
क.	५८	५८	५८	५८	५८	५८	५८	५८	५८	५८	५८	५८
वि.	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१

अथ वर्णदराशिचक्रम्—

भावाः	त.	ध.	स.	व.	सु.	रि.	जा.	मृ.	ध.	क.	आ.	व्य.
रा.	२	०	१०	८	६	४	२	०	१०	८	६	४
अ.	२६	२१	१६	१८	१६	२१	२६	२१	१६	१८	१६	२१
क.	४०	४४	४८	४०	४८	४४	४०	४४	४८	४०	४०	४४
वि.	६	१४	२२	२६	२४	१६	६	१४	२२	२६	२४	१६

अथ वर्णददशाश्वानप्रकारमाह—

होरा लग्नमयोनेयाऽदुर्बलाद् वर्णदा दशा ।

यदर्थ्यो वर्णदो लग्नात्तत्संख्या क्षमेण वै ॥

क्षमज्युत्कमभेदेन दशा स्यात्पुष्पस्त्रियोः ।

सं० टी०—होरालग्नमयोरिति । होरालग्नमयोः=होरालग्नजन्मलग्नमयोर्मध्ये, अदुर्बलात्=यद्यतः गणाशात् वर्णदा दशा भवति । लग्नात्=यद्यतो लग्नाद्

१ पादः] सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाद्वयसहितम् । ६१

अे, घण्डः=वर्णदराशिः, यत्सङ्घेषः=यावत्संख्यो भवेत् तत्तत्संख्या=तावती तावती संख्या पुरुषस्तिवयो=ओजसमयो रात्रियोमयो, क्रमव्युत्क्रमभेदेन = क्रमक्रमेण च्युत्क्रमक्रमेण च दशा स्यात् । अत्रायं भाव—यथा चरदशानयने “नायान्ताः समा” तथाऽन्त्र “वर्णदान्ताः समा.” इति कृत्वा दशाऽऽनेतव्येति ।

भाषा—जन्म लग्न और होरा दर्शन हन दोनों में जो उल्लास् हो उस से घण्ड दशा की प्रवृत्ति होती है ।

अगर घण्डी लग्न के राशि विषम हो तो क्रमये सम हो सो उत्क्रमये चर दशा की तरह “घण्डान्ताः समा.” इस नियम के अनुसार घण्ड दशा होती है ।

अगर घण्डी लग्न विषम हो सो क्रमये सम हो सो उत्क्रमये दशा लिखना चाहिए ।

उदाहरण—जन्मलग्न=(८१८२१२३), होरालग्न=(००११४८८५३), हन दोनों में “अपहात्सप्तहो ज्यायान्” इस नियम के अनुसार जन्म लग्न में चन्द्र और केतु को होने के कारण जन्म लग्न घण्डी हुआ । यहाँ जन्म लग्न को विषम राशि (धनु) में होने के कारण घण्ड दशा क्रमये (धनु, मकर, कुम्भ ..) लिखी जायगी ।

यहाँ जन्मलग्न=(८१८२१२३), को विषम (धनु) राशि में होने के कारण ग्रह गणना सिद्ध हुआ । अतः लग्न के घण्ड राश्यादि (१२६४०१६) में जन्मलग्न (८१८२१२३) को घटाने से शेष=(६०८११४३) पचा, इस में राशि तुल्य (६) वर्ष हुआ । शेष अंशादि (८१८१२३) को धारह से गुणा कर तीस का भाग दिया तो $\frac{१३}{३०} (८१८१२३) - \frac{२}{६} (८१८१२३) = \frac{१६}{६} (८१८१२३) - \frac{१३}{६} (८१८१२३)$, हुआ, यहाँ प्रथम लग्न में भाग देने से लग्न मास=३, शेष=(१३४१२६) को तीस से गुणा किया तो दिनादि= $\frac{३० (१३४१२६)}{६} = ६ (१३४१२६) = (६२२३११६) = १४४१२६$, हुआ । अतः दशा वर्णादि=८१८१८१४४१२६ हुआ ।

दूसरे धन भाष्य=(१२३१४१६) का सम राशि (भक्त) में होने के कारण उत्क्रम गणना सिद्ध हुआ । अतः भाव में घण्ड को घटाने से शेष=(१२३१४१६)-(००१२१४४११४)=(८१८२३१३१), पचा, इस में राशि (८) के तुल्य वर्ष हुआ । शेष अंशादि (८१८२३१३१) को धारह से गुणा कर तीस का भाग दिया तो= $\frac{१३ (८१८२३१३१)}{३०} = \frac{२ (८१८२३१३१)}{६} = \frac{१३३१३१}{६}$, यहाँ प्रथम लग्न में भाग देने से लग्न मास=१, शेष=(००१६१२) को ३० से गुणा किया तो दिनादि= $\frac{३० (००१६१२)}{६} = ६ (००१६१२) = ००१६१२$, अतः वर्णादि दशा=८१८१००१६१२ हुई ।

इब्द सहज भाव १०१२८१३।७ को विषय राशि (कुम्भ) में होने के कारण क्रम गणना सिद्ध हुआ । अतः उस के वर्णद राश्यादि=(१०१३४८८१२) में भाव को घटाने से शेष १११८३८१९ व्याधि, इस में राशि (११) के समान दशा वर्ष हुआ । शेष अशादि (१८३११९) को वारह से गुणा कर तीस का भाग दिया तो १२(१८३५१९) =३(१८३५१९) =३६७०१३० =३५१०१३०, यहाँ प्रथम खण्ड में ३० ९ ९ ६ भाग देने से लब्ध मास =७, शेष $\frac{३१०१३०}{६}$, को तीस से गुणा किया तो दिनादि= $\frac{३०(३)१०१३०}{६} = ६ (३)१०१३० = (१२)६०११०$ = १३।३।००, अतः दशा वर्षादि= ११।५।१३।३।०० हुआ । इसी प्रकार अन्य भावों की भी दशा लग्नी चाहिए ।

अथ घण्डदशाचक्रम् ।

भावाः	घ.	म.	कु	भी.	मे	षु	मि.	क.	सि.	क	तु.	वृ.
वर्षाणि	६	८	११	८	५	९						
मासाः	३	१	७	६	७	०						
दिनानि	१	०	१३	००	१३	१८						
दण्डा	४२	३६	३	१७	३	३५						
पला	३६	१३	०	८	४८	२४						
सम्यत	सं.											
१९६५												
सर्वः	सु.											
५												
१५												
४६												
३१												

अभावपादमाह—

न प्रह्लः ॥ ३४ ॥

यिऽ नेति । प्रह्लः=ऐटा, न=चतुर्वर्ण न भवन्ति । अग्रायमादयो—यथा भावा

१ पादः । सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाद्यसहितम् । ६३

राशयद्वच सख्यावेषकाक्षरगम्या स्तथा प्रहा न किन्तु प्रसिद्धपदावगम्यवेत्पर्यः, इति प्रथमाशयः । तथा यथा मात्रा राशयद्वच सर्वर्णा वर्णदराशिसमन्वितास्तथा प्रहा न, प्रहार्णा वर्णदराशयो न भवन्तित्यर्थः, इति द्वितीयाशयः ॥ ३४ ॥

भाषा—जिस तरह भाव और राशियों की संख्या कठपयादि घण्टे से जाने जाते उस तरह ग्रंथ अक्षरों से नहीं जाने जाते । तथा जिस तरह भाव और राशियों की वर्णदृश्या यन्तरी है, उस तरह प्रहों की नहीं ॥ ३५ ॥

अथ होरादिज्ञानामाद—

होरादयः सिद्धाः ॥ ३५ ॥

विद्य० होरादय इति । होरादयः=होरादेवकाणादयः, सिद्धाः=शास्त्रान्तरयस्ति-द्वाः (विज्ञेयाः) ॥ ३५ ॥

भाषा—होरा, देवकाण आदि शास्त्रान्तर प्रसिद्ध यहां भी समझना चाहिए ।

अथ प्रथम्भाद्यान्तरोक्तहोरादयो लिख्यन्ते

तत्र प्रथमं होरामाद—

राशोरद्वै भवेदोरास्ताद्वचतुविद्यतिः स्मृताः । मेपादि तासां होराजों परिवृत्तिद्वयं भवेत् ॥
सूर्येन्द्रोर्धिष्ठमे राशी समे तद्विपरीक्षकम् । पितरद्वचन्द्रहोरेशा देवाः सूर्यस्य कीर्तिंतः ॥

भाषा—राशि के अध्या होरा होती है अतः वे बारह राशियों में चौबीस होती हैं, उन होराजों की दो परिवृत्ति होती हैं । विषम राशि में पहले ११ अंश तक सूर्य होरा होती है । उस के बाद ३० अंश तक चन्द्र का होरा होती हैं । सम राशि में उस के विपरीत होरा होती है । अर्थात् पहले १६ अंश तक चन्द्र और उस के बाद ३० अंश तक रवि की होरा होती हैं । चन्द्र होरा के स्वामी पितर हैं, और सूर्य होरा के स्वामी देवता हैं ।

अथ स्फुटार्थं होरावकम्—

तत्र प्रथमं विषमराशी होरावकम्—

स्वामी	राशि	मेप	मि.	सि.	त्र.	घ.	कु.
देव	१५	र.	र.	र.	र.	र.	र.
पितर	३०	चं.	चं.	चं.	चं.	चं.	चं.

अथ समराशौ होराचकम्—

स्वामी	राशि	वृ.	कर्क	क.	वृ.	म.	मी.
पितर	१५	चं.	चं	चं.	चं.	चं.	चं.
देव	३०	र.	र.	र.	र.	र.	र.

अथ द्रेष्काणगाह—

राशित्रिभागा द्रेष्काणास्ते च पद्मिना दीरिताः परिवृत्तित्रयं तेषां मेषादिः क्रमशो भवेत् ॥
स्वपञ्चनवं मानानां विषमेषु समेषु च । नारदागस्तिदुर्वासा द्रेष्काणेशाश्वरादयः ॥

भाषा—एक राशि के तृतीयांश द्रेष्काण होता है इस लिये घारह राशियों में ३६ द्रेष्काण होते हैं । मेषादि क्रमशो उम का तीन परिवृत्ति होती हैं । विषम और सम दोनों राशियों में प्रथम द्रेष्काणेश उसी राशि के स्वामी, द्वितीय द्रेष्काणेश उस से पश्चाम स्थान का स्वामी और तृतीय द्रेष्काणेश स्वस्थान से नवम स्थान का स्वामी होता है । पूर्व प्रथम द्रेष्काण का स्वामी नारद, द्वितीय का स्वामी अग्नि, स्वयं और तृतीय का स्वामी दुर्वासा होते हैं ।

स्वामी	राशि	मे.	वृ.	मि.	क.	सि.	क.	तु.	वृ.	घ.	म.	कु.	मो.
नारद	१०	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
अगस्त्य	२०	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४
दुर्वासा	३०	३	१०	११	१२	१	२	३	४	५	६	७	८

अथ सप्तांशानाह—

सप्तांशपास्त्वो जगृहे गणनीया निजेशतः । युग्मराशी तु विशेयाः सप्तमश्चादिनायकात् ॥
क्षारक्षीरी च दध्याज्यो तथेष्टुरससम्भवः । मयशुद्गजलायोजे एमे शुद्गजलादिकाः ॥

भाषा—विषम राशि में उस राति के स्वामी से सप्तांश पति होते हैं । सम राति में उस राशि से सप्तम राति के स्वामी से सप्तांश पति होते हैं । प्रथमादि सप्तमोन्त ग्रन्थ से विषम राति में क्षार, क्षीर, दधि, भाज्य, इशुरल, मध, और शुद्गजल स्वामी होते हैं । सम राति में शुद्गजल, मध, इशुरस, आज्य दधि, क्षीर और क्षार प्रथम भादि ग्रन्थ स्वामी होते हैं ।

१ पादः] सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाद्यसहितम् । ६५

अथ स्फुटार्थं विषमराशी सप्तांशचक्रम्—

स्वामी	राशि	मे.	मि.	सि.	तु.	घ.	कु.
क्षार	४१९७	१	३	५	७	९	११
क्षीर	५१३४	२	४	६	८	१०	१२
दधि	१२१५१	३	५	७	९	११	१
आज्ञ्य	१७१८	४	६	८	१०	१२	३
इच्छुरस	२११२५	५	७	९	११	१	३
मध्य	२५१४२	६	८	१०	१२	२	४
शुद्धजल	३०१००	७	९	११	१	३	५

अथ स्फुटार्थं समराशी सप्तांशचक्रम्—

स्वामी	राशि.	शू.	क.	क.	यू.	म.	मी.
शुद्धजल	४१९७	८	१०	१२	२	४	६
मध्य	५१३४	१	११	१	३	५	७
इच्छुरस	१२१५१	१०	१२	२	४	६	८
आज्ञ्य	१७१८	११	१	३	५	७	९
दधि	२११२५	१२	३	४	६	८	१०
क्षीर	२५१४२	१	३	५	७	९	११
क्षार	३०१००	२	४	६	८	१०	१२

अथ नवमांशानाद—

नवांशोद्याद्यरे तस्मात्स्थिरे नवमराशितः । उभये तत्प्रथमादिरिति चिन्तये दिवशर्णीः ॥
देवा गृहाश्चाद्यैव चरादिषु अद्वेषु च ।

भाषा—पर राशि में उसी राशि से स्थिर में उन के नवम राशि से और द्वितीय-
भाषा में उसी राशि से पश्चात् राशि से ज्योति पति होते हैं आगर पर राशि में हो सो
देवता, स्थिर में होतो मनुष्य और द्वितीयभाषा में हो तो रात्रिस त्यामो होते हैं ।

जैमिनिसुत्रम्

अथ स्फुटाधी नवांशचक्रम्—

त्वारी	मे.	वृ.	पि.	क.	सि.	क.	त्व.	वृ.	प.	म.	कु.	मी.	अंशा.		
देवता	१ कु.	१० वा.	७ वृ.	४ चं.	१ कु.	१० वा.	७ वृ.	४ चं.	१ कु.	१० वा.	७ वृ.	४ चं.	३१२०		
मनुष्यः	१ वृ.	११ वा.	८ कु.	५ चं.	१ वृ.	११ वा.	८ कु.	५ चं.	१ वृ.	११ वा.	८ कु.	५ चं.	६१४०		
राष्ट्रणः	१ वृ.	१२ वृ.	९ वृ.	६ कु.	१ वृ.	१२ वृ.	९ वृ.	६ कु.	१ वृ.	१२ वृ.	९ वृ.	६ कु.	१०१००		
देवता	४ चं.	१ कु	१० वा.	७ वृ.	४ चं.	१ कु.	१० वा.	७ वृ.	४ चं.	१ कु.	१० वा.	७ वृ.	४ चं.	१३१२०	
मनुष्यः	५ वृ.	३ वृ.	११ वा.	८ कु.	५ वृ.	३ वृ.	११ वा.	८ कु.	५ वृ.	३ वृ.	११ वा.	८ कु.	५ वृ.	१६१४०	
राष्ट्रणः	६ वृ.	३ वृ.	१२ वृ.	९ वृ.	६ वृ.	३ वृ.	१२ वृ.	९ वृ.	६ वृ.	३ वृ.	१२ वृ.	९ वृ.	६ वृ.	२०१००	
देवता	० वृ.	४ वृ.	१ कु.	१० वा.	० वृ.	४ वृ.	१ कु.	१० वा.	० वृ.	४ वृ.	१ कु.	१० वा.	० वृ.	२३१२०	
मनुष्यः	८ कु.	५ वृ.	३ वृ.	१२ वृ.	८ कु.	५ वृ.	३ वृ.	१२ वृ.	८ कु.	५ वृ.	३ वृ.	१२ वृ.	८ कु.	५ वृ.	२११५०
राष्ट्रणः	६ वृ.	६ वृ.	३ वृ.	१३ वृ.	६ वृ.	६ वृ.	३ वृ.	१३ वृ.	६ वृ.	६ वृ.	३ वृ.	१३ वृ.	६ वृ.	३ वृ.	३०१००

अथ द्वादशांशानाह—

द्वादशांशस्य गणना तत्त्वदेवादिनिर्दिवेत् । तेषामधीशा क्षमशो गणेशादिवयमाह्यः ॥
भाषा—अपने अपने राशि से द्वादशांश की गणना करनी चाहिए । उन का स्था-
मो अपने गणेश, अदिवनी कुमार, यम और अहि होते हैं ।

अथ सुनु इथं द्रादशांशाचकम्—

स्वामी	अंशः	मे.	हृ.	भि.	क.	सि.	क.	गृ.	वृ.	भ.	म.	कु.	मी.
गणेशः	२१३०	१ कु.	२ वृ.	३ वृ.	४ वृ.	५ वृ.	६ वृ.	७ वृ.	८ वृ.	९ वृ.	१० वृ.	११ वृ.	१२ वृ.
ध. कु.	५१००	२ वृ.	३ वृ.	४ वृ.	५ वृ.	६ वृ.	७ वृ.	८ वृ.	९ वृ.	१० वृ.	११ वृ.	१२ वृ.	१ कु.
यमः	५१३०	३ वृ.	४ वृ.	५ वृ.	६ वृ.	७ वृ.	८ वृ.	९ वृ.	१० वृ.	११ वृ.	१२ वृ.	१ कु.	३ वृ.
षष्ठिः	१०५००	४ वृ.	५ वृ.	६ वृ.	७ वृ.	८ वृ.	९ वृ.	१० वृ.	११ वृ.	१२ वृ.	१ कु.	२ वृ.	१ कु.
गणेशः	१२१३०	५ वृ.	६ वृ.	७ वृ.	८ वृ.	९ वृ.	१० वृ.	११ वृ.	१२ वृ.	१ कु.	२ वृ.	१ कु.	४ वृ.
ध. कु.	१५१००	६ वृ.	७ वृ.	८ वृ.	९ वृ.	१० वृ.	११ वृ.	१२ वृ.	१ कु.	२ वृ.	१ कु.	४ वृ.	५ वृ.
यमः	१७१२०	७ वृ.	८ वृ.	९ वृ.	१० वृ.	११ वृ.	१२ वृ.	१ कु.	२ वृ.	१ कु.	४ वृ.	५ वृ.	६ वृ.
षष्ठिः	१०१००	८ वृ.	९ वृ.	१० वृ.	११ वृ.	१२ वृ.	१ कु.	२ वृ.	३ वृ.	४ वृ.	५ वृ.	६ वृ.	७ वृ.
गणेशः	२३१३०	९ वृ.	१० वृ.	११ वृ.	१२ वृ.	१३ वृ.	१४ वृ.	१५ वृ.	१६ वृ.	१७ वृ.	१८ वृ.	१९ वृ.	२० वृ.
ध. कु.	२५१००	१० वृ.	११ वृ.	१२ वृ.	१३ वृ.	१४ वृ.	१५ वृ.	१६ वृ.	१७ वृ.	१८ वृ.	१९ वृ.	२० वृ.	२१ वृ.
यमः	३७१३०	११ वृ.	१२ वृ.	१३ वृ.	१४ वृ.	१५ वृ.	१६ वृ.	१७ वृ.	१८ वृ.	१९ वृ.	२० वृ.	२१ वृ.	२२ वृ.
षष्ठिः	३१०००	१२ वृ.	१३ वृ.	१४ वृ.	१५ वृ.	१६ वृ.	१७ वृ.	१८ वृ.	१९ वृ.	२० वृ.	२१ वृ.	२२ वृ.	२३ वृ.

इति महापितृमिनिश्चणीतज्ज्ञमिनिसूबटोकार्यां प्रथमाद्याये प्रथमः पादः।

अथ प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः ।

तत्र प्रथममात्मकारकनवांशमार्लब्य प्रहाणां कलं वाच्यमित्याह—

अथ स्वांशो ग्रहणाम् ॥ १ ॥

विऽ—अयेति । अथ=अनन्तरं, स्वांशः=आत्मकारकमितांशः (स्वात्मकारकस्य योऽशो नवाशः) तस्मादिति शेषः । ग्रहणां=रव्यादिरेयाता, कलं विचार्यमिति शेषः ॥ १ ॥

भाषा—अब हृस के अनन्तर आत्मकारक घटों के नवांश पर से घटों का कल विचारना चाहिए ॥ १ ॥

अथात्मकारकमितमेषादिनवांशफलान्याह—

पञ्च मूर्धिकमार्जीरा: ॥ २ ॥

तत्र चतुर्थपादः ॥ ३ ॥

विऽ—पञ्चेति । पञ्च=मेषः (आत्मकारकाशे चेत्), मूर्धिकमार्जीरा:==उन्दुष्विद्विज्ञः, दुःखदा भवन्ति ।

दण्डेति । दण्ड=इयः (आत्मकारकाशे चेतदा) चतुर्थपादः=४पादः सुखदा भवन्ति ॥ २-३ ॥

भाषा—अगर आत्मकारक पद के नवांश मेष राशि का हो तो घटों और विश्वारों से हुँख दोता है ।

अगर आत्मकारक पद के नवांश पूर्व का हो तो धार पांच धांडे पशु सुख करने वाले होते हैं ॥ २-३ ॥

मृत्यौ कण्ठः स्थौल्यञ्जु ॥ ४ ॥

दूरे जलकुप्तादिः ॥ ५ ॥

विऽ—मृत्यौ=मिथुने (आत्मकारकाशे चेतदा), कण्ठः=कण्ठोगः, स्थौल्य=दहरीरस्थौल्यम् भवति ।

दूर हैति । दूरे=कर्के (आत्मकारकाशे चेतदा), जलकुप्तादिः=जलमयं पुठोगद भवति ॥ ४-५ ॥

भाषा—आत्मकारक के नवांश मिथुन में हो तो दाद, सुजली, धादि रोग के पश धरीर में स्वृलता आती है ।

अगर आत्मकारक पद के नवांश कर्क में पड़े तो जल से भय और कुप्तादि रोग दोता है ॥ ४-५ ॥

२ पादः] सोदाहरण-चिमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाद्वयसहितम्। ६९

शेषः इवापदानि ॥ ६ ॥

मृत्युवज्जायाभिनकण्ठच ॥ ७ ॥

चिं—शेष इति । शेषः = चिंहः (स्वारोशे चेतदा) शापदानि=शूलकादयो
दुःखदा=भवन्ति ।

गृत्युवदिति । जाया=कन्या (आत्मकारकांशे चेतदा) मृत्युवत्त=मिथुनांश-
क्षवत् (मिथुने प्रतिपादितफलवत्, पर्ले ज्ञेयमित्यर्थः), तथा अभिनकणथ=अ-
भिनकणेन दुःखं भवतीति ॥ ६-७ ॥

भाषा—आत्मकारकांशक में सिंह हो तो कुकुरादि जानवरों से भय होता है ।
अगर आत्मकारकांशक में कन्या पड़े तो मिथुन के समान फल होता है । वधा अभिन
का भय होता है ॥ ६-७ ॥

लाभे वाणिज्यं ॥ ८ ॥

अथ जलसरीसृष्टाः स्तन्यहानिः ॥ ८ ॥

चिं—लाभ इति । लाभे=तुलारो (आत्मकारकांशे), वाणिज्यं=वाणिज्य-
वान् स्वात् ।

अथ=दृष्टिकांशे (आत्मकारकांशे सति), जलसरीसृष्टाः=जलसर्पादयः
(दुःखदा भवन्ति), स्तन्यहानिः=मातृदुरघटहानिः भवति ॥ ८-९ ॥

भाषा—आत्मकारक के नर्वांश में तुला हो तो वाणिज्य से लाभ होता है ।
अगर कारक के नर्वांश में वृश्चिक पड़े तो जल, सर्प आदि जन्तुओं से भय होता है ।
तथा माता का दुरघट की हानि होती है ॥ ८-९ ॥

समे याहनादुच्चाच्य पतनम् ॥ १० ॥

जलचर-येचर-येट-कण्ठू-दुष्टप्रन्ययद्वच रिष्फे ॥ ११ ॥

चिं—सम इति । समे=धनुषि (कारकांशे चेतदा), याहनात्=अर्थादेः, उ-
चाद=उच्चप्रदेशाच्च, कमात् पतनं=किञ्चिदस्तु संलग्नपूर्वकं पतनं भवति, न शीघ्रम् ।

रिष्फे=मकरांशे (कारकांशे चेतदा), जलचरयेचरयेटकण्ठूदुष्टप्रन्ययः=
जलचराः मर्त्यादयो जलजन्तवः, येचराः पक्षिणः, येटाः प्रहा:, दुःखदा भव-
न्ति, तथा कण्ठूदुष्टप्रन्यिरोगाश्च वण्ठूगादादिकरोगाश्च भवन्ति ।

भाषा—आत्मकारक के नर्वांश में धनु हो तो घोड़ा आदि याहन तथा उच्च
उच्चान से प्रमथे (धीरे धीरे कहीं कहीं रक रक कर) पतन होता है ।

अगर आत्मकारक के नर्वांश में मकर हो तो जल जन्तु, पक्षी यथा पह दुःख
दायक होते हैं । और कण्ठू रोग दुष्ट प्रन्यि (गण्डमालादि) का भव होता है ॥ १०-११ ॥

तदागाद्यो धर्मे ॥ १२ ॥

उच्चे धर्मनित्यता कैवल्यञ्च ॥ १३ ॥

विद्—गङ्गागादय इति । धर्मे=कुन्ने (कारकाशे चेतदा), तदागादय = तदागवपीकृपादिसम्पादका भवनित ।

उच्चे=मीने (कारकाशे चेतदा), धर्मनित्यता=धर्मनित्यत्व, कैवल्यं=मो सद्व भवति ॥ १२-११ ॥

भाषा—आत्मकरक के नवांश कुम्भ राशि में पड़े तो पोत्तर, कूआ आदि चुर चाता है ।

अगर मीन में पड़े तो धर्म में नित्यता और मोक्ष को पाता है ॥ १२-१३ ॥

एवमेवोक्त शुद्धेन—

अधुना सम्प्रवद्यामि कारकस्याधिपात् प्रहान् ।

योगसम्बन्धमात्रेण यथावद्यगदतौ मम ॥

स्वांशकारककुण्डलयो नवमोशाऽधिपोऽथवा ।

यस्मिन् राशी स्थितो विप्र तदाशिफलमुच्यते ॥

जोषादिभीनपर्यन्तं सर्वेषां फलमादिषेत् । यथावद्यापितं शूलिश्रोक्तं यदुदयामले ॥

अजोशकारकाशेषु तिष्ठन्ति च यदा महा । तदा गूढकमार्जीरौ हु सदौ भयकारकौ ॥

सुव्योगे च यदा विप्र मार्जीरादिप्रसिद्धिरौ । षुषे च कारकाशेष भयातो च चतुर्थदाता ॥

शुभे चतुर्थदात्सिद्धिरिति तत्त्वं दिजोत्तम । युपमकारकाशके येषटे कण्ठद्वादिरोगसम्बव ॥

कर्कशेष च जलाद्दु य जलमीतिर्न संशय । कुष्ठादिरोगसम्भूते शुभे फलविपर्यग ॥

सिंहाशेष कारके येषटे तिष्ठत्येव दिजोत्तम । शुभकादि भय दद्याच्छुभे सिद्धिप्रदायक ॥

कन्यामां कारकाशे च तिष्ठत्येव यदा मह । मृत्युवत्कण्ठरोगार्तिर्वहिदोषेण कु समाक ॥

तुलाल्पे कारकाशे च अयापोषु रतोऽधिक । क्यविक्यक्ता च यदि जातो नुपाल्ये ॥

शूरिषके कारकाशे च सर्पादिभयकारक । मातु पयोधरे पीढा जायते द्विजस्तम ॥

घुर्धरकारकाशे वाहनाद्यमादिषेत् । उच्चवाहप्रतनं वापि क्षोडपि वस्तुयमन्वित ॥

नक्षारकाशे विप्र सिद्धिर्जलवरादय । वीरामुखप्रशाशन्ति मत्स्यसेवरेषता ॥

पुम्माल्पकारकाशे च तदागादीनि कारयेत ।

क्षीरित्यान् धर्मवान्सोऽपि जायते द्विष्ठस्तम ॥

पद्यति कण्ठरोगादि भवतीहन दद्याय । मीने च कारकाशे पै सापुज्यमुकिभाग् भवेत्यै

भाषा—स्पष्ट है ।

अन्यदपि—

शुभराशी शुभाशी वा कारकाशी घनी भवेत् । तदशके द्रेषु शुभे राजा नूरं प्रजायते ॥
कारके शुभराशयेशे लभाशस्ये शुभमहे । उपमहस्य पाश्चात्ये स्वोच्च-स्वर्क्षं शुभर्क्षगे ॥
पापदग्योगरहिते वैवल्यं तस्य निर्दिशेत् । मिथे मिथ विनानीयादिपरीते विपर्ययम् ॥
चन्द्रभूषणारबर्षस्ये कारके पारदारिक । एषतोहपशकगते तर्हमन्धाणिज्यवान् भवेत् ॥
मेष्टिहाशकगते ब्रूयान्मूषिकं शतम् । कारके कार्मुकाशस्ये वाहनात्पतनं भवेत् ॥
भाषा—स्पष्ट है ।

अथ कारकाशो प्रदस्तिया फलाचाह—

तत्र र्खौ राजकार्यपर ॥ १४ ॥

पूर्णन्दुशुभयोभोगी विद्याजीवी च ॥ १५ ॥

धातुवादी कौन्तायुधो वहिजीवी च भौमे ॥ १६ ॥

उणिजस्तन्तुवायाः शिलिपनो द्यवहारविदश्च सौम्ये ॥ १७ ॥

कर्मशाननिष्ठा वेदविदश्च जीवे ॥ १८ ॥

राजकीयाः कामिनः शतेन्द्रियाश्च शुके ॥ १९ ॥

प्रसिद्धकर्माजीवी शानौ ॥ २० ॥

धातुपकाश्चौराश्च जाङ्गलिवा लौहयन्त्रिणश्च राहो ॥ २१ ॥

गजव्यवहारिणश्चौराश्च केतो ॥ २२ ॥

यिऽ—तत्रेति । तत्र=तस्मिन्कारकाशे, र्खौ=सूर्ये, राजकार्यपर=राजकार्य
विधायक स्यात् ।

पूर्णन्दुशुभयो=पूर्णचन्द्रमार्गवयो कारकाशो स्थितयो सती, भोगी=भोगवान्,
विद्याजीवी=विद्योपाणितवितादिना जीवननिर्वाहकारकं स्यात् ।

भौमे=कुने, कारकाशो सती, धातुवादी=रसायनविद्याजाता, कौन्तायुध=कृत्तनामकशश्वधारणकर्ता, वहिजीवी=वहिकृतजीवनवीथं स्यात् ।

सौम्ये=उधे कारकाशो सती, उणिज =वाणियकर्मकर्ता, तन्तुवाया =कुवि-
न्द, शिलिपन =चित्र नमाणकर्मकुशला, द्यवहारविद =द्यवहारिकाथ भवन्ति ।

जीवे =शुरी कारकाशो सती, कर्मशाननिष्ठा =कर्मशाननैषिका, वेदविद =
वेदशास्तराथ भवन्ति ।

शुष्टे=मृगी कारकाशो सती, राजकीया =राजाधिकारवन्त, कामिन =नैक्यो-
विहिलप्सव, शतेन्द्रिया =शतर्षप्यजीविनव भवन्ति ।

शनी=शनैश्चरे कारकांशे सति, प्रसिद्धकर्मजीवः=ख्यातकर्मजीवः स्यात् ।

रहौ=वि न्तुदेकारकांशे सति, धानुष्णः=धनुर्विद्यायां कुशलाः, चौणः=तस्कराः, जाहुलिकाः = विषविद्याः, लौहयन्त्रिणः=लौहयन्त्रनिर्माणकर्तारथ स्युः ।

केतौ=कारकांशे सति, गजव्यवहारिणः = हस्तिव्यविक्रयविधायकाः, चौराय मवन्ति ॥ १४-२२ ॥

भाषा—आत्मकारक के नवांश में सूर्य हो तो राजकार्य करना होता है ।

पूर्ण चन्द्रमा और शुक्र हो तो भोग करने वाला आर विद्या से जीविका चलने वाला होता है ।

मङ्गल हो तो रसायन विद्या जानने वाला, वर्डी रखने वाला और अग्नि से जीविका करने वाला होता है ।

बुध हो तो व्यापार करने वाला, कपड़ा बिनने वाला, चित्र शाख को जानने वाला और व्यापार में पण्डित होता है ।

वृहस्पति हो तो हान में भ्रद्वा रखने वाला, वेद को जानने वाला होता है ।

शुक्र हो तो राजकर्म करने वाला, कामी और सौ वर्ष जीने वाला होता है ।

शनि हो तो प्रसिद्ध कर्म से जीविका करने वाला होता है ।

राहु कारकांश में हो तो धनुष तीर रखने वाला, घोर, विषविद्या जानने वाला और लौहे का यन्त्रादि बनाने वाला होता है ।

केतु कारकांश में हो तो हाथियों को प्राप्त, विक्रय करने वाला और घोर होता है ॥ १४-२२

अथाप्रवृद्धवाक्यम्—

**कारकांशे यदा सूर्यस्तिष्ठति द्विज वीर्ययुक्तादात्रन्ते पुमान् चोऽपि राजकार्येणु तत्परः ।
कारकांशे तु पूर्णदुर्देत्याचायेण वीक्षितः । शतभोगी भवेत्सोऽय विद्याजीवी भवेद्विज ।
कारकांशे यदा भौमे बलादेन युते शिते । रसवादी कुन्तपारी विद्विजजीवने भवेत् ॥**

कारकांशे यदा सौम्ये तिष्ठत्येव यलादेष्वः ।

शित्यको व्यवहारी च वणिकृत्यपरो द्विज ॥

**कारकांशे गुरो विश्र कर्मनिष्ठापरो भवेत् । सर्वशाश्राधिकारी च विश्वातः शितिमण्डले ।
कारकांशे यदा शुक्रे राजमानी राशा भवेत् । सदिनिदियः शताद्वापुः कणनीव द्विजोत्तम ।
कारकांशे यदा सौरिमृत्युलोके प्रसिद्धिवान् । मदतां कर्मणां शृतिः शितिपालेन पूजितः ।
कारकांशे यदा राहुर्पुर्णरी प्रजापते । जांगल्यलेद्यग्रादिशारक्षचौरुहनी ॥
कारकांशे यदा केतुस्तिष्ठति द्विजसत्तम । व्यवहारी गत्रादीनामुशन्ति परद्रव्यके ॥**

भाषा—स्पष्ट है ॥

थथ कारकांशस्थितराहुयुताके शुभ हायवलोकिते फलान्वाह—

रविराहुभ्यां सर्पनिधनम् ॥ २३ ॥

शुभदृष्टे तन्तिवृत्तिः ॥ २४ ॥

शुभमाप्रसम्बन्धाज्ञाङ्गलिकः ॥ २५ ॥

कुजमात्रदृष्टे गृहदाहकोऽग्निदी धा ॥ २६ ॥

शुक्रदृष्टे न दाहः ॥ २७ ॥

गुरुदृष्टे आसमीपगृहात् ॥ २८ ॥

विं०—रविराहुभ्यामिति । रविराहुभ्यां = सूर्यविभुन्तुशाख्यां कारकांशस्थिताभ्यां (राहुघहितरवी कारकांशग इत्यर्थः), सर्पनिधनं = सर्पान्मरणं इत्यात् ।

शुभदृष्ट = शुभप्रहावलोकिते (कारकांशस्थितराहुसहितसूर्य इत्यर्थः) तन्ति-वृत्ति = सर्पनिधननिवृत्तिः स्यात् (सर्पनिधनं न भवेदित्यर्थः) ।

शुभमात्रसम्बन्धात्=केवलशुभप्रहसम्बन्धात् (कारकांशगयोः रविराहोः शुभमाप्रसम्बन्धादित्यर्थः) जाह्नविक = विषवैद्य स्यात् ।

कुजमात्रदृष्टे=केवलसीमावलोकिते (कारकांशे रविराहुभ्यां युते कुजमात्रदृष्ट इत्यर्थः), गृहदाहकः भवनद्रवकर्ता, वा अग्निदः=गृहदाहायाग्निदः इत्यात् ।

शुक्रदृष्टे=भार्गवावलोकिते, न दाह=गृहदाहको न स्यात् ।

गुरुदृष्टे=शुहस्ततिदृष्टे, आसमीपगृहात्=समीपगृहं यावत् दाहकः स्यात् (केवल स्वगृहस्तयै दाहकोन किन्तु समीपवर्तिशुहस्तयै दाहक इत्यर्थः) ॥ २३-२४ ॥

भाषा—अगर कारकांश में राहु से युत रवि हो तो सर्प से मृत्यु होती है ।

अगर कारकांश में राहु से युत रवि होकर शुभ दृष्ट हो तो सर्प से मरण नहीं होता है ।

अगर कारकांश में स्थित राहु से युत रवि को केवल शुभ प्रह से ही सम्बन्ध हो तो विषवैद्य होता है ।

अगर कारकांश में स्थित राहु से युत रवि के द्वारा जाता हो तो पर जलाने वाला या घर जलाने के लिये आग देने वाला होता है ।

अगर कारकांश स्थित राहु से युत रवि कुज से दृष्ट होकर शुक्र से भी देवा जाता हो तो गृह दाह करने वाला नहीं होता है ।

अगर कारकांश स्थित राहु युत रवि कुज दृष्ट होकर शुहस्त्रति से भी देवा जाता हो तो अपना घर को जला कर स्वगृह के समीपस्थि शृङ् गृह को भी जलाता है ॥ २३-२४ ॥

अत्र वृद्धवाक्यम्—

कारकांशो तमोभान् शुभपद्वर्गसंयुतौ । विषदैयो भवेन्नूनं विषहर्ता विचक्षणः ॥
भीमेक्षिते कारकांशो भानुस्वर्मानुष्ठयुते । अन्यप्रहा न पश्यन्ति स्ववेशपरदाहकः ॥
यदि सौम्येक्षिते स्वांशो वहिदो नैव जायते । पापर्णे हु गुरोर्धृष्टे समीपगृहदाहकः ॥

भाषा—स्पष्ट है ।

अथ गुलिकसहितकारकांशो फलमाह—

सगुलिके विषदो विषदतो वा ॥ २९ ॥

विद्—सगुलिक इति । सगुलिके=गुलिकसहिते कारकांशो, विषदः=परस्मैविष-
दाता, वा=अथवा, विषदतः=स्वयं विषेण हतः स्यात् ॥ २९ ॥

भाषा—अगर गुलिक से युत कारकांश हो तो वह दूसरे को विष देने वाला
होता है, या स्वयं विष खाकर मर जाता है ॥ २९ ॥

अथ गुलिकयुते कारकांशो चन्द्रादिप्रहृष्टिव्यात्कलमाह—

चन्द्रहृष्टे चौरापहृतघनश्चौरो घा ॥ ३० ॥

/ वुधमात्रहृष्टे वृहद्वीजः ॥ ३१ ॥

विद्—चन्द्रहृष्ट इति । चन्द्रहृष्टे=सगुलिके कारकांशो चन्द्रेण हृष्टे, चौरापहृत-
घनः=सस्कर्नीतिपनः, वा चौरः=स्वयमेव चौरः स्यात् ।

वुधमात्रहृष्टे=सगुलिके कारकांशो देवलुपेनैव हृष्टे, वृहद्वीजः=स्थूलूपणः
स्यात् ॥ ३०-३१ ॥

भाषा—गुलिक सहित कारकांश चन्द्रमा से देखा जाता हो तो उस का घन चौर
हरण कर छेता है, या स्वयं चौरी करने वाला होता है ।

अगर गुलिक सहित कारकांश पर केवल तुष की हटि हो तो उस का यहां अ-
प्हकोश होता है ॥ ३०-३१ ॥

अथ गुलिकशान प्रकारे पृदैरुङ्गः—

रविवारादिशन्यन्ते गुलिकादि निष्पत्ते ।

दिवसानष्टया कृत्वा यारेशादगणयेत्क्षमात् ॥

शष्मोऽशो निरीशः ह्याच्छन्यशो गुलिकः स्मृतः ।

रोत्रिरप्यष्टपा भल्लं यारेशात् पश्यमोदितः ॥


गणयेदृपः एष्टो निष्पत्तिः परिकीर्तिः । शन्यशो गुलिकः प्रोक्षे गुर्वशो यमपञ्चः ॥
भीमाशो ग्रामुरादिशो रस्यशः कालतंशः । सौम्याशोऽर्प्यप्रदरकः स्पष्टकर्म प्रदेशः ॥

भाषा—रविवार से लेकर शनीश्वर पर्यन्त गुलिकादि योग का निरूपण करते हैं ।

दिन में हृष्ट काल हो तो दिन मान को आठ भाग करके इष्ट दिन के क्रमशः सात अह सात खण्डों के स्वामी होते हैं । आठवाँ भाग स्वामी से वर्जित होता है, अर्थात् उस का कोई स्वामी नहीं होता है । उन सातों भागों में जिस का शनि स्वामी हो वह काल गुलिक कहलाता है ।

इसी प्रकार रात्रि में हृष्ट काल हो तो रात्रि मान को आठ भाग करे और उस दिन जो बार हो उस से पांचवा बार आदि करके क्रमशः सात खण्डों के स्वामी होते हैं । अष्टम भाग स्वामी से रहित है । उन सातों भागों में जो शनि का भाग हो वह गुलिक होता है, शृहस्पति का भाग यमघण्टक होता है, मङ्गल का भाग मृत्यु संज्ञक होता है, एति का भाग काल संज्ञक होता है, और बुध का भाग अर्धे प्रदूर संज्ञक होता है ।

अथ सूर्योदिवारे गुलिकखण्डसंख्यामाद—

 दिवा सप्ताहपञ्चाविधिद्वेक्षणमिता रवे (३१६५४४३२११) ।

यद्धा रात्री तथा निधिधरादप्यहशरात्मय (३२११५४६५१४) ॥

भाषा—आगर दिन में हृष्ट काल होतो रघ्यादि वारों में क्रमांक ३१६५४४३२११ ये गुलिक खण्ड संख्या होती हैं । अगर रात में हृष्ट काल हो तो रघ्यादि वारों में क्रमांक ३२११५४६५१४ ये गुलिक खण्ड संख्या होती हैं ।

इस से सिद्ध होता है कि रवि वार के दिन, दिन के सातवें भाग में और रात्रि के तीसरे भाग में गुलिक योग रहता है ।

सोमवार के दिन, दिन के छठे भाग में और रात्रि के द्वितीय भाग में गुलिक योग रहता है ।

बुध वार के दिन, दिन के चतुर्थ भाग में और रात्रि के सप्तम भाग में गुलिक योग रहता है ।

गुरुके दिन, दिन के द्वितीय भाग में और रात्रि के पांचवें भाग में गुलिक योग रहता है ।

शनीश्वर के दिन, दिन के प्रथम भाग में और रात्रि के चतुर्थ भाग में गुलिक योग रहता है ।

उदाहरण—पूर्णोक्त उदाहरण में शुक्र वार के दिन में हृष्ट काल है, इसलिये दिन मान (३१६५०) का पट्ट्यादिक शहनारा (३१४११९) हतना एक खण्ड का मान हुआ । यही शारोद शुक्र है लात शुक्र से गिनते से द्वितीय खण्ड शनि का हुआ, यही गुलिक कहलाता है ।

अथ खण्डातो गुलिकेष्टकालशानप्रकारो मदीयः—

हन्याद्वा दिवरामानमिति च रात्रौ रात्रेमिति गुलिकखण्डकमानमित्या ।

नागीहंरेदुदयतो गुलिकेष्टकालो रात्रावसौ दिवसमानमिती हि योज्यः ॥

भाषा—अगर दिन में इष्ट काल हो तो दिन मान को गुलिक के इष्ट खण्ड से गुणा कर गुणन फल में आठ का भाग देने से लब्धिं सूर्योदय से गुलिकेष्ट काल होता है ।

तथा रात्रि में इष्ट काल हो तो रात्रि मान को गुलिक के इष्ट खण्ड से गुणा कर गुणन फल में आठ का भाग देने से सूर्यास्त से गुलिकेष्ट काल होता है, इस को दिन मान में जोड़ने से सूर्योदय से गुलिकेष्ट काल होता है । उस पर से लगानान्पन-रीत्या लगन बनाना वही गुलिकेष्ट लगन होगा ।

उदाहरण—शुक्र के रोज दिन में इष्ट काल है दिनमान (२१।३०) की शुक्र वार के दिन के गुलिक खण्ड २ से गुणा किया तो (११।००) हुआ हस में आठ का भाग देने से लब्धिं ३।२३।३० घट्यादि गुलिकेष्ट काल हुआ ।

अब यहाँ गुलिकेष्ट लगन साधन करने के लिये गुलिकेष्ट कालिक रवि साधन परना है । इस लिये अब इष्टकाल—१४।२६ और गुलिकेष्ट काल ७।२२ है, इन दोनों का अन्तर किया तो १०।४ इतना हुआ । इष्ट घट्यादि अन्तर से जन्म कालिक सूर्य में चालन देकर गुलिकेष्टकालिक रवि बनाना है, यहाँ रवि की विकलात्मक गति—३।९४।६ इतना है । पलात्मक इष्टकाल गुलिकेष्ट काल का अन्तर—६।०४ इतना है । अब अनुपात किया कि उच्चीम सौ पला में रवि की विकलात्मक गति ३।९४।६ इतना पाते हैं तो अन्तर पला ६।०४ में क्या = $\frac{३।९४।६ \times ६।०४}{३६००} = \frac{१०९ \times ६।०४}{५२०} =$

$\frac{५०९ \times १५।१}{५२०} = \frac{१०७०५।९}{५२०}$ — १।५५ यह कलादि चालन आया । इस को गुलिकेष्ट

काल से जन्मकाल को बागे होने के कारण तात्कालिक सूर्य में पटाया तो गुलिकेष्ट कालिक सूर्य—१।१।१।६।२६ इतना हुआ ।

अब गुलिकेष्ट लगन साधन करते हैं । जैसे गुलिकेष्टकालिक सूर्य शश्यादि—१।१।१।६।२६ में अयमांश = २।१।८।३० को जोड़ दिया तो साधन सूर्यं ३।४।४।६ इतना हुआ । अब यहाँ भोर्य प्रकार से लगन साधन करना है। इस लिये छ राति को जोड़ कर गुलिकेष्ट = ३।४।६ को तीस में पटाया तो भोर्यांशादि—२।३।६।१।४ इतना हुआ । अब साधनाके तुला का है इस लिये तुला के ददयमान ३।२८ से भोर्यांशादि २।२।६।१।४ को गुणा किया तो ७।४।६।१।८।१।१।२ इतना हुआ,

२ पादः] सोदाहरणा-विमला-संस्कृत-हिन्दी-ट्रिकाद्रयसहितम् । ७७

इस को सटिया कर ४४६।१२।३५ इतना हुआ, इस में तीस का भाग देने से लघिं सूर्य के भौरय-पलादि २६।।१२।२५ इतना हुआ, इस को दृष्ट दण्डादि ७।२२ को पलात्मक ४४२ कर के उम में घटाया तो १८।।४७।३५ इतना हुआ । अब यहाँ साथन सूर्य तुला का है, इस के आगे वृश्चिक का उद्य मान ३४७ इस (१८।।४७।३५) में नहीं घट सकता अतः यहाँ पर शेष १८।।४७।३५ इतना ही हुआ, इस शेष को तो से गुणा किया तो १४१०।।१४१०।।१०५० इतना हुआ, इस को सटिया कर ११।।३।।४८।३० इतना हुआ । इस में अशुद्ध वृश्चिक राशि के उद्य मान (३४०) से भाग दिया तो लघिं—११।।१३।।२४ इतना हुआ, इस में शुद्ध राशि संख्या ७ जोड़ा तो साथन लग्न=७।।११।।१३।।२४ इतना हुआ, इस में अवनांश— (२।।८।।३०) को घटाया तो नियम गुणिकैष लग्न=६।।२४।।४४।।५४ हुआ ।	उद्यमानामि २१८ २६१ ३०३ ३४३ ३४७ अ० ३३८ उ०
---	--

अथ केतुयुते कारकासे पापप्रदादिदृष्टे फलान्याह—

तत्र केती पापदृष्टे कर्णच्छेदः कर्णरोगो वा ॥ ३२ ॥

शुक्रदृष्टे दीक्षितः ॥ ३३ ॥

वुधशनिदृष्टे निर्वर्यिः ॥ ३४ ॥

वुधशुक्रदृष्टे पौनः पुनिको दासीपुत्रो वा ॥ ३५ ॥

शनिदृष्टे तपस्वी प्रेष्यो वा ॥ ३६ ॥

शनिमाश्रदृष्टे सन्यासाभासः ॥ ३७ ॥

विं—तत्र केताविति । अत्र “तत्र” हति पदोपदानात् “सगुलिक इति पदं निष्टृतम् । तत्र=कारकासे, केती=केतुप्रदे, पापदृष्ट=पापप्रदादालोकिते सति, कर्णच्छेदः=कर्णविनाशः, वा=अथवा, कर्णरोग=ध्वजरोगः स्यात् ।

शुक्रदृष्टे=कारकासे केती शुक्रदृष्टे, दीक्षितः = यज्ञकर्मणि दीक्षितः स्यात् ।

वुधशनिदृष्टे=कारकासे केती वुधशनिभ्यां दृष्टे, निर्वर्यिः=होनवल, स्यात् ।

वुधशुक्रदृष्टे=कारकासे केती वुधशुक्रभ्यां दृष्टे सति पौन पुनिकः=पुनः पुनः प्रवणा, वा=अथवा, दासीपुत्रः=मृत्यापुत्रः स्यात् ।

शनिदृष्टे=कारकासे केती शनिदृष्टे, अपिमस्ये म त्रपदोपदानात् रुपि दृष्टे यति, तपस्वी=तापसः, वा=अथवा, प्रेष्य=मृत्युः, स्यात् ।

शनिमाश्रदृष्टे=कारकासे केती फेवनश्चनैषरेण दृष्टे सन्यासाभास=सन्य सु-पदाभासते न तु यास्तविकः सन्यासः स्यात् ॥ ३३-३७ ॥

भाषा—जिस के कारकांश में केतु पाप यह से देखा जाता हो तो उस के कान कट जाता है, या कान में रोग होता है।

जिस के कारकांश में स्थित केतु शुक्र से देखा जाता हो वह यज्ञादि में मन्त्र प्रहण करने वाला होता है।

जिस के कारकांश में स्थित केतु बुध और शनि से देखा जाता हो वह बल हीन होता है।

जिस के कारकांश में स्थित केतु बुध और शुक्र से देखा जाता हो तो वह एक ही वात को फिर फिर बोलने वाला अथवा दासी का पुत्र होता है।

जिस के कारकांश में स्थित केतु, शनि और अङ्ग ग्रहों से भी देखा जाता हो वह सप्तवी या भूत्य होता है।

कारकांश में स्थित केतु केवल शनि से देखा जाता हो तो वह कपटी सन्यासी होता है, वास्तव सन्यासी नहीं ॥ ३२-३७ ॥

अन्येऽस्मिन् सर्वत्राशैरकुसंख्याप्रहणनियमात् “तत्र” इति पदेन द्वितीय-स्थानप्रहणं स्यात्, कथमत्र तेन “तस्मिन् कारकांशे” इत्यर्थः कृतः ।

तत्र शृद्धवाक्यप्रमाणम्—

कारकांशे केतुयुक्ते पापप्रहनिरीक्षिते । थोप्रच्छेदो भवेन्नन्दं कर्णरोगार्तिना द्विज ॥
 कारकांशे स्थिते केतो भृगुणा च समीक्षिते । मुतेवा जायते विप्र क्रियाकर्मसुमनिवितः ॥
 कारकांशे स्थिते केतो शनिसौम्यनिरीक्षिते । बलवीर्येण रहितो जायते सोऽपि मानवः ॥
 सकेतो कारकांशे च युधशुक्लनिरीक्षिते । जायते योनियुतिश्चो दाचीपुत्रोऽथवा भवेत् ॥
 सकेतो कारकांशे च अन्यप्रहनिरीक्षिते । शनिदृष्टि विहीने च सर्वत्राश रहितो भवेत् ॥

भाषा—यहाँ के अर्थ देखने से “तत्र” इस पद से “तस्मिन् कारकांशे” यह सुनि का अर्थ स्पष्ट होता है। शृद्ध वाक्य के साथ विरोध होने के कारण “तत्र” से द्वितीय स्थान प्रहण नहीं होता।

अथ केषलकारकांशे रविशुक्राभ्यां इष्टे कलमाद—

तत्र कारकांशे रविशुक्रहृष्टे राजप्रेरयः ॥ ३८ ॥

धि०—तत्र कारकांश इति । अत्रापि “तत्र” इति पदेन “सकेतो” श्रयस्य निरूपितजीवता । तत्र = तस्मिन् कारकांशे, रविशुक्रहृष्टे=रविशुक्राभ्यां इष्टे, राजप्रेरयः=राजमृत्युः स्यात् ॥ ३८ ॥

भाषा—केषल कारकांश रवि और शुक्र दोनों से देखा जाता हो तो राजा हो गूर्ह्य होता है ॥ ३८ ॥

अथ शुद्धः—

कारकाशे यदा विप्र शुभमास्त्ररवीक्षिते । राजेष्यो भवेद्वालो जायते नाम संशयः ॥
भाषा—अर्थं स्पष्ट है ।

शुद्ध के इस वचन से यहाँ पर भी “तत्र” इस पद से कारकांश का ही प्रहण करता चाहिए ।

अथ कारकोशाद्वामभावफलमाह—

रिष्फे बुधे शुभदृष्टे घा मन्दवत् ॥ ३६ ॥

शुभदृष्टे स्थेयः ॥ ४० ॥

रवी शुभमात्रदृष्टे गोपालः ॥ ४१ ॥

विठ—रिष्फे शुभ इति । रिष्फे=कारकोशाद्वामे, बुधे=बुधयुते, वा=अधवा, शुभदृष्टे=सौम्यावलोकिते, मन्दवत्=शनैश्चरतुल्यं “प्रसिद्धकर्माजीवः” इति पूर्वोक्तफलमुद्यम् ।

शुभदृष्टे=कारकोशाद्वामे बुधे शुभमावलोकिते, स्थेयः=विवादपश्चस्य निर्णया, पुरोहितो वा स्यात् (स्थेयो विवादपश्चस्य निर्णयतरि पुरोहिते इति मेदिनी) ।

रवी=कारकोशाद्वामे रवी, शुभमात्रदृष्टे=केवल शुभप्रतिना दृष्टे, गोपालः=गोपालः स्यात् ॥ ३९-४१ ॥

भाषा—कारकांश से दशम स्थान में शुभ स्थित हो या शुभ की दृष्टि होतो शानि के समान फल होता है, अर्थात् प्रसिद्ध वर्तमान से जिविका करने वाला होता है ।

कारकांश से दशम में शुभ हो उप पर शुभप्रह की दृष्टि हो तो विवाद का निर्णय करने वाला या पुरोहित होता है ।

कारकांश से दशम में रवि हो और उस पर वेदां शुद्ध की दृष्टि होतो गोपालों का रक्षा करने वाला होता है ॥ ३९-४१ ॥

अथ शुद्धः—

दशमे कारकाशे च शुभेन सम्भवीक्षिते । व्यापारे शहुलामद्व भद्रतर्म विवशणः ॥

कारकाशे च दशमे रविणा च शुते यदि । शुद्धदृष्टे स्थाव विप्र जायते योगकारकः ॥

कारकाशे च दशमे शुभदेवनिरीक्षिते । हियरवितो भवेद्वालो गम्भीरो शुद्धीर्वयन् ॥

भाषा—स्पष्ट है ॥

अथ कारकोशाद्वत्तुर्धभावफलम्—

दारे चन्द्रशुभात्तायोगात् श्रृङ्खादः ॥ ४२ ॥

उच्चप्रहेऽपि ॥ ४३ ॥

राहुशनिभ्यां शिलागृहम् ॥ ४४ ॥

कुञ्जकेतुभ्यामैषिकम् ॥ ४५ ॥

शुरुणा दारवम् ॥ ४६ ॥

ताणं रविणा ॥ ४७ ॥

विं—दार इति । दारे=कारकांशाच्चतुर्थे, चन्द्रशुक्रदयोगात्=चन्द्रशुक्राभ्या दृष्टियुतात्, प्रासादः=प्रासादवान् भवेत् ।

उच्चप्रहे=कारकांशाच्चतुर्थे उच्चंगते हैं तदाऽपि प्रासादवान् भवेत् ।

राहुशनिभ्यां=कारकांशाच्चतुर्थे राहुशनैश्चराभ्या मिलिताभ्यां स्थिताभ्यां, शिलागृहं=शिलागृहनिर्माणकर्ता भवेत् ।

कुञ्जकेतुभ्यां=मङ्गलकेतुभ्यां मिलिताभ्यां कारकांशाच्चतुर्थे स्थिताभ्यां, ऐषि-के=इष्टिकागृहनिर्माणकर्ता भवति ।

शुरुणा=कारकांशाच्चतुर्थे स्थितेन वृहस्पतिना, दारवम्=दारुसम्बन्धिगृह-निर्माणकर्ता भवति ।

रविणा=कारकांशाच्चतुर्थे स्थिते सूर्ये, ताणं=तृणसम्बन्धिगृहनिर्माणकर्ता भवति ॥ ४२-४३ ॥

भाषा—कारकांश से चतुर्थ स्थान में चन्द्रमा और शुक्र का योग पा दृष्टि हो तो पक्षा मकान बनाने वाला होता है ।

कारकांश से चतुर्थ स्थान में उच्चंगत ग्रह हो तो भी पक्षा मकान बनाने वाला होता है ।

कारकांश से चतुर्थ स्थान शनि और राहु से युत दृष्टि हो तो पृथरे का गृह बनाने वाला होता है ।

कारकांश से चतुर्थ स्थान मङ्गल और केतु से युत दृष्टि हो सो ईटे का गृह बनाने वाला होता है ।

कारकांश से चतुर्थ स्थान वृहस्पति से युत दृष्टि हो तो दक्षी का गृह बनाने वाला होता है ।

कारकांश से चतुर्थ स्थान सूर्य से युत दृष्टि हो तो तृण का पर बनाने वाला होता है ॥ ४२-४३ ॥

अत्र वृद्धा—

पाताले कारकोरो च दशिशुक्रयुतेकिते । प्रासादवान् भवेद्वालो विनिश्च हर्म्यवान् द्विजः ॥

कारकांशे च पाताले तुङ्गक्षें कोऽपि संस्थितः । हर्ष्यमन्दिरसंयुक्तो द्यत्युच्चो वहुदीपिमान् ॥
कारकांशे च पाताले शनिराहुयुतेक्षिते । विप्रेच्छाटनपट्टीयुग् जायते मन्दिरं द्विज ॥
कारकांशे च पाताले कुजकेतुशनीक्षिते । ऐष्टिकं मन्दिरं तस्य जायते नाश्र संशयः ॥
कारकांशे च पाताले शुरुयुक्तनिरीक्षिते । दार्ढं मन्दिरं तस्य जायते नाश्र संशयः ॥
कारकांशे च पाताले रवियुक्तनिरीक्षिते । तृणवेष्टितसंयुक्तं जायते तस्य मन्दिरम् ॥

अथ कारकांशाक्षवममादकलमाद—

समे शुभदृग्योगाद् धर्मनित्यः सत्यवादी गुरुमक्षयः ॥ ४८ ॥

अन्यथा पापैः ॥ ४९ ॥

शनिराहुभ्यां गुरुद्वोहः ॥ ५० ॥

रविगुरुभ्यां गुराचविश्वासः ॥ ५१ ॥

विद्—सम इति । समे=कारकांशान्वमे, शुभदृग्योगाद्=शुभप्रदृष्टियोगाद्, धर्मनित्यः=धर्मतत्परः, सत्यवादी=सत्यवक्ता, गुरुमक्षय=गुरुसेवकव भवति ।

पापैः=कारकांशान्वमे पापप्रदृग्योगैः, अन्यथा=पूर्वोक्तादिपरीतं स्याद्, अर्थात् धर्मानित्यः, असत्यवादी, गुरुमक्षिराहेतुय भवति ।

शनिराहुभ्यां=कारकांशान्वमस्थान्यां शनिराहुभ्यां तदृक्षृभ्यां वा, शुरु द्वोहः=शुरुणा समे द्वोहकारको भवति ।

रविगुरुभ्यां=कारकांशान्वमे शुरुसूर्यदृष्टियुताभ्यां, शुरै अविश्वासः=शुरी विश्वासरहितो भवति ॥ ४८-५१ ॥

भाषा—कारकांश से नवम स्थान में शुभ प्रह की दृष्टि वा योग हो तो धर्म करने में सत्पर, सत्य बोलने वाला और शुरु में भक्ति करने वाला होता है ।

तथा कारकांश से नवम में पापप्रह की दृष्टि वा योग हो तो पूर्वोक्त फल के विपरीत फल समझना, अर्थात् धर्म करने में अतत्पर, असत्य बोलने वाला और शुरु में भक्ति नहीं करने वाला होता है ।

कारकांश से नवम स्थान में शनि, राहु की दृष्टि वा योग हो तो शुरु के साथ द्वोह करने वाला होता है ।

अगर कारकांश से नवम में रवि और शृद्धस्पति की दृष्टि वा योग हो तो शुरु में अविश्वास होता है ॥ ४८-५१ ॥

अथ शुद्धाः—

कारकांशे च नवमे शुभवेष्टयुतेक्षिते । सत्यवादी शुरै भक्तः स्वधर्मनिरतो भद्रेत् ॥

कारकांशो च नवमे पापमहयुतेक्षिते । स्वधर्मनिरतो बाल्ये मिथ्यावादी भवेद्द्विज ॥
कारकांशो च नवमे शनिराहुयुतेक्षिते । शुश्रोही भवेद्द्विप्र शास्त्रेषु विमुखो नरः ॥
कारकांशो च नवमे गुरुभातुयुतेक्षिते । तदापि च गुरुश्रोही गुरुवाक्यं न मन्यते ॥
कारकांशो च नवमे गुगुभौमयुतेक्षिते । यज्ञवर्गाभिक्योगे च मरणं पारदारिकः ॥
कारकांशो च नवमे लक्ष्मयुतेक्षिते द्विज । परखीसंगमाद्वालो वन्धको भवति ध्रुवम् ॥
कारकांशो च नवमे गुरुयुक्तेक्षिते द्विज । श्रीलोकुपो भवेद्वालो विषयी नैव जायते ॥

आपा—स्पष्ट है ।

अथ कारकांशान्वमे शूद्रवज्ञारकादिपद्वर्गफलमाह—

तत्र शूद्रवज्ञारकवर्गे पारदारिकः ॥ ५२ ॥

द्वयोगाभ्यामधिकाभ्यामामरणम् ॥ ५३ ॥

केतुना प्रतिवन्धः ॥ ५४ ॥

गुरुणा स्त्रैणः ॥ ५५ ॥

राहुणाऽर्थनिवृत्तिः ॥ ५६ ॥

चिं—तत्रेति । तत्र = कारकांशान्वमे, शूद्रवज्ञारकवर्गे = शुद्रभौमान्यतर-पद्वर्गे सति, पारदारिकः = परखीसको भवति ।

द्वयोगाभ्यामधिकाभ्यां = कारकांशान्वमे भोमशुद्रान्यतरपद्वर्गे सति पद्वर्गायेक्षयाऽधिकाभ्यां शुक्रमौमद्विषयोगाभ्यां, आमरणं = मरणपर्यन्तं पारदारिको भवति ।

केतुना = कारकांशान्वमे केतोर्द्विषयोगाभ्यां, प्रतिवन्धः = आमरणं पारदारिकस्य निवृत्तिर्भवति ।

गुरुणा = कारकांशान्वमे वृहस्पतिना युक्ते वा दृष्टे सति, स्त्रैणः = श्रीलोको भवति ।

राहुणा = कारकांशान्वमे राहुणा युक्ते वा दृष्टे, अर्थनिवृत्तिः = द्रव्यनाशो भवति ॥ ५३—५६ ॥

आपा—जिसके कारकांश से नवम स्थान में शुक्र और मङ्गल का पद्वर्ग हो वह परखी में निरत होता है ।

अगर कारकांश से नवम में शुक्र, मङ्गल का पद्वर्ग हो और उस पर शुक्र, मङ्गल की हटि, योग भी हो तो मरण पर्यन्त परखी में निरत होता है ।

अगर कारकांश से नवम में केतु की हटि वा योग हो सो उस का प्रतिपन्थर होता है, अर्थात् मरण पर्यन्त परखी में आसक्त नहीं होता है ।

३ पाद] सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाद्वयसहितम् । ८३

अगर कारकाश से नवम में पृष्ठस्थिति की हठि या योग हो तो अपनी छी में
आसक्त होता है ।

अगर कारकाश से नवम में राहु की हठि या योग हो तो पर छी के लिये पक
का नाश करता है ॥ ५०-५६ ॥

व्रथ कारकाशात्सप्तमसावस्थ फलमाह—

लाभे चन्द्रगुरुभ्यां सुन्दरी ॥ ५७ ॥

राहुणा विधवा ॥ ५८ ॥

शनिना योऽधिका रोगिणी तपस्त्विनो वा ॥ ५९ ॥

कुजेन विकलाही ॥ ६० ॥

रविणा स्यकुले ग्रुपा च ॥ ६१ ॥

बुधेन वलाघतो ॥ ६२ ॥

विं०—लाम इति । लाभे=यस्य कारकाशात्सप्तमे, चन्द्रगुरुभ्यां=चन्द्रगुरुर्वोर्देः ।
योगे सति, सुन्दरी = तस्य सुन्दरी छी भवति ।

राहुणा=कारकाशात्सप्तमे राहुणा द्वयोगे सति, विधवा=विधवा विद्या सह
सम्बन्धो भवति ।

शनिना=कारकाशात्सप्तमे शनैश्चरेण युक्ते वा दृष्टे सति, योऽधिका=

स्वस्यादधिकवयस्का, वा रोगिणी=रोगयुक्ता, वा तपस्त्विनी=तपस्त्विनी छी भवति ।

कुजेन=कारकाशात्सप्तमे महेन कुजेन द्वयोगे सति, स्यकुले=निष्कुले, ग्रुपा=

रविणा, चक्रादिकलाही च छी भवति ।

बुधेन=कारकाशात्सप्तमे बुधेन युक्ते वा ६२, वलाघती=यीतवायादिकालागु
निपुणा छी भवति ॥ ५७-६२ ॥

भाषा—जिस के कारकाश से सप्तम में चन्द्रमा और पृष्ठस्थिति की हठि या योग

हो उस को छी सुन्दरी होती है ।

जिस के कारकाश से सप्तम में राहु की हठि या योग हो तो उस को विधवा

छी के साथ सम्बन्ध होता है ।

अगर कारकाश से सप्तम में शनि की हठि या योग हो तो वप्तमें यदी या

रोगिणी या तपस्त्विनो स्त्री होती है ।

कारकाश से सप्तम में भग्न की हठि या योग हो तो बुद्धज्ञ से पुत बड़

यादी वर्ती होती है ।

कारकांश से सप्तम में रवि की दृष्टि, योग हो तो अपने कुल में रक्षिता जौं चकार से विकलाङ्गी भी होती है ।

कारकांश से सप्तम में बुध की दृष्टि वा योग हो तो गीत, वादा आदि कलाओं में निषुण होती है ॥ ६७-६२ ॥

अथ वृद्धाः—

कारकांशे च शून्यस्थे गुरुचन्द्रयुते द्विज । सुन्दरी गेहिनी तस्य पतिभक्तिपरायणा ॥
राहुण विहला बाला जायते चाङ्गना द्विज । शनिना च वयोधिक्यारोगिणी वा तपस्तिनी ॥
भौमेन विकलाङ्गी च तथा कान्तात्यलक्षणा । रविणा स्वकुले गुप्ता आसक्ता परवैश्मनि ॥
बुधे कलावती शेया कलाभिज्ञा प्रजायते । शुक्रेण सद्वज्ञेया च निर्विशंकं द्विजोत्तम ॥

अथ कारकांशाच्चतुर्यभावफलमाह—

चापे चन्द्रेणावृते देशे ॥ ६३ ॥

विऽ—चाप इति । चापे=कारकांशाच्चतुर्ये, चन्द्रेण=सोमेन युक्ते वा दृष्टे सति, अनावृते देशे = अनाच्छादिते स्थाने स्त्रीसन्मोगकारको भवति ॥ ६३ ॥

भाषा—जिस के कारकांश से चतुर्य स्थान में चन्द्रमा की दृष्टि वा योग हो तो विना पदे की जगह में स्त्री सन्मोग करने वाला होता है ॥ ६३ ॥

अथ कारकांशातृतीयस्थानस्य फलमाह—

कुर्मणि पापे शरः ॥ ६४ ॥

शुभे कातरः ॥ ६५ ॥

विऽ—कर्मणीति । कर्मणि=कारकांशातृतीये, पापे=पापप्रहे सति, शरः=चीरो भवति ।

शुभे=कारकांशातृतीये, शुभप्रहे, कातरः=भीर्मर्यति ॥ ४६-६५ ॥

भाषा—कारकांश से तृतीय स्थान में पाप यह की दृष्टि वा योग हो तो शर होता है ।

कारकांश से तृतीय स्थान में शुभप्रह की दृष्टिया योग हो तो भीरहोता है ॥ ६४-६५ ॥

अथ वृद्धाः—

कारकांशे तृतीये च पापप्रेटयुतेष्ठिते । स शरो जायते मालो चीर्यवान्वहुविकमी ॥
कारकांशे तृतीयेऽपि शुभप्रेटयुतेष्ठिते । जायते तत्त्वददयः कातरोऽपि विशेषतः ॥

कारकांशे तृतीये च पद्मे पापयुते ष्ठिते । ष्ठायीकर्मरतो नित्यं जायते च न दंशयः ॥

अथ कर्पकयोगमाह—

नृत्युचिन्तयोः पापे कर्मकः ॥ ६६ ॥

२ पादः] सोदाहरण-धिमठा-संस्कृत-हिन्दी-टीकाद्वयसहितम् । ८५

विं०—मृगुचिन्तयोरिति । मृगुचिन्तयोः=तृतीयपृष्ठयोः, पापे=पापप्रहे चति, कर्पेकः=कृपिकर्ता भवति ॥ ६६ ॥

भाषा—कारकांश से तृतीय और पठ स्थान में पापपह हो तो खेती करने वाला होता है ॥ ६६ ॥

अथात् विशेषमाह—

समे गुरुै विशेषेण ॥ ६७ ॥

विं०—सम इति । समे=कारकाशासनमें, गुरुै=गृहस्थतो चति, विशेषेण कर्पेकः=विशेषेण कृपिकर्ता भवति ॥ ६७ ॥

भाषा—कारकांश से नवम में गृहस्थति हो तो विशेष करके खेती करने वाला होता है ॥ ६७ ॥

अथ कारकाशाद्वादशमावस्य कलमाह—

उच्चे शुमे शुभलोकः ॥ ६८ ॥

केतौ कैवल्यम् ॥ ६८ ॥

कियचापयोविशेषेण ॥ ६९ ॥

पापैरन्यथा ॥ ६९ ॥

विं०—उच्च इति । =कारकाशाद्वादशे, शुमे=शुग्रप्रहे चति, शुभलोक=स्वर्गादिग्राहिभवति ।

केतौ=कारकाशाद्वादशे केतौ चति, कैवल्यं=मुक्तिः स्यात् ।

कियचापयो=मीनकर्दयोः कारकाशाद्वादशावस्ययोस्तत्रजुमे चति विशेषेण=विशेषेण मुक्तिः स्यात् ।

पापै=कारकाशाद्वादशे पापप्रहे, अन्यथा=न मुक्तिः नरकादशुभलोकग्रासि-रित्यर्थः ॥ ६८-६९ ॥

भाषा—कारकांश से द्वादश स्थान में शुभपह हो तो स्वर्गादिशुभ लोक की प्राप्ति होती है ।

कारकांश से द्वादश में केतू हो तो मुक्ति की प्राप्ति होती है ।

कारकांश से द्वादश में मीन या कर्ढ राशि पड़े तथा उस में शुभपह हो तो विशेष दर स्वर्गादिलोक की प्राप्ति होती है अर्थात् सापुत्रादि शुक्लिष्ट मुक्तियों में सर्वथेष सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है ।

कारकांश से द्वादश में पापपह हो तो नरकादि की प्राप्ति होती है ॥ ६८-६९ ॥

अथ कारकोशाद्वादशभाववराच्छिवभस्तुदिफलमाद—
 रविकेतुभ्यां शिवे भक्तिः ॥ ७२ ॥
 वन्द्रेण गौर्याम् ॥ ७३ ॥
 शुक्रेण लक्ष्म्याम् ॥ ७४ ॥
 शुजेन स्कन्दे ॥ ७५ ॥
 वृघशनिभ्यां विष्णो ॥ ७६ ॥
 गुरुणा साम्बविष्णे ॥ ७७ ॥
 राहुणा तामस्यां दुर्गायाज्ञ ॥ ७८ ॥
 केतुना गणेशे स्कन्दे च ॥ ७९ ॥
 पापक्षेष मन्दे क्षुद्रदेवताम् ॥ ८० ॥
 शुक्रे च ॥ ८१ ॥

यिं—रविकेतुभ्यामिति । रविकेतुभ्यां=कारकोशाद्वादशे मिलिताभ्यां
 रविकेतुभ्यां स्थिताभ्यां, शिवे भक्तिः=महादिवे भक्तिः स्यात् ।
 वन्द्रेण=कारकोशाद्वादशे सोमेन युक्ते, गौर्यां=पार्वत्यां भक्तिः स्यात् ।
 शुक्रेण=कारकोशाद्वादशे शुक्रेण युक्ते, लक्ष्म्यां=पश्चायां भक्तिः स्यात् ।
 शुजेन=कारकोशाद्वादशे महालेन युक्ते, स्कन्दे=कार्तिकेये भक्तिः स्यात् ।
 वृघशनिभ्यां=कारकोशाद्वादशे वृभशनैङ्गराभ्यां युक्ते, विष्णो=नारायणे
 भक्तिः स्यात् ।

गुरुणा=कारकोशमद्वादशे शूहस्पतिना युक्ते, साम्बविष्णे=पार्वत्या सह शिवे
 भक्तिः स्यात् ।

राहुणा=कारकोशाद्वादशे राहुणा युक्ते तामस्यां=भूतादिदेवतामां, दुर्गायाज्ञ=
 भगवत्यां च भक्तिः स्यात् ।

केतुना=कारकोशाद्वादशे केतुना युक्ते, गणेशे=विघ्नेशे, स्कन्दे=कार्ति-
 केये च भक्तिः स्यात् ।

पापक्षेष मन्दे च=कारकोशाद्वादशे पापराशी तत्र शनैङ्गवरे च, क्षुद्रदेवतामु=
 क्षणपिशाचादिपु भक्तिः स्यात् ।

शुक्रे=कारकोशाद्वादशे शुक्रे सति, चक्रारच्छुद्रदेवतामु भक्तिरेव स्यात् ॥ ७२-८१ ॥

भाषा—कारकोश से पारहवे स्थान में रवि और केतु हो सो शिव में भक्ति
 खोली है ।

कारकांश से वारह वे स्थान में चन्द्रमा हो तो गौरी में भक्ति होती है ।

कारकांश से वारह वे स्थान में शुक्र हो तो लक्ष्मी में भक्ति होती है ।

कारकांश से वारह वे स्थान में मङ्गल हो तो कार्तिकेय में भक्ति होती है ।

कारकांश से वारह वे स्थान में बुध और शनि हो तो विष्णु में भक्ति होती है ।

कारकांश से वारह वे स्थान में शूलस्तिश्च हो तो गौरी सहिताशिव में भक्ति होती है ।

कारकांश से वारह वे स्थान में शाहू हो तो भूत आदि देवताओं में और दुर्गा में भक्ति होती है ।

कारकांश से वारह वे स्थान में केतु हो तो गणेश और कार्तिकेय में भक्ति होती है ।

कारकांश से द्वादश में पाप राशि पड़े तथा उस में शनि हो तो शुद्धदेवताओं में भक्ति होती है ।

यदि उसी पाप राशि में शुक्र हो तो भी शुद्धदेवताओं में भक्ति होती है ॥५२-८१॥

अत एदा:-

कारकांशे व्ययस्थाने उबस्थेऽपि शुभप्रहे । सद्रितिर्जीयते तस्य शुभलोकमवाप्नुयात् ॥

कारकांशे व्यये केती शुभलेट्टैर्युतेक्षिते । तदापि जायते मुक्तिः सायुज्यपदमाप्नुयात् ॥

केवलेऽपि व्यये केतुः पापग्रहयुतेक्षितः । न मुक्तिर्जीयते तस्य शुभलोकं न पद्यति ॥

रविणा संयुते केती कारकांशे व्ययस्थिते ।

गौर्या भक्तिर्वैतस्य शाकिको जायते नरः ॥

२ विभक्तिर्भवेतस्य निर्विशंकं द्विजोत्तम । चन्द्रेण संयुते केती कारकांशे व्ययस्थिते ॥

शुभेण संयुते केती कारकांशे व्ययस्थिते ।

समुद्रतनयामक्तिर्जीयतेऽसौ समृद्धिमान् ॥

कुजेन स्कन्दमत्तो वा जायते द्विजसत्तम ।

वैश्वानो दुधशोरिभ्यो गुरुणा शिवभक्तिमान् ॥

गुरुणा तामसोदुर्गम्भूतप्रेतादि सेवकृत् ।

हेरम्यभक्तः शिरिना स्कन्दमत्तोऽयवा भवेत् ॥

कारकांशे व्यये शोरिः पापराशो यदा भवेत् । तदैव शुद्धदेवस्य भक्तिस्तस्य न संशयः ॥

पापशेऽपि व्यये शुक्रस्तदापिशुद्धेषकः ।

अथामात्यकारकात्-षष्ठे कि विचार्यमित्याह—

अमात्यदासे दीप्यम् ॥ ८२ ॥

धि०—अमात्यते । अमात्यकारकात्=अत्मकारकपदान्नयूनोशमदात्, दाये=पष्टस्थाने च, 'एवं=एवमेव महिंविचारो विषेयः ।

भार्याशारमाकारकाद्वादयो भक्तिविचारो विहितस्तथाऽमात्यकारकात्यच्छेऽपि
विचारो विधेयः ॥ ८२ ॥

भाषा—जिस तरह आत्मकारकांश से द्वादश स्थान में देवताओं की भक्ति का
विचार किया गया है। उसी तरह अमात्यकारकांश से पष्ठ स्थान में विचार करना
चाहिए।

जिसे—अमात्यकारकांश से पष्ठ स्थान में रवि और केतु हो तो शिव में भक्ति
होती है।

चन्द्रना हो तो गौरी में, शुक्र हो तो लक्ष्मी में, भूल हो तो कार्तिकेय में, दुष्य
और शनि हो तो विष्णु में, बृहस्पति हो तो पार्वता के साथ शिव में, राहु हो तो
भूतादि देवताओं में तथा दुर्गा में, केतु हो तो गणेश और कार्तिकेय में भक्ति होती है।

अमात्यकारकांश से पष्ठ में पाप राशि पढ़ तथा उस में शनि अथवा शुक्र हो तो
धुद्र देवताओं में भक्ति होती है ॥ ८२ ॥

अथ मान्त्रिकयोगमाह—

त्रिकोणे पापद्वये भान्त्रिकः ॥ ८३ ॥

विद्वान्—त्रिकोण इति । त्रिकोणे पापद्वये=आत्मकारकोशात्पञ्चमनवमयोः पाप-
द्वये स्थिते सति, मान्त्रिकः=मन्त्रशाखज्ञा भवति ॥ ८३ ॥

भाषा—आत्मकारकांश से पञ्चम और नवम में दो पाप ग्रह हों तो मन्त्र शास्त्र
को जानने वाला होता है।

अथ निप्रहफानुप्राहकयोगावाह—

पापद्वये निप्राहकः ॥ ८४ ॥

शुभद्वये निप्राहकः ॥ ८५ ॥

विद्वान्—पापद्वये इति । पापद्वये=कारकांशात्त्रिकोणे पापद्वये पापप्रहालोकिते,
निप्राहकः=निप्रहकर्ता भवति ।

शुभद्वये=कारकांशात् त्रिकोणे पापद्वये शुभप्रहालोकिते, अनुप्राहकः=अनुप्रह-
कर्ता भवति ॥ ८४—८५ ॥

भाषा—कारकांश से पञ्चम और नवम में दो पाप ग्रह हों उन पर पाप ग्रह की
दृष्टि हो तो निप्रह करने वाला होता है।

कारकांश से पञ्चम और नवम में दो पापग्रह हों उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो
तो अनुप्रह करने वाला होता है ॥ ८४—८५ ॥

अथ रसवादिभिषग्—योगावाह—

शुक्रेन्द्रौ शुक्रद्वये रसवादी ॥ ८६ ॥

युधदृष्टे भिषक् ॥ ८७ ॥

चिं—शुकेन्द्रविति । शुकेन्द्री=शुके कारकाणे इन्द्री चन्द्रे, शुरदृष्टे=शुरे-
गावलोकिते सति, रसवादी=रसायनशास्त्रवेता भवति ।

युधदृष्टे=कारकाणे इन्द्री दुधेन विरोक्षिते सति, भिषक्=वैदो भवति ॥ ८६-८७ ॥

भाषा—कारकाण में चन्द्रमा हो उस पर शुक्र की दृष्टि एड़े तो रसायन शास्त्र
को जानने वाला होता है ।

कारकाण में चन्द्रमा हो उस पर युध की दृष्टि पड़े तो वैद्य होता है ॥ ८६-८७ ॥

अथ पाण्डुशिवित्यादियोगप्रथमाह—

चापे चन्द्रे शुक्रदृष्टे पाण्डुदिवत्रो ॥ ८८ ॥

कुञ्जदृष्टे महारोगः ॥ ८९ ॥

केतुदृष्टे नीलकुष्ठम् ॥ ९० ॥

चिं—चाप इति । चापे=कारकाणशाच्चतुर्थे, चन्द्रे=सोमे, शुक्रदृष्टे=शुरेणाप
लोकिते सति । पाण्डुशिवत्रो=पाण्डुरोगी, इवेतकुष्ठी च भवति ।

कुञ्जदृष्टे=कारकाणशाच्चतुर्थे चन्द्रे कुञ्जे हृष्टे, महारोग =कुष्ठी भवति ।

केतुदृष्टे=कारकाणशाच्चतुर्थे चन्द्रे केतुना हृष्टे, नीलकुष्ठम्=नीलकुष्ठी भवति ।

भाषा—कारकाण से चतुर्थे स्थान में चन्द्रमा हो उस पर शुक्र की दृष्टि होता हो सो
पाण्डुरोग वाला या इनेत कुष्ठ वाला होता है ।

कारकाण से चतुर्थे में चन्द्रमा हो उस पर महाल की दृष्टि पड़े तो कुष्ठी होता है ।

कारकाण से चतुर्थे में चन्द्रमा हो उस पर केतु की दृष्टि पड़े तो नीलकुष्ठी होता है ।

अथ कारकाणशाच्चतुर्थप्रथमस्थानवैद्योगानाह—

तत्र मृती या कुजराहुभ्यां क्षयः ॥ ९१ ॥

चन्द्रदृष्टे निदच्येन ॥ ९२ ॥

शुजेन विट्कादिः ॥ ९३ ॥

केतुना ग्रहणी जलयोगो धा ॥ ९४ ॥

राहुगुलिकाभ्यां शुद्धियाणि ॥ ९५ ॥

चिं—तत्रेति । तत्र=कारकाणशाच्चतुर्थे, मृती=परमे या, कुजराहुभ्यां=
कुरुषाहोयोगी सति, क्षय =क्षयरोगवान् भवति ।

चन्द्रदृष्टे=कारकाणशाच्चतुर्थे परमे या रिपतयो शुक्राणोदयरि, चन्द्रदृष्टे=
योगदृष्टे शत्र्य, निदच्येन विट्कादिन शयरोगवान् भवति ।

कुजेन=कारकांशाच्चतुर्थं पश्यते वा कुजेन युक्ते सति, पिटकादिरोगो भवति ।

केतुना=कारकांशाच्चतुर्थं पश्यते वा केतुना युक्ते सति, प्रहणी=संप्रदणी, जल-
रोगः = जलोदरादिरोगवान् भवति ।

राहुगुलिकाभ्यां=कारकांशाच्चतुर्थं पश्यते वा राहुगुलिकाभ्या मिलिताभ्यां हिं-
ताभ्यां, क्षुद्रविषाणि = मूषिकादि विषाणि भवन्ति ॥ ९१-९५ ॥

भाषा—कारकांश से चतुर्थं वा पञ्चम स्थान में मङ्गल और राहु हों तो क्षय
रोग होता है ।

कारकांश से चतुर्थं वा पञ्चम में मङ्गल और राहु हों उन पर चन्द्रमा की हड्डि हो
तो निश्चय कर के क्षय रोग होता है ।

कारकांश से चतुर्थं वा पञ्चम में केवल मङ्गल हो तो कोहा लादि रोग होता है ।

कारकांश से चतुर्थं वा पञ्चम में केवल केतु हो तो संयहणी वा जल रोग होता है ।

कारकांश से चतुर्थं वा पञ्चम में राहु और गुलिक हो तो विलूप्त लादि के क्षुद्र
विष से कष्ट होता है ॥ ९१-९५ ॥

अथ कारकांशाच्चतुर्थस्थानवशायोगानाह—

तत्र शनौ धानुषकः ॥ ९६ ॥

केतुना घटिकायन्त्री ॥ ९७ ॥

बुधेन परमहंसो लगुण्डी वा ॥ ९८ ॥

राहुणा लोहयन्त्री ॥ ९९ ॥

रविणा खड्गी ॥ १०० ॥

कुजेन कुन्ती ॥ १०१ ॥

विं—तत्र शनाविति । तत्रेति पदात्पश्यते पर्व निष्ठृतम् ।

तत्र=कारकांशाच्चतुर्थं, शनौ=शनैधरे सति, धानुषकः=धनुषि कुशले भवति ।

केतुना=कारकांशाच्चतुर्थं केतुना युक्ते, घटिकायन्त्री=घटीयन्त्रनिर्माता भवति ।

बुधेन=कारकांशाच्चतुर्थं बुधेन युक्ते, परमहंसः, लगुण्डी=दण्डी वा भवति ।

राहुणा=कारकांशाच्चतुर्थं राहुणा युक्ते, लोहयन्त्री=लोहयन्त्रनिर्माता भवति ।

रविणा=कारकांशाच्चतुर्थं सूर्येण युक्ते, खड्गी=खड्गधारणकर्ता भवति ।

कुजेन=कारकांशाच्चतुर्थं मङ्गलेन युक्ते, कुन्ती=कुन्तधारी भवति ॥ ९६-१०१ ॥

भाषा—कारकांश से चतुर्थं स्थान में शनि हो तो धनुर्धरी होता है ।

कारकांश से चतुर्थं स्थान में केतु हो तो धड़ी यनाने बाला होता है ।

कारकांश से चतुर्थ स्थान में शुध पड़े तो परमहंस या दण्डी होता है ।
कारकांश से चतुर्थ स्थान में राह दो तो लोहपत्र बनाने वाला होता है ।
कारकांश से चतुर्थ स्थान में रति हो तो लड़ा भारण करने वाला होता है ।
कारकांश से चतुर्थ स्थान में भद्र दो तो भाला राजे वाला होता है ॥१६-१०१॥

अथ कारकाशतत्पत्रमस्थानद्वयवशाद्वप्न्यहृदादिपोगानाह—

मातापित्रोक्तन्दगुरुम्यां प्रन्यहृत् ॥ १०२ ॥

शुक्रेण किञ्चिद्बूनम् ॥ १०३ ॥

शुधेन ततोऽपि ॥ १०४ ॥

शुक्रेण यथिर्यामी काव्यशक्त्य ॥ १०५ ॥

गुरुणा सर्वविद्वयान्विकश्य ॥ १०६ ॥

न वामी ॥ १०७ ॥

विशिष्य वैयाकरणो वेदवेदान्तचिन्द्य ॥ १०८ ॥

सभाजडः शनिनाः ॥ १०९ ॥

शुधेन मीमांसकः ॥ ११० ॥

कुञ्जेन नैयायिकः ॥ १११ ॥

चन्द्रेण सांख्ययोगश्चः साहित्यशो गायकश्च ॥ ११२ ॥

रघुणा वेदान्तशो गीतश्च ॥ ११३ ॥

केतुना गवितशः ॥ ११४ ॥

गुरुसम्यन्धेन सम्प्रदायसिद्धिः ॥ ११५ ॥

विं—मातापित्रोरिति । गातापित्रोः=कारकांशात्रथमवयमयोः कारकाशे परमे वेत्यर्थः, चन्द्रगुरुम्याः=योगवृद्धसतिम्यां मिलिताम्यां रिताम्यां, प्रन्यहृत=प्रन्यकर्त्ता भवति ।

शुधेण=कारकांशे तत्पत्रमें या चन्द्रगुरुकाम्यो शुधते, किञ्चिद्बूने=किञ्चिद्बूने पन्थ-कर्त्तुर्व स्थात् । अत्र वेष्टल शुक्रवशाद्वप्ते पलाय वृद्यमाणत्वात्तुवेत्यस्य चन्द्र-गुरुकाम्यामिति मुख्यार्थः ।

शुधेन=कारकांशे तत्पत्रमें वा शुधचन्द्राम्यां शुधते, ततोऽपि=दास्मादपि न्यूनो प्रन्यहारः स्थात् । अत्रपि वेष्टलवृपवशाद्वप्ते करह्य वृद्यमाणत्वात् शुधेनेत्यस्य शुधचन्द्राम्यामिति शमीकीनार्थः ।

शुक्रेण=कारकोशे तत्पञ्चमे वा केवल शुक्रेण युक्ते, कविः=काव्यकर्ता, पापमी वाचोयुक्तिः, काव्यज्ञात्व=काव्यज्ञाता च भवति ।

गुह्या=कारकोशे तत्पञ्चमे वा वृहस्पतिना युक्ते, सर्ववित्=सर्वज्ञः, ग्रान्थिकः=ग्रन्थकर्ता च भवति, परम्परा न वाप्ती=वक्ता न भवति, तथा विशेषण=विशेषेण, वैयाकरणः=व्याकरणशास्त्रज्ञाता, वेदवेदाङ्गविद्वच=वेदवेदाङ्गज्ञाता च भवति ।

शनिना=कारकोशे तत्पञ्चमे वा शनैश्चरेण युक्ते, समाजदः=समायाद वक्ता न भवति ।

बुधेन=कारकोशे तत्पञ्चमे वा बुधेन युक्ते, मीमांसकः=मीमांसाशास्त्रज्ञाता भवति ।

कुजेन=कारकोशे तत्पञ्चमे वा कुजेन युक्ते, नैयायिकः=न्यायशास्त्रज्ञाता भवति ।

चन्द्रेण=कारकोशे तत्पञ्चमे वा चन्द्रेण युक्ते, सारुख्ययोगशः=सारुख्ययोगशः-खण्डोद्योरपि ज्ञाता भवति, तथा साहित्यज्ञः=साहित्यशास्त्रवेत्ता, गायकथ=गानविद्याज्ञाता च भवति ।

रविणा=कारकोशे तत्पञ्चमे वा सूर्येण युक्ते; वेदान्तज्ञः=वेदान्तशास्त्रज्ञाता, गीतज्ञस्त्र=गीतशास्त्रज्ञाता च भवति ।

केतुना=कारकोशे तत्पञ्चमे वा केतुना युक्ते, गणितज्ञः=गणितशास्त्रज्ञाता भवति ।

गुरुसम्बन्धेन = सूर्योपां पूर्वोक्तानां योगानां वृहस्पतिसन्बन्धेन, सम्प्रदायसिद्धिः = तत्त्वद्विद्यासम्प्रदाये सिद्धिर्भवति ॥ १०२-११५ ॥

भाषा—कारकोश में या कारकोंश से पञ्चम में चन्द्रमा और वृहस्पति हों तो ग्रन्थ बनाने वाला होता है ।

कारकोंश में या उस से पञ्चम में चन्द्रमा और शुक्र हो तो पूर्वोक्त योग की अपेक्षा कुछ न्यून ग्रन्थ बनाने वाला होता है ।

कारकोंश में या उस से पञ्चम में चन्द्रमा और बुध हो तो उस से भी कुछ न्यून ग्रन्थ बनाने वाला होता है ।

कारकोंश में या उस से पञ्चम में केवल शुक्र हो तो कवि, वक्ता, और काव्य को जानने वाला होता है ।

कारकोंश में या उस से पञ्चम में वृहस्पति हो तो सत्र विद्यामों को जानने वाला और ग्रन्थ बनाने वाला भी होता है, किन्तु वक्ता नहीं होता है, तथा विशेष कर व्याकरण और वेद, वेदान्त जानने वाला होता है ।

कारकोंश में या उस से पञ्चम में शनि हो तो समा में मृक होता है ।

कारकांश में या उस से पश्चम में कुछ हो तो मीमांसक होता है ।

कारकांश में या उस से पश्चम में मध्य हो तो नैपायिक होता है ।

कारकांश में या उस से पश्चम में केशल चन्द्रमा हो तो सांख्य, याग, साहित्य और गानविद्या जानने वाला होता है ।

कारकांश में या उस से पश्चम में केवल सूर्य हो तो वेदान्त, और गान जानने वाला होता है ।

कारकांश में या उस से पश्चम में केतु हो तो गणित जाप्त जानने वाला होता है ।

पूर्वोक्त योगों में आगर वृहत्यति वा सम्बन्ध हो तो उस उस विद्या के सम्बन्ध में सिद्ध होता है ॥ १०२-११६ ॥

अथ कारकोशाद्वितीये फलविचारव्यवस्थामाद्—

भाग्ये चौकम् ॥ ११६ ॥

सदा चौथमित्येके ॥ ११७ ॥

विद्या—भाग्य इति । भाग्ये=कारकोशाद्वितीये, चौर्थे=पूर्वोक्तवत्कलं शेयम्, अर्थात् या कारकांशी तत्पश्चमे वा विद्याप्राप्तिस्थिरकलविचारः इस्तथैव कारकोशाद्वितीयेऽपि विधेय इति ।

सदा=कारकोशात्तृतीयेऽपि च, एवं=पूर्वोक्तवत्कलं शेयम्, इति एके=वेचिदा-चार्याः कथयन्ति ॥ ११६-११७ ॥

भाग्य—कारकांश में तथा उस से पश्चम में जिय प्रकार एकादेश किया गया है, उसी प्रकार कारकांश से द्वितीय स्थान में भी एकादेश करना चाहिए

किसी आचार्य का भत है कि कारकांश से द्वितीय स्थान से भी उसी प्रकार एकादेश करना चाहिए ॥ ११६-११७ ॥

अथ स्तब्धवारयोगमाद्—

भाग्ये केतौ पापद्वये स्तब्धवारक् ॥ ११८ ॥

विद्या—भाग्य इति । भाग्ये=कारकोशाद्वितीये केतौ, पापद्वये=पापप्रदग्निरी-जिते सति, स्तब्धवारक्=द्वागुप्तरदानासमयो मवति ॥ ११८ ॥

भाग्य—कारकांश से द्वितीय स्थान में केतु हो उस पर पाप मह की दृष्टि हो तो यह शोषण योगने में असमर्थ होता है ॥ ११८ ॥

अथ केमदुमयोगमाद्—

स्यपितृपदादु भाग्यरोगयोः पापसाम्ये केमदुमाः ॥ ११९ ॥

चन्द्रहृष्टे यिशोरेण ॥ १२० ॥

वि०—स्वपितृपदादिति । स्वपितृपदात्=स्वः कारकोर्शः, पिता लग्नं, पदं जन्मलग्नपदं तेषां समाद्वारः स्वपितृपदं तस्मात् कारकजन्मलग्नः—जन्मलग्नपदात्, भारयरोगयोः = द्वितीयाष्टमस्थानयोः, पापसाम्ये = पापमहतुल्ये, केमद्वुमः=केमहु-मनामा योगे भवति ।

चन्द्रदृष्टी=चन्द्रेन दृष्टे सति, विशेषेण=पूर्णरूपेण केमद्वुमयोगे भवति ॥११३-१२०॥

भाषा—कारक से या जन्म लग्न से या जन्म लग्न पद से द्वितीय और अष्टम स्थान में पापप्रह वरा घर होतो केमद्वुम योग होता है ।

कारक या जन्म लग्न या जन्म लग्न पद से द्वितीय और अष्टम में पापप्रह का तुल्यता हो उस पर चन्द्रमा की दृष्टि हो तो विशेष कर केमद्वुम योग होता है, अर्थात् पूर्ण केमद्वुम योग होता है ॥ ११९-१२० ॥

अन्त वृद्धिः—

लग्नालग्नपदादास्वात् पापी खीहानिगौ यदि ।

केवलौ सम्भृतेऽपि समसंख्यी शुभाशुभौ ॥

चन्द्रदृष्टी विशेषेण योगः केमहुमो मतः ।

भाषा—स्पष्ट है ।

अथ फलसमयमाह—

सर्वेषां चौव पाके ॥ १२१ ॥

वि०—सर्वेषामिति । सर्वेषां=अखिलानां प्रद्वाणां राशीनां च, पाके=दशा-यामेव पूर्वोऽतानि फलानि भवति ।

अथवा सर्वेषां=अखिलानां प्रद्वाणां राशीनां पाके=दशाप्रवेशकालेऽपि, पूर्वोऽतके-महुयोगविचारः कार्यः ॥ १२१ ॥

भाषा—ऊपर बतलाया गया प्रह और राशियों का फल अपनी अपनी दशा में होता है ।

अथवा सब यह और राशियों का दशारम्भ के समय में भी केमद्वुम योग का विचार करना चाहिये इस सूत्र का इस प्रकार दो सहृत अर्थ हो सकते हैं ॥१२१॥

इति महापितृमिनिप्रणीतजैमिनीसूत्रटीकायां प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः ।



२ पादः] चोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाद्वयसहितम् । ६५

अथ प्रथमाध्याये तृतीयः पादः ।

तत्र पदमवलम्ब्य फलादेशः कार्यं इत्युपदिशति—

अथ पदम् ॥ १ ॥

चिं०—अथेति । अथ पूर्वोक्तादनन्तरम् , पर्द=“यावदीशाश्रयं पदसूक्ष्माम्” इति पूर्वप्रतिपादितं लग्नपदमवलम्ब्य फलं ज्ञेयमन्त्र, अस्मिन्नधिकारे लग्नपदमहोकृत्यैव फलं वाच्यमित्यर्थः ।

भाषा—अब पदाधिकार कहते हैं, अर्थात् इस पाद में “यावदीशाश्रयं पदसूक्ष्माम्” इस सूत्र से पूर्व प्रसिपादित लग्नपद से फल समझना चाहिए ।

अथ फलं कथयति, तत्र प्रथमं श्रीमदादियोगमाद—

व्यये सप्रहे प्रहद्दृष्टे थीमन्तः ॥ २ ॥

शुभैन्याद्योलाभः ॥ ३ ॥

पापैरुमार्गेण ॥ ४ ॥

उच्चादिभिर्विशेषात् ॥ ५ ॥

चिं०—व्यय इति । व्यये=लग्नपदादेकादशे, सप्रहे=शुभेन पापेन वा केनचिद्रहेण युक्ते, प्रहद्दृष्टे=शुभपापमधाणा केनचिद् दृष्टे युति, थीमन्तः=धनवन्तः स्युः ।

शुभे=लग्नपदादेकादशे शुभप्रदैर्युतदृष्टे सति, न्यायोलाभः=न्यायमार्गलाभः स्यात् ।

पापैः=लग्नपदादेकादशे पापप्रदैर्युतदृष्टे सति, अमार्गेण =कुत्सितशृत्यालाभः स्यात् ।

उच्चादिभिः=लग्नपदादेकादशे—उच्चस्वरादिमूलग्रिकोणादिगतैर्मूर्खैः, विशेषात्=विशेषहेतु लाभः स्यात् ॥ २-५ ॥

भाषा—जग्न पद से पुकादश स्थान में किसी पापप्रह या शुभप्रह का योग या दृष्टि हो तो वह जातक धनवान् होता है ।

स्वर्ग पद से पुकादश स्थान में शुभ प्रह से युत या दृष्टि हो तो भीति मार्ग से धन का लाभ होता है ।

स्वर्ग पद से पुकादश स्थान में पापप्रह से युत या दृष्टि हो तो कुत्सित शृति से धन का लाभ होता है ।

स्वर्ग पद से पुकादश स्थान में उच्चस्वरादि, मूलग्रिकोण आदि राशि के घट हो तो विशेष कर लाभ होता है ।

अथ वृद्धाः—

धारुडाल्लाभभवनं प्रहः पश्येत् न स्ययम् ।

यस्य जन्मनि सोऽपि स्यात् प्रबलो धनवानपि ॥

द्रष्टृभ्रह्माणां वाहुल्ये तदां द्रष्टरि तुक्षगे । सार्गले चापि तत्रापि वहर्गलसमागमे ॥
शुभयद्वार्गले तत्र तत्राप्युच्चप्रहर्गले । शुखानि र्वामिना दृष्टे लरनभासवापितेन वा ॥

जातस्य पुंशः प्रावल्यं निर्दिशेदुत्तरोत्तरम् ।

लरनास्त्र स्थान से यारहवे स्थान को प्रह देखता और द्वादश स्थान को न देखता हो तो जातक अत्यन्त धनवान् होता है । अगर आरुड स्थान से यारहवे स्थान को देखने वाले पहुँच प्रह हों तो उस से भी ज्यादा धनवान् होता है । अगर द्वादश प्रह उच्च का हो तो उस से भी धनवान् होता है । अगर देखने वाला प्रह पर पहुँच अर्गलाओं का संयोग हो तो उस से भी ज्यादा धनी होता है । अगर वह अर्गला शुभ प्रह की हो सो उस से भी ज्यादा धनी होता है । और अगर प्रह अर्गला वर्षण गत प्रह की हो सो उस से भी ज्यादा धनी होता है ।

यह उत्तरोत्तर अत्यन्त धनवान् दोग तभी होता है जब कि लरनास्त्र स्थान से यारहवे स्थान को कोई प्रह न देखता हो ।

अथ लरनपदाद्वादश स्थानफलं कथयति,

तत्र व्यापिक्ययोगमाह—

नीचे ग्रहदृग्योगाद्व्ययाधिक्यम् ॥ ६ ॥

यिऽ—नीच इति । नीचे=सानपदाद् द्वादशे, प्रहर्योगात्=शुभपापयोगात्, शुभपापयोः केनविद् दृष्टियोगभ्या, व्ययाधिक्यं=व्ययप्रत्युर स्यात् । अथ विवेदः—लरनपदाद्वादशे पापप्रहेण युतहृष्टे युतिसितकार्ये व्ययः शुभप्रहेण युतहृष्टे शुभकार्ये व्ययः, भिप्रहेण युतहृष्टे भिश्वकार्ये व्यय इति ।

भाषा—लरन प्रह से द्वादश स्थान शुभ प्रह या पाप प्रह से युत या दृष्ट हो तो अधिक दर्श होता है । अर्थात् पापप्रह से युत या दृष्ट हो तो पापकार्य में शुभ प्रह से युत या दृष्ट हो तो शुभ कार्य में, शुभ प्रह और पाप प्रह दोनों से युत या दृष्ट हो तो शुभकार्य और पापकार्य दोनों में व्यय होता है ॥

अथ कर्मादपवाधिव्यमित्याह—

रविताद्वृशुक्लेन्दपात् ॥ ७ ॥

चन्द्रहृष्टी निश्चयेन ॥ - ॥

३ पादः] सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाद्यसहितम् । ४७

बुधेन ज्ञातितो विवादाद्वा ॥ ६ ॥ गुरुणा कर्मलात् ॥ १० ॥

कुजशनिभ्यां श्रातुमुखात् ॥ ११ ॥ पतैर्व्ययं एव लाभः ॥ १२ ॥

विष—रविराहुशुकैरिति । रविराहुशुके=लग्नपदाद्वादशे सूर्यराहुसिते मुते इष्टे था, नृपात्=रात्रो व्ययो भवति ।

चन्द्रदृष्टौ=लग्नपदाद्वादशे चोमेन दृष्टौ, निष्ठयेन=निष्ठितस्त्रोण नृपाद्वयो भवति ।

बुधेन=लग्नपदाद्वादशे बुधेन दृष्टौ सति, ज्ञातिभ्य =दायादेभ्य, विवादा-द्वा=कहलाद्वारा व्यय, ज्ञातिनिमित्तात्कलद्वाद्वा व्यय इत्यर्थ ।

गुरुणा=लग्नपदाद्वादशे गुरुणा दृष्टौ, कर्मलात्=कर्म्याजेन व्ययो भवति ।

कुजशनिभ्यां=लग्नपदाद्वादशे मङ्गलशनिभ्या दृष्टौ, श्रातुमुखात्=श्राश्रादि-द्वारा धनद्वयो भवति ।

एतै=पूर्वोच्चैर्ग्रहैर्व्यय, एव लाभ =लाभस्थैर्ग्रहैरव लाभो भवति ।

भाषा—लग्न पद से द्वादश स्थान में रवि, रात्रु या शुक हो तो राजा वे द्वारा खर्चो होता है ।

लग्न पद से द्वादश स्थान में चन्द्रमा की दृष्टि पड़े तो निश्चय कर के राजा वे द्वारा व्यय होता है ।

लग्न पद से द्वादश में बुध हो तो दायाद के द्वारा बल्ल से व्यय होता है ।

लग्न पद से द्वादश स्थानमें शूहस्ति हो तो अपने हाथ के द्वारा व्यय होता है ।

लग्न पद से द्वादश स्थान में मङ्गल औराशनि हो तो भाईं आदि के द्वारा व्यय होता है ।

इस तरह लग्न पद से द्वादश स्थानमें जिन प्रह्लों से जिन के द्वारा व्यय कहा गया है, प्रकादश में उन प्रह्लों से उन्हीं के द्वारा लाभ करना चाहिए ॥ १-१२ ॥

अथोदरामययोगमाह—

लाभे रात्रुतेतुभ्यामुदररोग ॥ १३ ॥

विष—लाभ इति । लाभे=पदात्सम्भे, रात्रुतेतुभ्यां=रात्रुणा केतुना या युते, उदररोग=उदरामय इत्यात् ॥ १३ ॥

भाषा—लग्न पद से सक्षम में रात्रु या केतु हो तो उदर रोग होता है ॥ १३ ॥

अथ वार्ष्यक्यविहयोगमाह—

तत्र केतुना भटिति ज्यानि लिङ्गानि ॥ १४ ॥

विं—तत्रेति । तत्र = पदाद्वितीये, केतुना = केतुना युक्ते, जटिति=शीर्पं, ज्यानि लिङ्गानि=वार्ष्यक्यचिह्नानि भवन्ति ॥ १४ ॥

भाषा—पद से द्वितीय स्थान में केतु पड़े तो जलदी ही (योदी अवस्था में ही) बुढापे के चिह्न हो जाते हैं ॥ १४ ॥

अथ श्रीमद्योगमाह—

चन्द्रगुरुशुक्रेषु श्रीमन्तः ॥ १५ ॥ उच्चेन वा ॥ १६ ॥

विं—चन्द्रगुरुशुक्रेष्विति । चन्द्रगुरुशुक्रेषु=पदाद् द्वितीये चन्द्रगुरुशुक्रेषु स्थितेषु, श्रीमन्तः=वृषास्तस्तमाना वा भवन्ति ।

वा=अथवा, उच्चेन=पदाद् द्वितीये उच्च गतेन शुभेन पापेन वा, श्रीमन्तो भवन्ति ॥ १५-१६ ॥

भाषा—पद से द्वितीय में चन्द्र, गुरु, शुक्र हों तो जातक श्रीमान् होता है ।

अथवा पद से द्वितीय में स्थित शुभ प्रह या पाप प्रह उच्च का हो तो भी श्रीमान् होता है ॥ १५-१६ ॥

अत्र वृद्धा—

आरुदात् पषुभे पापे चौर स्याच्छुभवन्ति ।

आरुदाद्वापि सौम्ये तु सर्वदिश्यधिपो भवेत् ॥

सर्वज्ञस्तथ जीवे स्यात्करिवादी च भार्गवे ।

भाषा—भारद स्थान से द्वितीय में पाप प्रह हो और शुभ प्रह नहीं हो तो चोर होता है । अगर आरुद स्थान से द्वितीय में शुभ हो तो सब दिशाओं का अधीक्षा होता है । अगर शुहस्पति हो तो सर्वज्ञ होता है । अगर शुक्र हो तो कवि और यादी होता है ।

अथावशेषफलकथने किञ्चिदाह—

स्वांशवदन्यत्प्रायेण ॥ १७ ॥

विं—स्वांशवदिति । शन्यतः=अश्रानुक्षफलं, स्वांशवत्=कारकोशपात् कारकोशप्रकरणे यथोर्फलं तद्वदप्रापि योग्यम् ।

अथ “प्रायेण्युक्या पदाधिकारे कथितमायफलमपि क्वचित्स्वांशवत् भवति यद्यविद्यम् ॥ १७ ॥

भाषा—अवशेष पल जिस प्रकार आत्मशारक के मरणश में कहा गया है, उसी प्रकार बहुधा कर्त्ता दानारुद्ध स्थान से समग्रता चाहिये । शार्यत् जिस ३ प्रकार

आत्म कारक के नवांश से ॥जिस २ स्थान में जो २ फल कहा गया है । उसी प्रकार समाहृष्ट स्थान से वसो २ स्थान में उसी २ फल का विचार करना चाहिए ।

यहाँ पर “प्रायेण” इस शब्द से वाचक के अभाव इन्हें पर स्वांशवत् फल समझना चाहिये अन्यथा नहीं यह स्पष्ट होता है ॥ १७ ॥

अथ पुनरनेकान् योगानाह—

लाभपदे केन्द्रे विकोणे वा श्रीमन्तः ॥ १८ ॥ अन्यथा दुःस्थे ॥ १९ ॥ केन्द्रविकोणोपचयेषु द्वयोर्मैत्री ॥ २० ॥ रिपुरोगचिन्तासु वैरम् ॥ २१ ॥

वि—लाभपद इति । केन्द्रे विकोणे=लग्नाह्वारकेन्द्रे विकोणे वा, लाभपदे=रात्मभावपदे स्थिते सति, श्रीमन्तः =लक्ष्मीवन्तो भवन्ति ।

दुःस्थे=लग्नाह्वारात् सप्तमभावपदे पष्ठाष्टमव्ययस्थे सति, अन्यथा=दरिद्रा भवन्ति ।

केन्द्रविकोणोपचयेषु=लग्नपदात्सप्तमभावपदे विकोणोपचयेषु पष्ठव्यतिरिक्तेषु स्थिते सति, द्वयोः=छीपुरुसोर्मध्ये, मैत्री=मित्रता स्यात् ।

रिपुरोगचिन्तासु =लग्नपदाद्वादशाष्टमपञ्चेषु स्थिते सप्तमभावपदे, वैरं =द्वयोर्निरन्तरं शाश्रुता स्यात् । एवं लग्नपदात् तृतीयपश्चादिभावपदराशिवशात् आग्ने, पितृपुत्रयोरन्ययोश्च मैत्री विचारो विधेयः ॥ १८-१९ ॥

भाषा—लग्नपद से केन्द्र (१४१४१०) विकोण (१६) में सप्तम भाव का पद हो सो जातक लक्ष्मीवान् होता है ।

लग्नपद से सप्तम भाव का पद (१४१४१२) में यहे तो जातक ददित होता है ।

लग्नपद से केन्द्र, विकोण और पष्ठ रहित उपचय (३१०११) में सप्तम भाव का पद पहुँचे सो खी पुरुष दोनों में मित्रता होती है ।

अग्न (१२१४१६) इन स्थानों में से शिरी स्थान में सप्तम भाव का पद पहुँचे खी पुरुष, दोनों में शाश्रुता होती है ।

इसी तरह तृतीय पश्चम भाव आदि के यश भाई भाई, पिता पुत्र, और अन्य में भी मैत्री तथा वेर समझना चाहिए ॥ १८-१९ ॥

अत्र शुद्धा—

लग्नाहृष्टं दारपदे मिथः वेन्द्रगते यदि । विलाभे वा विकोणे वा तदा राजान्यथाष्टमः ॥ एवं पुत्रादिभावानामपिपित्रादिमित्रता । जातकद्वयमालोऽप्य चिन्तनीर्य विवश्चौः ॥

भाषा—स्पष्ट है ।

अथान्यथानपियोगानाह—

पत्नीलाभयोर्दिष्ट्या निरामासार्गलया ॥ २२ ॥

विं०—पत्नीलाभयोरिति । पत्नीलाभयोः=लग्नपदतत्सत्तमयोः, निराभा-सार्गलया=निष्प्रतिबन्धार्गलयां, दिष्ट्या=भाग्यं भवति (दिष्ट्या समुपजोषं चेत्या-नन्दे—इत्यमरः) ।

भाषा—लग्नपद और उस से सम्म में अप्रतिबन्ध अर्गला पड़े तो जातक भाग्यवान् होता है ॥ २३ ॥

अत्र वृद्धाः—

चस्य पापः शुभोवापि ग्रहस्तिष्ठेच्छुभार्गले । तेन इत्रैक्षितं लग्नं प्राबल्यायोपकृत्वते ॥
यदि पश्येद्ग्रहस्तन्त विपरीतार्गले स्थितः ।

भाषा—जिस जातक के जन्म पत्र में प्रतिबन्ध रहित अर्गला में शुभग्रह या पापग्रह स्थित हो और वही पह आरुडलग्न को देखना हो तो भाग्य योग की प्रबलता होती है । अगर प्रतिबन्ध सहित अर्गला में ग्रह स्थित हो तो भाग्य योग की प्रबलता नहीं होती है ।

शुभार्गले धनसमृद्धिः ॥ २३ ॥

शुभार्गल इति । शुभार्गले=लग्नपदतत्सत्तमयोः शुभग्रहकृतार्गले प्रतिबन्ध-कशुकेऽपि, पनशृद्धिः=पनशृद्धिःस्यात्, अन्यथा भनवत्वमाग्रमेव स्पात् ।

भाषा—लग्नपद और उस से सम्म हन दोनों स्थानों में शुभग्रह कृत अर्गला प्रतिबन्धक युक्त भी हो तो धन की वृद्धि होती है । उस से पह सिद्ध होता है कि लग्नपद और उस से सम्म में पापग्रह कृत अर्गला हो तो सामान्य स्वय से धन होता है ।

अथ राजयोगानाह—

जन्मकालघटिकास्वेकहृष्टातु राजानः ॥ २४ ॥

पत्नीलाभयोदय राद्यंशाकहृष्टाणीर्च ॥ २५ ॥

तेष्वेकस्मिन्न्युने न्यूनम् ॥ २६ ॥ एवमंशाते हृष्टाणातदय ॥ २७ ॥

विं०—जन्मकाल इति । जन्मकालघटिकामु=जन्मलग्न-होरालग्न-पटी-लग्नेषु, एकरूपातु=केनविदेकेन प्रदेण देष्टु, राजानः=भूपतयो भवन्ति ।

पत्नीलाभयोदय=जन्मलग्न-होरालग्न-पटीलग्न-कुण्डलीषु लग्नसम्भावयोः,

राद्यंशाकहृष्टाणीर्च=राद्यंशकहृष्टाणीरेषुप्रदृष्टयोदय राजानो भवन्ति ।

तेषु=जन्मलग्नहोरालग्नपटीलग्नेषु विषु तेषु राद्यंशकहृष्टाणीषु एकहिम-न्यूने, न्यूने=राजयोगस्य न्यूनत्वं इयात् ।

एवं यथा जन्मकालघटिकासु एकदद्यासु राजयोगस्तयैव, थंशतः, इक्षण-
तद्वच विचारः कार्यः ।

भाषा—जन्मस्तन, होरालग्न, घटीलग्न ये तीनों किसी एक ग्रह से देखे जायें
सो वह राजा होता है ।

अथवा जन्मस्तन कुण्डली, होरालग्न तुष्टिली, घटीलग्न कुण्डली इन तीनों
कुण्डलियों में लग्न और सप्तम भाव पर राशि, नवांश और द्वेष्पत्रण के बाबा एक
ग्रह की हाथि से भी राजयोग होता है ।

पूर्वोक्त जन्मलग्न कुण्डली, होरालग्न कुण्डली, घटीलग्न कुण्डली इन तीनों
कुण्डलीयों के राशि, अंश और दक्षण के बाबा एवं और सप्तम पर एक ग्रह की
भी हाथि हो तो राजयोग होता है ।

अगर उन में एक भी न्यून हो तो राजयोग भी न्यून होता है । इसी सबूत
जन्मलग्न, होरालग्न, घटीलग्न तीनों लग्न की नवांश कुण्डली और द्वेष्पत्रण
कुण्डली से भी राजयोग का विचार करना चाहिए ।

अथ वृद्धा —

विलम्बघटिकालग्नहोरालग्नानि पश्यति । उच्चग्रहे राजयोगो लग्नदद्यमश्यापि वा ॥
राशीर्हकाण्डोऽशाच राशीर्दाद्यापि वा । वृद्धा राशिद्वकाणाम्ब्या लग्नदद्या तु चोगदः ॥

भाषा—जन्मलग्न, घटिकालग्न इन तीनों को उच्चस्थित एक
ग्रह हेतुता हो तो राजयोग होता है । अथवा उक्त तीनों लग्न में किसी दो को
उच्च स्थित ग्रह हेतुता हो तो राजयोग होता है । राशि, नवांश और द्वेष्पत्रण इन
तीनों के बाबा वा राशि और नवांश के बाबा वा राशि और द्वेष्पत्रण के बाबा नामः
प्रकार के राजयोग होते हैं ।

अथ ग्रन्थान्तरादाकृत्य राजयोगाचाह—

नभद्वराः पश्य निजोक्तसंस्था वस्य प्रसृती स तु सार्वमीमः ।

यथः स्वतुङ्गादिगताः स राजा राजामजान्मस्य सुतीऽत्र मन्त्री ॥

भाषा—जिस जातक के पांच ग्रह उच्च के हों वह उच्चवर्ती राजा होता है ।
जिस के सीन ग्रह उच्च के हों तो भी वह मनुष्य राजा होता है । इस योग में राजा
के घर में उत्पन्न लकड़ा ही राजा होता है, अगर राजवंश में उत्पन्न न हो तो वह
मनुष्य मन्त्री होता है ॥

अन्यथ— स्वोचे भूर्तिगतेऽमृतांशुलनये नके उवके शानी ।

नामे वाग्भिषेन्दुभार्गवयुते स्वाजन्म भूमीपते: ॥

भाषा—अगर लगन में उच्च का बुध हो, थंकी शनि मंकर राशि का हो वह स्पति, चन्द्रमा और शुक्र मीन में हों तो जातक राजा होता है ।

अन्यथा— तुहस्तिथी शुक्रवृष्टि विलग्ने नके च वके धनुषीज्यंचन्द्री ।

प्रसूतिकाले कियती भवेतामाखण्डलो भूमितलेऽपि संस्थः ॥

भाषा—जिस के उच्च का बुध और शुक्र लगन में हों, मङ्गल मंकर का हो, शुहस्पति और चन्द्रमा धनु में हों तो वह मनुष्य एक्षीतल में हृदय के समान होता है ।

अन्यथा— दिनाधिराजे मृगराजसंस्थे नके सबके कलशोऽर्कसुनौ ।

पाठीरलग्ने शशिना समेते भूषीपतेर्जन्म महीजसः स्यात् ॥

भाषा—अगर सिंह में रवि हो, मंकर में मङ्गल हो, कुम्भ में शनि हो, मीन में चन्द्रमा हो तो जातक बड़े तेजस्वी राजा होता है ।

अन्यथा— कर्णेऽर्कचन्द्री सुरराजमन्त्री शश्रुस्तितत्त्वापि बुधः स्वतुत्ते ।

कथिद्वूली लग्नगतः स राजा राजाधिराजाभिधया समेतः ॥

भाषा—जिस के कक्ष राशि में सूर्य, चन्द्र, और शुहस्पति हों, बुध उच्च का होकर पठ स्थान में हो, कोई बली प्रह लगन में हो तो वह मनुष्य राजाओं को भी राजा होता है ॥

अन्यथा— महीमुते मेषगते तनुस्थे वृहस्पती वा तनुगे स्वतुत्ते ।

योगद्वयेऽहिमन् नृपती भवेता जितारिपक्षी नृपनीतिपक्षी ॥

भाषा—जिस के मेष राशि का मङ्गल लग्न में ढीठा हो या शुहस्पति उच्च का होकर द्वय में ढीठा हो तो वह राजा होता है; अपने शशुभिं को जीतता है और राजनीति में चतुर होता है ।

अन्यथा— मुहर्निजोच्ये यदि केन्द्रशाली राजयालये दानराजपूज्यः ।

प्रसूतिकाले किल तस्य मुदा चतुः समुद्रावधि गामिनी स्यात् ॥

भाषा—जिस के उच्च का शृहस्पति केन्द्र में ढीठा हो, दशम स्थान में शुक्र हो उस राजा की मुद्रा चारों समुद्र पर्यन्त छलता है, आर्यात् चक्रतीर्ती राजा होता है ।

अन्यथा— याचस्पतिः स्वोर्चचगतो विलग्ने मेषे दिनेनः शनिशुक्रसौम्याः ।

लाभादयस्थाः किल भूमिपालं तं भूतलस्याभरणं गृणन्ति ॥

भाषा—जिस के उच्च का शृहस्पति द्वय में धैश्र हो, मेष राशि में सूर्य धैश्र हो, लाभ स्थान में शनि, शुक्र और बुध यदे हों तो वह भूतल में सर्वोपरि राजा होता है ।

अन्यथा— देवाचार्यदिनेश्वरी विवरणी मेपूरणे क्षोणिजः

पुण्ये भार्गवसौभ्यशोतकिरणा यस्य प्रसूती हिताः ।

राजा स्यात् ॥

भाषा—जिस के बृहस्पति और मूर्ये मेष राशि का हो, दशम में मङ्गल हो, नवम स्थान में शुक्र, तुथ और चन्द्रमा हों तो वह मनुष्य राजा होता है ।

अन्यथा— मन्दो यदा न विलगनवर्ती मृगेन्द्रयुग्माजतुलाकुलीराः ।

स्वस्वामियुक्त जनयन्ति नाथ पाधोनिधिप्रान्तमहीतलस्य ॥

भाषा—जिस के मङ्गल राशि का शनि दर्शन में हो, सिंह, मिथुन, मेष, तुला और कर्क राशियाँ अपने अपने स्वामियों से युक्त हों तो वह मनुष्य समुद्र पर्वन्त पृथ्वी का राजा होता है ।

अन्यथा— मेषोदयेऽर्द्धच गुरुः कुलोरे तुलाभरे गन्दविधू भवेताम् ।

भवेत्सूपालोऽमलकीर्तिशालो भूपालमालापरिपालिताऽः ॥

भाषा—मेष का सूर्य दर्शन में हो, कर्क राशि में बृहस्पति हो, शनीश्वर और चन्द्रमा तुला का हो तो वह मनुष्य हृतना वदा राजा होता है कि अन्य राजा उस को आज्ञा को शिर से धारण करते हैं ।

अन्यथा— द्वन्द्वे दैत्यगुरुे निशाकरसुते मूर्ती स्वतुहे हिते

नवे चब्रशनैश्चरे च शफरे चन्द्रामोरेज्यी हिती ।

चोगोऽर्य प्रमवेत्प्रसूतिसमये यस्यावनीशो महान् ॥

भाषा—जिस के जन्मकाल में मिथुन का बृहस्पति हो, दर्शक का तुथ दर्शन में बैठा हो, वक्ती शनीश्वर मकर राशि में हो, मीन में चन्द्रमा और बृहस्पति हो वह मनुष्य वदा मारी राजा होता है ।

अन्यथा— पश्येन्मुगाद्वात्मजमिन्द्रमन्त्री विचित्रसम्पन्नपतिं करोति ।

नक्षत्रनाथोप्यधिभिश्चभागे शुक्रेण दृष्टे नृपतिं करोति ॥

भाषा—जिस के जन्म कुण्डली में तुथ को बृहस्पति देखेतो वह मनुष्य विचित्र सम्पत्ति वाला राजा होता है । चन्द्रमा अधिभित्र के घर में बैठा हो, शुक्र उस को देखता हो तो भी वह मनुष्य राजा होता है ॥

अन्यथा— खिंदोदयेऽर्द्धस्त्वजगो मृगाङ्गः शनैश्चरः कुम्भधरे सुरेज्यः ।

धनुर्धरे चेन्मकरे महीजो राजाधिराजो मनुजो भवेत्सः ॥

भाषा—जिस के दर्शन का रवि सिंह में हो, चन्द्रमा मेष में हो, शनि कुम्भ में हो बृहस्पति धनु में हो, मकर में मङ्गल हो तो वह राजा होता है ।

अन्यच—स्वोच्चे स्थितः सौमसुतः ससोमः कुर्यान्नरं मागधदेशराजम् ।

जन्माधिपो जन्मविलगनपो वा केन्द्रे वली नीचकुलेऽपि भूपम् ॥

कुर्यादुदारं सुतरो पवित्रं किमुत्रं वित्रं शितिपालवृत्रम् ।

भाषा—जिस के जन्मकाल में उच्च का बुध चन्द्रमा के साथ लौठा हो वह मनुष्य मगध देश का राजा होता है । जिस के जन्म राशि का स्वामि अथवा जन्म लगन का स्वामी वक्ता होकर केन्द्र में हो तो नीच कुल में बृत्पञ्च मनुष्य भी उदार और पवित्र शाचरण बाला राजा होता है । अगर राजवृत्र राजा हो तो इस में आश्रय की क्या बात ।

अन्यच—

मीने निशाकरः पूर्णः सर्वप्रदनिरीक्षितः । सार्वभौमं नरं कुर्यादिन्द्रतुल्यपराकमम् ॥

भाषा—जिस के जन्मकाल में मीन राशि का पूर्ण वली चन्द्रमा हो, ये पूर्व घट्टों की उस पर दृष्टि हो तो वह मनुष्य सार्व भौम होता है और उस का पराकम इन्द्र के समान होता है ।

अन्यच—मेषे दिनेशः शशिना समेतो यस्य प्रसूतो च तु भूपतिः स्यात् ।

स्वतुग्नेहायगती सितेज्यौ केन्द्रिकोणे कुरुतेष्य भूपम् ॥

भाषा—जिस के जन्मकाल में चन्द्रमा सहित सूर्य भेष में हो यह मनुष्य राजा होता है, जिस के शुक्र और बृहस्पति अपने अपने उच्चके होकर केन्द्र (१४३१०) वा ग्रिकोण (१११) में हो यह मनुष्य राजा होता है ।

अन्यच—कन्यालग्नगते युधे च विद्युधामात्ये च जायास्थिते ।

भौमार्की सद्गेऽक्षोऽरिभवनेऽम्बुद्धे भूगोन्नदने ।
राजा स्यात् ॥

भाषा—जिस के जन्मकाल में बुध कन्या लंगन में हो, बृहस्पति समस में हो, महाल और रवि तृतीय में हों, शनि छठे भवन में हो और शुक्र चतुर्थ में हो तो यह मनुष्य राजा है ॥

अन्यच—प्रसृतिकाले मदने धने च ध्यये विलगने यदि सन्ति योटाः ।

ते छत्रयोगं जनयन्ति तस्य प्राक् पुण्यपाकाभ्युरयो हि यस्य ॥

भाषा—जिस के जन्मकाल में समस, द्वितीय, द्वादश और लग्न इन स्थानों में सब प्रह हों तो उस को छत्र योग होता है, यह छत्र योग पूर्ण जन्मार्जित पुण्य के बल से होता है ॥

अन्यच—मीनोदये दानयराजपूज्यद्वन्द्वानरेज्यौ भवने बुलीरे ।

मेषेऽहमीमी गुपतिः कित र्षादारण्डलेनापि मुखां प्रयाति ॥

३ पाद] स्तोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाध्ययसहितम् । १०५

भाषा—जिस के जन्मलग्न मान में शुक बौद्ध हो, चन्द्रमा और वृहस्पति कर्क में हों, सूर्य और महूल मेष में हों तो वह मनुष्य हन्द के समान राजा होता है ।

अन्यथा—एकोऽपि शस्त्र शुभद स्वतुर्गे केन्द्रे पक्षो वलवान् प्रदृष्ट ।

सुतस्थितेनामरपूजितेन चेमानवो मानवनाथक स्थात् ॥

भाषा—जिस के जन्मकाल में एक भी शभप्रह उच्च का हो तथा केन्द्र में स्थित वलवान् सूर्य के डगर पश्चम स्थान स्थित वृहस्पति की हाइ हो तो वह मनुष्य मनुष्यों के नामक (राजा) होता है ॥

अन्यथा—चायासुतो नक्तविलग्नवातश्चात्ते प्रसूती यदि पुष्पयन्ती ।

लभे कुजो वै भृशुजोऽष्टमस्थ स्थादर्भूपतिर्भूपकुलप्रसूत ॥

भाषा—जिस के जन्मकाल में सकर एवम में शनैइचर बौद्ध हो, सूर्य और चन्द्रमा सप्तम स्थान में हों, महूल एकादश में हो और शुक अष्टम स्थान में हो तो राजा के बंध में उत्पन्न जातक राजा होता है ॥

अन्यथा—

मृगराशि परित्यज्य स्थितो लग्ने वृहस्पति । करोति पुथिवीनाथ महेमपरिचारितम् ॥

भाषा—जिस के जन्मकाल में लग्न में सकर राति को होइ कर अन्य किंही राति में वृहस्पति बठा हो तो वह मनुष्य राजा होता है । उस के दावाजे पर वडे वडे मत द्वापी बन्धे रहत हैं ॥

अन्यथा—सुरासुरेर्ज्यो भवतद्वत्युर्येऽत्यर्थं समर्थ पृथिवीपति स्थात् ।

कर्तस्थितो देवशुर सचन्द्र वामीरदेशाधिपतिं करोति ॥

भाषा—जिस के जन्मकाल म शुक और वृहस्पति चतुर्थ में हों वह मनुष्य राजा होता है ॥ अगर चन्द्रमा सहित वृहस्पति कर्क राति का हो तो वह मनुष्य कामीर देश का राजा होता है ॥

अन्यथा—सुरासुरेर्ज्यधितद्विरिन्दु स्वोच्चे स्थितो भूमिपति करोति ।

विलोक्यन्तं परिर्ज्यन्त द्रुत्रशजीवा जनयन्ति भूमम् ॥

भाषा—जिस के जन्मकाल में चन्द्रमा उच्च वा हो उस का वृहस्पति और शुक देखते हों तो राजा होता है । अगर पूर्ण चन्द्र को शुक, त्रिय और वृहस्पति देखते हों तो भी राजा होता है ।

अन्यथा—मेषे गही मर्तिगत प्रसूती वृहस्पतिद्वास्तगत फलवान् ।

रसातै व्योमगतं सिंहश्वेनमहीपतिगीतदिग्नन्तश्चीर्ति ॥

भाषा—जिस के जन्मकाल में मेष राति का वृहस्पति लग्न में हो, चन्द्रमा सप्तम में हो चतुर्थ वा दशम स्थान में शुक हो तो वह मनुष्य दिग्नन्त कार्ति वाला राजा होता है ॥

अन्यच्च—गुरुः कुलीपेपगतः प्रसूतौ स्मराम्बुयस्था भृगुमन्दमीमा ।

तद्यानकाले जलधेर्जलानि भेरीनिनादोच्छलनं प्रयान्ति ॥

भाषा—जिस के जन्मकाल में वृहस्पति कर्क का हो, शुक्र, शनि और मङ्गल क्रमशे सप्तम, चतुर्थ और दशम स्थान में हों तो उसके यात्रा समय में समुद्र के जल भी उठल उठते हैं ॥

अन्यच्च—वृषे शाशी लग्नगतोम्बुधस्थाय रवीज्यार्क्षुता भवन्ति ।

तददृष्ट्यात्रासु रजोन्धकारादृदिनेऽपि रानि.कुरुते प्रवेशम् ॥

भाषा—जिस के जन्मकाल में वृष का चन्द्रना होकर लग्न में हो, चतुर्थ, सप्तम, दशम स्थानों में क्रमशे रवि, वृहस्पति, शनि हों तो वह राजा होता है । जब उस की सवारी निकलती है तब इतनी धूल उड़ती है कि दिन में भी रात्रि के समान अन्धकार हो जाता है ॥

अन्यच्च—गुर्विन्दुसीम्या स्फुजितश्च यस्य मृत्तिंतिधर्मायगता भवन्ति ।

भृगेऽर्क्षसूत्रस्तुगोऽन्न नूनमेकातपत्रा स भुनक्ति धात्रीम् ॥

भाषा—जिस मनुष्य के जन्म काल में वृहस्पति, चन्द्रमा, बुध और शुक्र क्रमशे लग्न, तृतीय, नवम और एकादश स्थान में हों, शनि लग्न में मकर राशि का हो तो वह मनुष्य चक्रवर्ती राजा होता है ॥

अन्यच्च—कलाकलापाधिकृताधिशीला चन्द्रोभवेजजन्मनि केन्द्रवत्ती ।

विद्याय लग्नं कुरुते दृपालं लीलाविलासाकलितारिवृन्दम् ॥

भाषा—जिस के जन्म काल में वलवान् चन्द्रमा लग्न को छोड़ कर केन्द्र में हो वह मनुष्य राजा होता है, और शशुओं के समृह को जितता है ॥

अन्यच्च—केन्द्रगः सुरगुरु सशशाङ्को यस्य जन्मनि च भार्गवदृष्टः ।

भृपतिर्भवति सोऽतुलकीर्तिनीचगो यदि न करिवदिह स्यात् ॥

भाषा—जिस के जन्मकाल में चन्द्रमा सहित वृहस्पति केन्द्र में हो, उस के ऊपर शुक्र की दृष्टि हो, कोई प्रह नीच का न हो तो वह मनुष्य अतुल कीर्ति वाला राजा होता है ॥

अन्यच्च—धनस्थिता चौम्यसितामरेज्या मन्दारचन्दा यदि सुप्तमस्था ।

यस्य प्रसूतौ स तु भूपतिः स्यादरातिदन्तिक्षतिसिंह एव ॥

भाषा—जिस के जन्म काल में बुध, शुक्र और वृहस्पति धन स्थान में हों शनि, मङ्गल और चन्द्रमा सप्तम स्थान में हो वह मनुष्य राजा होता है, और शशु रूप हाथी को नाश करने में सिंह के समान होता है ॥

३ पाद] सोदाहरणा-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाद्यसहितम् । १०७

अन्यच्च—सिंहे कमलिनीभतो बुलीरस्यो निशापति ।

दृष्टी द्वावपि जीवेत पार्थिव बुहतस्तदा ॥

भाषा—जिस के जन्मकाल में सिंह राशि में सूर्य हो, चन्द्रमा कर्क राशि का हो, इन दोनों के ऊपर वृहस्पति की दृष्टि होती राजा होता है ।

अन्यच्च—बुध कर्त्तमाहडो वाक्पतिश्व घनुर्दरे ।

रमिभूतदृष्टी तौ बुहत पृथ्वीपतिम् ॥

भाषा—जिस के जन्मशाल में कर्क का सूर्य, घन का वृहस्पति हो, और इन दोनों के ऊपर सूर्य और मङ्गल की दृष्टि हो तो राजा होता है ॥

अन्यच्च—उदगविष्ठो भगुनश्च पदवात् प्राप्तिर्दक्षिणतस्त्वगस्त्य ।

प्रसूतिकाले स भवेदिलाया नाथा हि पाथोनिधिमेयलाया ॥

भाषा—जिस के जन्मशाल में ऊतर में वशिष्ठ हो पदिवम में शुक्र हो, पूर्व में वृहस्पति हो और दक्षिण में अग्नस्त्य हो यह मनुष्य समुद्र पार्थिव पृथ्वी का स्वामी होता है ।

अन्यच्च—लग्न लग्नपतिर्यान्वितयम् केन्द्रत्रिकोणे विवेष

पृच्छायानविवाहजन्मतिलके मुख्यान्वपाल ध्रुवम् ।

सच्छौले विभवान्वित गतहृज मुकातपत्रान्वितं

जात निम्नकुर्वेऽपि भूतिसहित शंसनित गर्गादय ॥

भाषा—अग्न लग्नेश वल शान् होकर केन्द्र या त्रिकोण या लाभ स्थान में औड कर लग्न को देखता हो तो प्रदून, जन्म, विवाह, यात्रा अथवा राज तिलक में मनुष्य को राजा करता है । और वह मनुष्य अच्छे स्वभाव वाला, घन से युक्त, रोग से रहित, मोती के दूत से युक्त होता है । यद्यपि नीच कुड़ में भी जन्म हो तथापि सम्पत्ति सहित होता है ।

अन्यच्च—लग्ने सौरिस्तया चन्द्र त्रिकोणे जीवभास्करौ ।

र्मस्यने भवेद्यौमो राजयोगस्तदा भवेत् ॥

भाषा—जिस के जन्मकाल में लग्न में शनि और चन्द्रमा हो, त्रिकोण में वृद्धस्पति और सूर्य हो दशम में मङ्गल हो तो राजयोग होता है ॥

अन्यच्च—दृश्यते युज्वते वापि चन्द्रजेन वृहस्पति ।

शिरसा शास्त्रं तस्य धारयन्ति भद्रीमृत ॥

भाषा—जिस के जन्मकाल में वृहस्पति, बुध से दृष्टि या युत हो उस की आज्ञा को राजा होग तिर से धारण करते हैं ॥

अन्यच्च—भौमः पश्यति जीवं जीवेन निरीक्षितो मद्वीपालः ।

मन्त्री परोपकारी देवैरपि सुपूजितो वालः ॥

भाषा—जिस के जन्म काल में मङ्गल वृहस्पति को देखे, मङ्गल पर वृहस्पति की हृषि हो तो वह मनुष्य मन्त्री परोपकारी और देवता से भी पूजिन होता है ।

अन्यच्च—शफरी युग्मे चन्द्रः कर्कटे च वृहस्पतिः ।

शुकः युग्मे भवेशाजा गजाशिसमृद्धिभाक् ॥

भाषा—जिस के जन्म काल में भीन अथवा मिथुन राशि में चन्द्रमा, वक्र में वृहस्पति और कुन्भ में शुक हो तो वह मनुष्य हाथीं, घोड़ा और नाना प्रकार के घन से पुक राजा होता है ॥

अन्यच्च—नीचरिथतो जन्मनि यो भ्रह्मः स्यातशिनाथश्च तदुच्चनाथः ।

भवेत्तिर्थकोणे यदि केन्द्रपतीं राज भवेद्दार्मिकचक्रवतां ॥

भाषा—जिस के जन्म काल में जो यह नीच का हो उस राशि का जो स्वामी उस का जो उच्च स्थान उस उच्च का जो स्वामी हो यह आगर श्रिकोण अथवा केन्द्र में हो हो वह मनुष्य चक्रवतीं राजा होता है ॥

अन्यच्च—गूर्हों वा पश्यमस्याने यदा जीवो भवेत्तदा ।

दशमे चन्द्रमा वापि राज्याण्यक्षस्तदा भवेत् ॥

भाषा—जिस के जन्मकाल में लज्जन अथवा पश्यम स्थान में वृहस्पति हो दशम स्थान में चन्द्रमा हो तो यह भनुष्य राजा होता है ॥

अन्यच्च—एक ऐसे भ्रह्मः स्वर्णे वैरोत्तमगतो यदि ।

यद्यान्मित्रांश्टः करोति य मद्वीपतिम् ॥

भाषा—जिस के जन्मकाल में एक भी यह अपने घर का अथवा अपने यमोत्तम का हो तो यह मनुष्य राजा होता है ॥

अन्यच्च—केन्द्रे विलगननाथः धेष्ठुयलो गानवाभिपि मुहोते ।

षष्ठ्येषानभ्रमण्डेष्टे लग्ने भवेन्मद्वीपालः ॥

भाषा—जिस के जन्मकाल में छग्नेता दली होकर केन्द्र स्थान में देश हो यह मनुष्य राजा होता है । अगर सब यह स्थान को देखते हों तो भी राजा होता है ।

अन्यच्च—येष्ठस्यी भनुभीभी श्यशिरिगृगृजी भीममन्दी शृगस्यी

कन्यादां रोदिषेदो रविशिदमनः कर्त्ते जीवचन्द्री ।

भीनस्यी शुक्लीरो दुष्टानिष्टुत्री गन्मये रात्रुषांस्ये
यो योगेष्टेषु जातः य भवति मनुष्मो भूमिपालो धनी या ॥

भाषा— सूर्य और महूल मेप में हों, वृष राशि में चन्द्रमा और शुक्र हों, मध्य राशि में महूल और शनि हों, कन्या में शुक्र और राहु हों, कक्षे राशि में वृद्धस्पति और चन्द्रमा हों, मीन राशि में शुक्र और शूद्धस्पति हों, शुला राशि में शनि और शुक्र हों, मिथुन में राहु और शुक्र हों इन योगों में जो जातक लैदा लेता है वह राजा अथवा धनी होता है ।

अन्यच्च—आकाशमन्दिरगतस्तत्त्वः स्वगेहे उत्तर्योन्नरं नृपतिचक्रवृत्ते: मुमेव्यम् ॥

भाषा— जिस के जन्मकाल में छनेश इत्यम स्थान में अपने घर का हो उस मनुष्य की सेवा राजा लोग बरते हैं ॥

अन्यच्च—मर्त्यानां जन्मकाले विवुधपतिगुरुर्दानवेशस्य मन्त्रो

स्वस्यो मूलप्रिकोणे दिवकररहिते संयुते तुहराशी ।

पुत्रे पाताललम्ने मनसिङ्गनिलये धर्मकर्मायकोश्चे

ज्ञानामोदप्रयुक्तः स भवति मनुजो भूपमान्यो घनाञ्चः ॥

भाषा— जिस के जन्मकाल में वृद्धस्पति और शुक्र अपने घर में हों, सूर्य रहित हों, वृद्ध राशि में हों, पञ्चम, चतुर्थ, प्रथम सप्तम, नवम, दशम, एकादश, द्वितीय स्थानों में हों तो राजमान्य धन से शुक्र होता है ।

अन्यदप्याह—

सुकृतनिलयनाये केन्द्रगे जन्मलग्नात्प्रभवति यदि योग सार्वभौमामिधानः ।

यद्युत्तरगुणपूर्णो तुदिमान्दानशीलो भवति नृपतिवयो धार्मिको भूपभूरः ॥

भाषा— जिस के जन्मकाल में भाग्य स्थान के स्वामी जन्म कान से केन्द्र स्थित में स्थित हो तो साथ भौम राजा होता है । इस योग में उत्पत्ति मनुष्य वहुत गुण से पूर्ण, तुदिमान्, दानी, धर्मात्मा, तथा राजाओं का भी राजा होता है ।

अन्यच्च— चन्द्रो निशायो स्वसुहृष्टवांशे शुक्रेण दृष्टे नृपति करोति ।

स्वाशेऽधिमिनीशागतो यदि स्याजजीवेन दृष्टः कुरुतेऽहि भूपम् ॥

भाषा— जिस के जन्म समय राशि में हो चन्द्रमा अपने मित्र के नवांश में स्थित हो शुक्र की उस पर दृष्टि हो तो मनुष्य राजा होता है । अगर दिन में जन्म हो चन्द्रमा अपने नवांश या अधिमित्र के नवांश में हो उस पर वृद्धस्पति की दृष्टि हो तो भी राजा होता है ।

अन्यच्च— जीवो तुष्यो मृगुसुतोऽथ निशाकरो वा यमेविशुद्धतनवः स्फुरदंशु जाला ।

मित्रैर्निराशितमुक्ता यदि सुतिकाले कुर्वन्ति देवसदृशं शृणति महान्तम् ॥

भाषा— जिस के जन्मकाल में लैदा वल शुक्र वृद्धस्पति, तुष्य, शुक्र और चन्द्रमा

धूर्मस्थान में हों मिथ्र ग्रहों से वृष्ट अथवा शुक्र हों तो वह मनुष्य बड़ा प्रतापी राजा होता है ।

अन्यच्च—उपचयगृहस्थो जन्मतो यस्य चन्द्रः ।

स भवति नरनाथः शक्तुल्यो बलेन ॥

भाषा—जिस के जन्मकाल में चन्द्रमा उपचय गृह (३, ६, १०, ११) में स्थित हो वह मनुष्य राजा होता है, और उल में इन्द्र के समान होता है ।

अन्यदप्याद—

गुरुसितवृधलग्ने सप्तमस्थेऽर्कपुत्रे विषयति दिवसनाथे भोगिना जन्म विद्यात् ।

भाषा—जिसके वृहस्पति, शुक्र तथा शुभ लग्न में, सप्तम स्थान में शनि और दशम स्थान में सूर्य हो तो भोग करने वाला होता है ।

अन्यच्च—धने व्यये तथा लग्ने सप्तमे च यदा ग्रहाः ।

छत्रयोगस्तदा ज्ञेयो वंशयानां नायको भवेत् ॥

भाषा—अगर द्वितीय, द्वादश, दत्तन और सप्तम इन चार स्थानों में सय यह हों तो छत्र योग होता है, इस योग में उत्तरम् मनुष्य अपने कुल में श्रेष्ठ होता है ।

अन्यदप्याद—

यदि भवति च केन्द्री याभिनीनाथ एव प्रददति प्रियमार्थोऽपुत्रिणी वा सुख्याम् ।

धनकनकसमृद्धि माणिक हीररत्न रत्नयति सृगनामेऽचन्द्रैश्चर्चिताहम् ॥

भाषा—अगर केवल एक चन्द्रमा केन्द्रवत्ती हो तो प्रिया, पुण्यती और सुन्दर रूप वाली मार्यो मिलती है । धन, सुर्वण, मणि, हीरा, रत्नों की समृद्धि होती है सदा फस्तुरी मिथित चन्द्रन से शोभित शरीर रहता है ।

अन्यच्च—स्वक्षेप्रस्थो यदा जीवो शुष्पः सौरिध नैद्रवेत् ।

तस्य जातस्य दीर्घायुः सम्पदद्य पदे पदे ॥

भाषा—अगर वृहस्पति, शुभ और दशैश्चर स्वक्षेप्रस्थ हों तो उस मनुष्य को दीर्घायु कहना चाहिए, और पद पद में सम्पत्ति मिलती है ।

अन्यच्च—केन्द्रप्रिकोषेषु भवन्ति सौम्या दुर्दिक्यलामारिगताऽच पापाः ।

यस्य प्रयोगेऽप्यष जन्मकाले ध्रुवं भवेत्स्य महीपतित्वम् ॥

भाषा—जिस के जन्मकाल या पाप्रा के समय में केन्द्र अथवा ग्रिहोण में शुभ यह हों, ३, ६, ११ इन स्थानों में पाप पद हों उस को अवश्य राज्य मिलता है ।

अन्यच्च—मीने वृहस्पतिः शुक्रशन्द्रमाश्च यदा भवेत् ।

तस्य जातस्य राज्यं स्यात् पली च बहुपुत्रिणी ॥

भाषा—यृहस्पति, शुक और चन्द्रमा भीन का हों तो उस जातक को राज्य मिलता है, और उस को रुपी बहुत पुत्र दीदा करने वाली है ।

अन्यच्च—नीचस्थिता जन्मनि ये प्रहेन्द्रा. स्वोच्चस्थिता राजसमानभाग्याः ।

उच्चस्थितार्थेदपि नीचमाणा प्रदा न युर्वन्दित तथैव भाग्यम् ॥

भाषा—जन्मकाल में नीच स्थित ग्रह अपने उच्च के नवांश में हों तो वे राजा के समान भाग्य को देते हैं । अगर उच्चस्थित ग्रह अपने नीच के नवांश में हों तो वे अच्छा भाग्य नहीं करते हैं ।

- अन्यच्च—विद्यास्थाने यदा शौम्यं कर्त्तस्थाने च चन्द्रमाः ।

धर्मस्थाने यदा जीवो राज्योगस्तदा भवेत् ॥

भाषा—अगर पृथ्वी स्थान में तुष्ट कर्क राशि में चन्द्रमा हो धर्म स्थान में यृहस्पति हो तो राज योग होता है ।

अन्यच्च—उच्चस्थानगता सौम्याः केन्द्रस्थाने भवन्ति चेत् ।

युर्वं राज्यं भवेतस्य यदि नीचसुतो भवेत् ॥

भाषा—अगर उच्चस्थान स्थित शुभग्रह केन्द्रस्थान में हों तो नीच जात का लड़का भी निश्चय करके राज्य पाता है ।

अन्यच्च—धनुमीनतुलामेषपूर्णकुम्भोदये शनौ ।

चार्वहो तृपतिर्विद्वान् पुरप्रामाप्रणीर्भवेत् ॥

भाषा—धनु, भीन, तुला, मेष, मरु या कुम्भ का शनि लग्न में हो तो अच्छे शरीर वाला पृष्ठित और पुर घाम वासियों में अप गण्य होता है ।

अन्यच्च—लग्नात्पृष्ठ उत्ताप्ते यदि शुभाः पापैरयुक्तेश्चिताः ।

मन्त्री दण्डपतिः शितेरधिपतिनेता वहूनां पतिः ॥

भाषा—लग्न से पृष्ठ और अष्टम स्थान में शुभग्रह हों तथा पापग्रह से युक्त या इट न हों तो मन्त्री या राजा या सेनापति होता है ।

अन्यच्च—केन्द्रे विलग्ननाथः श्रेष्ठबलो मानवाधिर्पं चुरुते ।

भाषा—बलवान् लग्न के स्त्रामी केन्द्र में हो वो राजा होता है ।

अन्यच्च—दिवौकसापतेर्मन्त्री शुर्प्योत्पश्यन्वुर्धं तृपम् ।

भाषा—जिस के जन्म काल में यृहस्पति तुष्ट को देखता हो वह मनुष्य राजा के मन्त्री होता है ।

अन्यच्च—यदि पश्यति दानवाचिंतं वचसामधिपस्तदा तृपतिः ।

भाषा—जिस के जन्मकाल में शृङ्खला स्थिति शुक्र को देखता हो वह मनुष्य राजा होता है ।

अन्यच्च—दिव्यलीवरकाष्ठनाम्यरयुतः पण्डित्यलक्ष्मीमयः

शशत्कौतुकगीतनृत्यरसता व्यापारदीक्षागुरुः ।

पुन्नप्रातृजनान्वितः स्थिरमतिः सत्कर्मेष्ट्रियन्वितो

जीवे केन्द्रगते भवेत्तिज्ञसुखी सत्कर्मकारी नरः ॥

भाषा—जिस के जन्मकाल में शृङ्खला स्थिति केन्द्र में हो वह मनुष्य दिव्य छीं, सुवर्ण, घण्टा पण्डित्य और लक्ष्मी से युक्त होता है । सर्वदा कौतुक, गीत, नृत्य, रसिकता, व्यापार और दीक्षा में प्रबोध होता है । पुत्र, और भूत्यों से युक्त, स्थिरमति, सत्कर्म में प्रीति करने वाला तथा अपने पराक्रम से सुखी होता है ।

अन्यच्च—यनवान् प्राज्ञः शूरो मन्त्री वा दण्डनायकः पुष्पः ।

दशमस्थे रवितनये दृन्दपुरप्रामनेता स्यात् ॥

भाषा—जिसके जन्मकाल में दशम स्थान में शनि हो वह मनुष्य धनवान्, पण्डित, शूर, मन्त्री, दण्डनायक अथवा नगर और प्राप्त कर नेता होता है ।

अन्यच्च—महीमुतः केन्द्रसमाधितो बली रवी दुवाचस्पतिभिर्निरीक्षितः । भवेन्द्रपेन्द्रः ॥

भाषा—जिस के जन्म काल में मङ्गल वलवान् होकर केन्द्र में छोड़ा हो, सूर्य, चन्द्रमा और शृङ्खला स्थिति उस को देखते हों तो राजा होता है ।

अन्यच्च—कुत्तिका—रेवती—हथाती—पुष्पे स्थायी मृगोऽसुतः । तुपं करोति ॥

भाषा—जिस के जन्म काल में कुत्तिका, रेवती, हथाती या पुष्प नक्षत्र में शुक्र स्थित हो तो वह मनुष्य राजा होता है ।

अन्यच्च—लग्नपो धनपद्मैव धनभावस्थितो यदि ।

तदा कोटिमितं द्रव्यं करोति नरमन्दिरे ॥

भाषा—जिस के जन्म काल में दग्धनेश और धनेश दोनों धन भाव में स्थित हो वह मनुष्य करोड़ पति होता है ।

अन्यच्च—एकः शूक्रो जननसमये लाभसंस्थे च केन्द्रे

जातो वै जन्मराशी यदि सहजगतः प्राप्यते वा त्रिकोणे ।

विद्याविशानयुक्तो भवति नरपतिदिव्यविख्यातकीर्ति—

दीनी मानी च शूरो वहुगुणसदितः सदूगजैः सेव्यमानः ॥

भाषा—जिसके जन्म समय में केवल शुक्र एकादस, केन्द्र, जन्म, पराक्रम अथवा त्रिकोण में हो तो वह मनुष्य विद्या, विज्ञान से युक्त, संसार में प्रसिद्ध राजा, दानी,

३ पाद] सोदाहरण-विमला-सस्त्रत-हिन्दी-टीकाद्वयसहितम् । ११३

नानी, दुर, बहुत गणों से युक्त और सुन्दर हाथियों से युक्त होता है।

अन्यत्र-एकोऽपि वैद्यमध्यने नवपश्चमे वा भास्वन्मयखिमलीकृतदिग्विमाग ।

नि शेषदोपमपद्मय शुभप्रसृत दीर्घायुप विगतरोगभम करोति ॥

भाषा—जिस के जन्म काल में एक भी वलवान् तेजस्वी प्रह केन्द्र अथवा श्रिकोण में हो तो सम्पूर्ण दोपों को नाश कर के दीर्घायु और रोगरहित करता है।

अन्यच्च—जन्म पद्येदादित्यं धुधं पद्येन्द्रिशापतिम् ।

अस्मिन् योगे तु यो जात स भवेद्वसुधाधिप ॥

भाषा—जिस के जन्म काल में चन्द्रमा की सूर्य पर उध की चन्द्रमा पर हटि हो वह मनुष्य राजा होता है।

अन्यच्च—श्रीप्रस्थाने यदा जीवो लाभस्थाने शशी भवेत् ।

गृहमध्ये सज्जातश्च विख्यात बुलदीपक ॥

भाषा—जिस के जन्म काल में शत्रु स्थान में वृहस्पति और छाम स्थान में चन्द्रमा हो वह जातक अपने धर्मे विलयात् और कुल में दीप के समान होता है।

अन्यत्र

मृगपतिशुद्धकन्याकर्कटस्थश्व राहुर्भवति विपुललक्ष्मी राजराजयाधिपो वा ।

हयगज्जनरनौकामेदिनोबुद्धियुक ए भवति कुलदीपो राहुतुङ्गो नरणम् ॥

भाषा--जिस के जन्मकाल में महर, घृप, कन्या अथवा कर्क का राहु हो तो वह मनुष्य धड़ा लक्ष्मीवान् अथवा शान्ति का स्वामी, हाथी, घोड़ा, भूत्य, नौका, घृणी और बुद्धि से युक्त होता है। और कुल में दीपक होता है, इस योग को राहु शह योग कहते हैं।

अन्यत्र—दशमे सुधसूर्यी च भौमराहू च पष्टगौ ।

राजयोगेऽन्नं यो जाति स पुमाभायको भवेद् ॥

आपा—जिस के जन्मकाल में धुध और सूर्य दशम में, मङ्गल और शहु पष्ठ में हो सो राज योग होता है। इस योग में जो जातक उत्पन्न होता है वह पुरुषों के नायक होता है।

अन्यच्च—आदी जीव शनिद्वयान्ते ग्रहा मध्ये निरन्तरम् ।

राजयोगं विजानीयादिति गर्वेण भाषितम् ॥

भाषा—जिस के जन्मकाल में आदि में घृहस्थिति अन्त में शनि, और मध्य में चैप पार निरचतर हों तो उस को राजपोग होवा है ऐसा गर्म सुनि का कथन है।

अन्यत्र—तुलामीनमेपे वृषे दैत्यपुत्रो भवेद्राजमाय कला कीतुकी च ।

अपत्यश्रयं सहित जीवित थ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

भाषा—जिस के जन्मकाल में तुला, मीन, मेष अथवा वृषभ में शुक्र हो तो मनुष्य राजमान्य, कला में निःुण और चिरजीवी होता है, तथा उस को तीक्ष्ण सन्तान होता है ।

अन्यच्च—यदा जीवो मृत्युश्थाने यदा चितः ।

निरन्तर प्रह्लादघ्ये राजा भवति निश्चितम् ॥

भाषा—जिस के जन्मकाल में वृद्धस्पति शूतीय में, शुक्र अष्टम स्थान में शेष प्रह्ल निरन्तर माड्यम में हों तो वह निश्चय करके राजा होता है ।

अन्यच्च—क्षेत्राधिपसन्दृष्टे शशिनि नृपस्तत्सुहृद्विरपि धनवान् ।

भाषा—चन्द्रमा जिस घर में बैठा हो उस के स्वामी अगर उस को देखे तो मनुष्य राजा होता है । अगर उस के मिश्र उस को देखे तो धनवान् होता है ।

अन्यच्च—स्वर्णस्त्वप्रिक्षोणैस्त्वाद्यैर्भूपतिवंशजा नरेन्द्राः ।

भाषा—अगर तीन अथवा उस से अधिक प्रह्ल स्वशेषी अथवा अपने ग्रिकोण के हों तो राज वंश में उत्पन्न मनुष्य राजा होता है ।

अन्यच्च—चतुर्थं स्वाभिना दृष्टं तन्मित्रेण च पार्थंति ।

लग्न वापि यदा यस्य तस्य सम्पद्वेदप्रुच्छम् ॥

भाषा—जिस के जन्मकाल में चतुर्थं वा लग्न अपने स्वामी अथवा अपने मिश्र से देखा जाता हो वह मनुष्य अवश्य सम्पत्ति धारा होता है ।

अन्यच्च—चतुर्थं हैरेकातैर्थं संशयेधीधर्मं दुष्प्रियतनुस्थितैर्वां ।

दासीपु जातः शितिपादतुल्यो भवेन्नरो भूपतिरन्तकोशी ॥

भाषा—जिस के पश्चाम, मध्यम, तृतीय अथवा शूत में धार प्रह्ल देखे हों तो वह मनुष्य यथापि दासो के पुत्र हो तथापि राजा वा राजा के राजान्वयी होता है ।

अन्यच्च—शुक्रो यस्य युधो यस्य यस्य केन्द्रे वृद्धस्पतिः ।

दशमेऽङ्गारको यस्य ए जातः कुलदीपकः ॥

भाषा—जिस के केन्द्र में शुक्र, युध और शृहस्पति हों, महूल दशम में हो हो जातक कुल में दीपक होता है ।

अन्यच्च—लग्ने यस्य युधो नास्ति केन्द्रे नास्ति शृहस्पतिः ।

दशमेऽङ्गारको नास्ति ए जातः किं करिष्यति ॥

भाषा—जिस के युध लग्न में न हो, केन्द्र में शृहस्पति न हो, दशम में महूल न हो वह जातक हस मंसार में वया वर सहता है, अर्यावृक्षु भी गहीं कर सकता ।

अन्यच्च—एक एव शुरराजपुरोपाः ऐन्द्रगोऽय नष्पशमगो वा ।

सामगो भवति यस्य यितरने देष्पर्येचरपत्रैरुक्तैः दिम् ॥

भाषा—जिस के जन्मकाल में एक वृद्धस्पति केन्द्र, नवम, पश्चम, लाल स्थान
अथवा लग्न में हो शेष ग्रह बल रहित भी हों तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं ।

अन्यच्च—कि कुर्वन्ति ग्रहाः सर्वे यस्य केन्द्रे वृद्धस्पतिः ।

मत्तमात्रश्यूषानां भिनत्येकोऽपि केशरी ॥

भाषा—आगर केन्द्र में वृद्धस्पति हो और शेष ग्रह निर्विद्वत् जगह में भी हों तो
कुछ भी स्वाय नहीं कर सकते हैं । जैसे केवल अकेला सिंह सौकड़ों मत्त हाथियों के
मुण्डो का नाश करता है ।

अन्यच्च—कामाजकन्यारिपुरन्प्रसंस्थः वैदद्विकोऽव्ययगद्व राहुः ।

कामी च शरी घलवान् स भोगी गजावठत्रबहुपुत्रता च ॥

भाषा—जिस के जन्मकाल में सिखुन, मेष अथवा कन्या राशि का राहु पष्ट,
अष्टम, केन्द्र, श्रिकोण अथवा द्वादश में बैठा हो वह मनुष्य कामी, शूर घलवान्,
भोगी, हाथी घोड़े और छत्र वाला, तथा बहुत पुनर्वाला होता है ।

अन्यदप्याद—

मृगपतिवृष्टकन्याकर्कटस्थस्च राहु र्भवति विपुललक्ष्मी राजराज्याभिपो वा ॥

भाषा—जिस के जन्म समय में मरक्त, वृष्ट, कन्या अथवा कर्क का राहु हो वह
मनुष्य बड़ा लक्ष्मीवान् होता है, अथवा उस को राज्य मिलता है ।

अन्यच्च—लाभे श्रिकोणे यदि शीतरस्मिः करोत्यवश्यं वितिपालतुल्यम् ।

भाषा—जिस के जन्मकाल में चन्द्रमा पुकादश अथवा श्रिकोण में बैठा हो वह
राजा के समान होता है ।

अन्यच्च—वृधमार्गवजीवानामेकोऽपि यदि केन्द्रः ।

पुमाभ्यातः य दीर्घायुग्मणवान् जवलमः ॥

भाषा—जिस के जन्मकाल में तुष्णि, शुक्र और वृद्धस्पति इन हीनों में से पृथ्वी
भी केन्द्र में हो सो जातक दीर्घायु, गुणवान् और राजप्रिय होता है ।

अन्यच्च—तुलाकोदण्डमीनस्थो लग्नस्थोऽपि दानैथरः ।

करोति भूमुजो नाथं मत्तेष्यरिवारितम् ॥

भाषा—जिस के तुला, धन अथवा भीन राशि का दानैथर उत्तर में बैठा हो
वह मनुष्य राजा होता है, और उस के यहाँ मत्त हाथी धन्धे रहते हैं ।

अन्यच्च—वनेऽपि मिश्राणि भवन्ति तेषां येषां गुरुर्मित्रनिकेतनस्थः ।

भाषा—जिस मनुष्यके जन्मकाल में वृद्धस्पति अपने मिश्र के घर में बैठा हो
उस के घर में भी मिश्र मिल जाते हैं ।

अन्यच्च—उषःकालेऽभिजित्काले गोधूल्यां वा महानिशि ।

आपा—गोपालज्ञातोऽपि राजा, भवति निश्चितम् ॥

भाषा—जिस मनुष्य का जन्म उषः काल अथवा अभिजित्काल अथवा गोधूलि काल अथवा महानिशि में हो तो वह मनुष्य रवाले का पुत्र भी हो तथापि राजा होता है ।

अन्यच्च—लग्नाधिषो वा जीवो वा शुक्रो वा यदि केन्द्रवः ।

तस्य पुंसद्व दीर्घायुः स पुमान् ग्राजवल्लमः ॥

भाषा—जिस के लग्नेश्च अथवा शृहस्पति अथवा शुक्र अगर केन्द्र स्थान में स्थित हो तो वह मनुष्य दीर्घायु और राजप्रिय होता है ।

अन्यच्च—चतुः सागरये चन्द्रे कोणे चैव दिवाकरः ।

अपि दासकुले जातो राजा भवति निश्चितम् ॥

भाषा—जिस मनुष्य के केन्द्र में चन्द्रमा, त्रिकोण में सूर्य हो तो दास कुल में उत्पन्न भी निश्चय कर के राजा होता है ।

अन्यच्च—लग्नतश्चान्यतो वापि क्रमेण पतिता प्रहाः ।

एकावस्थी समाख्यातो महाराजो भवेन्नरः ॥

भाषा—अगर लग्न से अथवा किसी दूसरे स्थान से यथा क्रम पद पढ़े हों तो एकावली योग होता है, इस योग में उत्पन्न मनुष्य महाराजा होता है ।

अन्यच्च—चतुर्मुहा एरुगताः पापाः शौम्या भवन्ति हि ।

श्रातुष्ठीर्थमलग्नार्थे राजयोगो भवेदयम् ॥

भाषा—अगर तृतीय, पश्चम, नवम, षष्ठीदश, लग्न अथवा धन स्थान घाटे पाप पद या शुभ पद घार प्रद स्थित हों तो राजयोग होता है ।

अन्यच्च—त्रिकोणे सप्तमे लग्ने भवन्ति च यदा प्रहाः ।

हृसंयोगे विजानीयात्स्वर्वदास्य च पालकः ॥

भाषा—अगर त्रिकोण, सप्तम और लग्न में संब पद हों तो हृसंयोग होता है, इस योग में उत्पन्न हुआ मनुष्य अपने बंस का पालन करने पाला होता है ।

अथ सिंहाद्यनयोगमाद्—

पश्चाट्ये द्वादशे च द्वितीये च यदा प्रहाः ।

सिंहाद्यनयोगो योगोऽर्थं राजा सिंहाद्यने भवेत् ॥

भाषा—जड पष्ठ, अष्टम, द्वादश और द्वितीय हृन घार स्थानों में संब पद हो सिंहाद्यन भास का योग होता है, इस योग में उत्पन्न जातक राजा होता है ।

अन्यच्च—कर्किणि लाने जीवे मृगलाष्ठने तथा लाने ।

मेपेडङ्के लामगती बुधशुक्रो जायते भूपः ॥

भाषा—जिस के लगन में कई राशि का वृहस्पति हो, चन्द्रमा लाभ स्थान में जैठा हो, मेष का सूर्य हो, लाभ स्थान में बुध और शुक्र भी हों तो राजा होता है ।

अन्यच्च—बुधादित्यसमायोगे धार्मिकच्च विचक्षणः ।

धनी बहुमुतो हेयो मृत्युयुक्तो जितेन्द्रियः ॥

भाषा—जिस के जन्म काल में बुध और सूर्य साथ दौड़ा हो तो धर्मात्मा, पण्डित, धर्मवान्, बहुत पुत्र याहा, मृत्यों से सहित रथा जितेन्द्रिय होता है ।

अथ वानयोगमाद—

शुक्रचन्द्रयोर्मियो दृष्टयोः सिंहस्थयोर्वार्या यानवन्तः ॥ २८ ॥

विद् ०—शुक्रचन्द्रयोरिति । शुक्रचन्द्रयोर्मियो दृष्टयोःः=यत्र कुञ्चस्थयोः शुक्रचन्द्रयोः परस्पर दृष्टयोः, वा=अथवा, सिंहस्थयोःः=तृतीयस्थयोः (शुक्रचन्द्रे तृतीयमे वा चन्द्राच्छुक्रे तृतीयमे), यानवन्तः=याहनार्धवन्तो भवन्ति ।

भाषा—शुक्र और चन्द्रमा में परस्पर दृष्टि हो तो जातक सवारी वाला होता है । अथवा शुक्र, चन्द्रमा दोनों में एक से दूसरा तृतीय में हो अर्थात् शुक्र से चन्द्रमा तृतीय में हो या चन्द्रमा से शुक्र तृतीय में हो तो जातक सवारी वाला होता है ॥ २८ ॥

अथ वृदा.—

चन्द्रः कविः कविष्यन्द्रं परपत्यपि तृतीयमे ।

शुक्राचन्द्रे ततः शुक्रे तृतीये वाहनार्पवान् ॥

भाषा—स्पष्ट है ।

अथ वैतानिकयोगमाद—

कुजशुक्रकेतुपु दैतानिकाः ॥ २९ ॥

विद् ०—कुजशुक्रकेतुपु=यत्र कुञ्चस्थितेपु परस्पर दृष्टिमत्पु परस्पर तृतीयस्थेपु मङ्गलशुक्रकेतुपु, दैतानिकाःः=वितानादिराजविन्दवन्तो भवन्ति॥ २९ ॥

भाषा—मङ्गल, शुक्र, केतु इन सीनों में परस्पर दृष्टि हो या परस्पर तृतीय स्थान में हो तो वितानादि राज लिन्द ताले दोने हैं इस से यह सिद्ध होता है कि मङ्गल को देखने हों तो वितानादि राज लिन्द ताले दोने हैं इस से यह सिद्ध होता है कि शुक्र को देखने हों तो वितानादि राज लिन्द ताले दोने हैं ॥ २९ ॥

अथ पुनाराजयोगमाह—
स्वभाग्यदारमातृभावसमेषु शुभेषु राजानः ॥ ३० ॥

कर्मदासयोः पापयोद्दत्त्वा ॥ ३१ ॥

विद्वान्—स्वभाग्यदारेरिति । स्वभाग्यदारमातृभावसमेषु=आत्मकारकाद्राद्यादिना द्वितीयचतुर्थपश्चमभावतुल्येषु, शुभेषु=शुभप्रहेषु, राजानः=नृपतयोः भवन्ति । एवं तत्त्वकारकवशात्तेषां तेषामपि फलं ज्ञेयं, अतः पुत्रादिकारकेष्वपि राजयोगवर्णे पुत्रादीनामपि राजयोगो वाच्यः ।

कर्मदासयोरिति । कर्मदासयोः=आत्मकारकात् तृतीयपश्चभावसमयोः, पापयोः=पापप्रहयोः, राजानो भवन्ति ॥ ३०-३१ ॥

भाषा—आत्मकारक प्रह से द्वितीय, चतुर्थ, पश्चम भाव के राज्यादि तुल्य शुभ-ग्रहों के राज्यादि हों तो राजा होता है । इसी प्रकार पुत्रादि कारक वश से पुत्रादि कों का विचार करना चाहिए । अर्थात् पुत्रादि कारकों में राज योग बल हो तो पुत्रादिकों को भी राज्योग होता है ।

आत्मकारक से तृतीय पष्ठ इन दोनों भावों के तुल्य द्वे पापग्रहों के राज्यादि हो तो भी राजा होता है ॥ ३०-३१ ॥

अथ पुनराद—

पितृलाभाधिपाद्वच्चैवम् ॥ ३२ ॥ मिथ्रे समाः ॥ ३३ ॥ दरिद्रा विपरीते ॥ ३४ ॥

विद्वान्—पितृलाभाधिपादिति । पितृलाभाधिपात्=लग्नाधिपात्सप्तमाधिपाद्वच्, एवं =पूर्योज्जवदिचारः कार्यः, अर्थात् लग्नाधिपात्सप्तमाधिपाद्वचापि भाग्यदारमातृभावसमेषु शुभेषु तथा कर्मदाससमयोः पापयोद्दत्त्वा सतो राजानो भवन्ति ।

मिथ्र इति । मिथ्रे=शुभपापमिथ्रे सति, समाः=राजतुल्या भवन्ति ।

विपरीत इति । विपरीते=शुभस्थाने पापाः पापस्थाने शुभारवेत्स्युत्तर्द्दि, दरिद्राः=निर्धना भवन्ति ॥ ३२-३४ ॥

भाषा—लग्नेश और सप्तमेश से भी इसी प्रकार विचार करना चाहिये । अर्थात् लग्नेश और सप्तमेश से द्वितीय, चतुर्थ, पश्चम इन भावों के तुल्य शुभग्रह हों तो राजा होता है । तथा लग्नेश और सप्तमेश से तृतीय, पष्ठ इन दोनों भावों के तुल्य दो पापग्रहों के राज्यादि हों तो राजा होता है ।

लग्नेश और सप्तमेश से द्वितीय, चतुर्थ, पश्चम हत भावों में शुभ प्रह और पापग्रह दोनों मिले हुए हों तो राजा के तुल्य होता है ।

विपरीत पष्ठ स्थिति से अर्थात् शुभप्रह के स्थान में पापग्रह, पापग्रह के स्थान में शुभप्रह स्थित हों तो दरिद्र होता है ॥ ३२-३४ ॥

अथ ग्रन्थान्तरीयदिव्योगमाद्—

प्रभुतिकाले नलिनीशास्तुः स्वेच्छे प्रियोगक्षमगते विलगते ।

कुर्यान्नरं देशपुराधिनार्थं शेषेवभद्रं सरुज दरिदम् ॥

भाषा—जिस के जन्मकाल में शनि अपने उच्च या विशेष कर होकर लगन में बौद्ध हो तो मनुष्य देश अथवा नार का स्वामी होता है । शेष राशियों का हो तो मनुष्य भाष्य हीन रोगी और दरिद्र होता है ।

अन्यजातकोशादिव्योगमाद्—

भाषेश्वरादतिवदो निधनेश्वरो वा लग्नधिपतिदशनायगुद्यदि स्यात् ।

केन्द्राद्विदिनकरस्य कराभितसो लाभाधिपो यदि विद्वीनवलो दरिदः ॥

लाभादिव्ययरन्धपुत्रगृहणा जीवारमन्देनुवः

नीचस्थानगता यदा रविकरच्छक्षास्तदा भिषुकः ।

भाष्यस्थानगतो दिवेशतनयः सौम्येतरैरीहितो

लातस्यः शशिनन्दनो रविषुतो नीचाशगो भिषुकः ॥

जीवशशुकरविनन्दनभूमिपुत्रा रन्धारिरि-फलुतकर्मगता यदि स्यात् ।

लग्नेश्वरादतिवली व्ययमावनायो नीवस्थिती रविकराभिदतो दरिदः ॥

शुकार्यदिव्यजराजभूमितनया नीवस्थिता जन्मनि ।

व्योमाये नवमे कलपतनये जातो दरिद्रे भवेत् ॥

लग्ने दानवपूजितेऽमरगुरी पुत्रे धरानन्दने ।

लभे रात्रिदरे तृतीयभवने नीचं गते भिषुकः ॥

करने चरे चरनवाशगते सितेन इष्टे च नीचगुणा यदि भिषुकः स्यात् ॥

जातो विनाऽमरपुरोहितलग्नराशिलोहे रिपुव्ययगते तु भवेत् दरिदः ॥

आतः द्विष्टे लग्नगतेतु पापा ऐन्द्रियकीणोरगताश्च सर्वे ।

केन्द्राद्विद्यस्यात्प्राप्तास्तु चौम्या भिषासनः स्यात् परयोपितव्य ॥

चरे विलगते निशि सीम्येऽग्निकोशकेन्द्रोपगता न वीर्याः ।

खलप्रहा, केन्द्रवहिः द्विष्टात्पैदु भिषासनं निष्टमुपैति जातः ॥

पापा नीचस्थानगा-पापकर्म सीम्या नीचस्थानगा रुढपापा ।

अवै नीचस्थानगे कर्मराशो नीचे भीमे नन्दनस्थे तथैव ॥

नीचाशगास्तुहरयोग्याता जातस्य नीचं कलगायु दद्युः ।

नक्षत्रास्तुहरवीशकस्या चौम्यं कर्ते व्योमवरा प्रकुरु ॥

दरिद्रयोगफलं तत्रैव—

निर्भाग्यो विकलेन्द्रियो विषमधीर्दारात्मजैर्निन्दितो
भिक्षाशी विषमस्थितो विषमवाक् धिश्नोदरे तत्परः ।

अन्यायार्ज्ञनतत्परस्त्वनुदिनं मात्सर्यवाक् कण्टकी

नित्यं स्यात्परदारसकहृदयो नीचोऽनधमूको जडः ॥

दरिद्रयोगे कलहप्रियः स्यात् कुषी परेषां हितहत्कृतमः ।

ब्राचालको भूमुरभक्षिहीनः कुदारदीनः कुनखी च जातः ॥

अथ राजसम्बन्धिपुरुषसेनापतियोगावाह—

मातरि गुरो शुक्रे चन्द्रे वा राजकीयाः ॥ ३५ ॥

कर्मणि दासे वा पापे सेनान्यः ॥ ३६ ॥

विद्वान्—मातरीति । मातरि=लग्नसप्तमाधिपात् कारकाच पश्यते, गुरो=वृह-
स्पती, वा शुक्रे=सिते, वा चन्द्रे=सोमे स्थिते सति, राजकीयाः=राजाधिकारवन्तो
भवन्ति । कर्मणीति । कर्मणि=लग्नसप्तमाधिपात् कारकाच तृतीये, वा दासे=लग्नस-
प्तमाधिपात्कारकाच पष्टे, पापे=पापप्रहे स्थिते सति, रोनान्यः=सेनापतयो भवन्ति ॥

भाषा—लग्नेश, सप्तमेश वा कारक से पश्यते वृहस्पति, शुक्र वा चन्द्रमा हो
तो राजसम्बन्धी पुरुष होता है ।

लग्नेश, सप्तमेश वा कारक से तृतीय वा पष्ट में पाप पद्ध हो से सेनापति होता है ।

अथ कारकलग्नयोरपरिप्रहृष्टिवशात्कलमाद—

स्वपितृभ्यां कर्मदासस्थृष्टपृष्ठा तदीशादृष्ट्या मातृनाथृष्ट्या च
धीमन्तः ॥ ३७ ॥ दारेशादृष्ट्या सुखिनः ॥ ३८ ॥

रोगेशादृष्ट्या दर्शिदाः ॥ ३९ ॥ रिपुनाथृष्ट्या व्ययशीलाः ॥ ४० ॥

स्वाभितृष्ट्या प्रयत्नाः ॥ ४१ ॥

विद्वान्—स्वपितृभ्यामिति । स्वपितृभ्याऽकारकजन्मलप्राभ्यां, कर्मदासस्थृष्ट्याऽ
तृतीयपृष्टस्थृष्ट्यमादृष्ट्या कारके लग्ने चेत्यर्थः, तदीशादृष्ट्याऽतृतीयेश-पष्टेश हृष्ट्या,
वा मातृनाथृष्ट्याऽपश्येशादृष्ट्या च, धीमन्तः=युद्धिमन्तो भवन्ति ।

दरेशोति । दारेशादृष्ट्या=कारकलग्नभ्यां कारकलग्नयोरपरि चतुर्येशादृष्ट्या,
सुखिनो=भवन्ति ।

रोगेश दृष्ट्येति । रोगेशादृष्ट्या=कारकलग्नभ्यां कारकलग्नयोरपरि—अष्टमेश-
दृष्ट्या, दरिद्रा भवन्ति ।

३ पादः] सोदाहरण-धिमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाशयसहितम् । १२१

रिपुनाथदृष्ट्येति । रिपुनाथदृष्ट्या=कारकलग्नभ्यां तयोदयरि द्वादशोदृष्ट्या, अययशीलाः=अययस्वमावा भवन्ति ।

स्वाभिदृष्ट्येति । स्वाभिदृष्ट्या=कारके कारकेदृष्ट्या लग्ने लग्नेदृष्ट्या, प्रय-
ला=प्रलवन्तो भवन्ति ॥ ३८-४१ ॥

भाषा—कारक से या एम से गृहीय, पष्ठ स्थान स्थित पह कारक और एम को
देखता हो, अथवा तृतीयेश, पष्ठेश देरता हो, अथवा यशमेश देखता हो सो जातक
शुद्धिमान होता है ।

कारक या एम से अष्टमेश की हठि कारक और एम के ऊपर हो सो जातक
सुखी होता है ।

कारक या एम से अष्टमेश की हठि कारक और एम के ऊपर हो सो जातक दर्दिं
होता है ।

कारक या एम से अष्टमेश की हठि कारक और एम के ऊपर हो सो जातक स्वर्च
करने वाला होता है ।

अगर कारक और एम के ऊपर अपना अपना स्वामी को हठि हो तो बलवान
होता है । अर्थात् एम के ऊपर एकनेश को जार आत्मकारक के ऊपर आत्मकारक-
धित राशि के स्वामी को हठि हो सो बलवान होता है ॥ ३८-४१ ॥

अथ वन्धनयोगमाद—

पश्चाद्विपुमाण्ययोप्रैदृसाम्ये वन्धः कोणयो रिपुजाययोः कीटय-
गमयोद्वारितिष्योऽथ ॥ ४२ ॥

पश्चमृक्षाणां तदीशानाञ्च शुभसम्बन्धे निरोधमार्थं पापसम्बन्धा-
च्छुद्धलाप्रहारादयः ॥ ४३ ॥

विद्—पवादिति । पवात्=लग्ननात्कारकलग्नाय, रिपुमाणयोः=दिदादशयोः,
कोणयो=पश्चमभवयमयोः, रिपुजाययोः=द्वादशपठयोः, कीटयुमयो=एकादशतृती-
ययोः, दारित्ययोः=षष्ठुर्धदशमयोदय, महसाम्ये=घेठतुम्ये, (एकरवेदेकः, द्वी-
वेदद्वी, प्रयस्तेत्रय इति रीत्या ऐट तुम्ये सति), वन्धः=चाराप्रतीनं भवति ।

एव मृक्षाणामिति । एव, मृक्षाणां=श्रोक्षानो दिदादशामृक्षाणां, तदीशानो=
तदत्ततीनो च, शुभसम्बन्धे=शुभं प्रदृशमृबन्धे यति, निरोपमार्थं=द्वादशानो निरोपमार्थ-
मेव स्यात् । पापसम्बन्धात्=पापप्रदृशमृपात्, शुद्धलाप्रहारादयो भवन्ति ४३-४२

भाषा—एम से या कारक से द्वितीय, द्वादश में तुश्य संक्षेप यह हो तो कारा-
क एम में वन्धन होता है । एमी प्रवार भवत, पश्चम में अपना द्वादश, वह में अपना
शुद्धलाप्रहार, द्वितीय में अपना उपर्युक्त, द्वादश में यह की दृश्यता हो तो कारागृह में वन्धन

होता है। अर्थात् द्वितीय में एक ग्रह हो तो द्वादश में भी एक ग्रह हो, अगर द्वितीय में दो ग्रह हों तो द्वादश में भी दो ग्रह हों, अगर द्वितीय में तीन ग्रह हों तो द्वादश में भी तीन ग्रह हों तो कारागृह में बन्धन होता है। इसी प्रकार पञ्चम नवम, द्वादश पष्ठ इत्यादि में यह की समता समझनी चाहिए।

द्वितीय, द्वादश, नवम, पञ्चम इत्यादि वन्धन स्थान और उस के स्वामी को शुभ ग्रह से सम्बन्ध हो तो निरोधमात्र (कारागृह में नाम मात्र वन्धन) होता है। अगर पापग्रह से सम्बन्ध हो तो वेडी आदि से बन्धन होकर कारागृह में निवास होता है ॥ ४३-४४ ॥

अथ नेत्रहा योगमाह—

शुक्रादुग्नौणपदस्यो राहुः सूर्यदूषो नेत्रहा ॥ ४४ ॥

विं०—शुक्रादिति । शुक्रात्=लग्नात्, गौणपदस्यः=पश्चमपदस्यः, राहुः, सूर्यदृष्टः=रविणा दृष्टः, नेत्रहा=नेत्रनाशकरः स्थात् ॥ ४४ ॥

भाषा—लग्न से पश्चम के पद में स्थित राहु रवि से देखा जाता हो तो नेत्रों के नाश करने वाला होता है ।

अथ रांजदिनहयोगमाह—

स्वदारगयोः शुक्रचन्द्रयोरातेऽयं राजचिन्हानि च ॥ ४५ ॥

विं०—स्वदारगयोरिति । स्वदारगयोः=आत्मकारकात्मतुर्पुर्गयोः, शुक्रचन्द्रयोः संतोः, आतोऽयं=बायविशेषः, राजचिन्हानि=द्युत्राचामरादीनि च भवन्ति ॥ ४५ ॥

भाषा—प्रात्मकारक से चतुर्पूर्ण में शुक्र, चन्द्रमा दोनों हों तो नमाहा आदि शांति, छग्र, चामर आदि राजचिन्ह होते हैं ॥ ४५ ॥

इति महर्षिजैमिनिप्रणीत-जैमिनिसूत्रटीकायां

प्रथमाध्याये तृतीयः पादः ।

अथ प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः ।

अथोपपदात्मकलकथमार्थं प्रथमसुपपदं निरूपयति—

उपपदं पदं पित्रनुचरात् ॥ १ ॥

विं०—उपपदगिति । पित्रनुचरात्=पिता लग्न तदनुचरो द्वितीयो यस्याद्यौ विशुद्धयो द्वादशभावस्तस्मात्, पदं=“यावदीशाप्रथं पदमृशाणाम्” इत्यनेन यस्तदं तद्, उपपदं=उपपदसंज्ञ इत्यादिति भीमता नीलरुठेनाभिहितम् ।

पित्रनुचरात्=पिता लग्न तस्यादुचरो द्वितीयो योऽयो विशुद्धयो द्वितीयो भा-

अ पाद] सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाद्यसहितम् । १२३

बास्तवसाधारण तदुपर्यन्त स्थादिति श्रोमता स्वामिना मिहितम् ।

अथ देवित् “विश्वनुचरात्” इत्यत्र “विश्वानुचरात्” इति बास्तविकपाठ स्वीकृत्य, पूर्वोच्चारीत्या तदस्त्राह्वयेन सामित्रस्त्रया = ($\frac{२६०११}{१२} = ७$) मानीय, ततस्तस्य सप्तम भावसाधारण तदुपर्यन्ति स्वीकृत्यन्ति ।

अथ बास्तविकोऽर्थम्--

विता लान किन्तु रामलग्न तदुपर्यन्तरति अस्यासौ विश्वनुचरो द्वितीयो भावस्तस्माधारण तदुपर्यन्त स्थात् । तथा विश्वरूपस्य किन्तु विष्वमलग्नस्य-अनुष्ठानाचरतीयनुचरे ह्यादश भावस्तस्माधारण तदुपर्यन्त स्थात् ।

अर्थात् रामलग्ने द्वितीयभावस्य विष्वमलग्ने ह्यादशभावस्य पदभूषणपर्यन्त स्थादिति वहुवादिः-पठीतस्तुश्यसमाप्त्याभ्यां समागमी ह्यावध्ययो मुनेरभिप्रेताविति ।

अथवा विश्वरूपस्य विष्वमलग्ने क्रमगणनया रामलग्ने चोक्तव्याणनया योऽजुधर पृष्ठवती रातिस्तस्य यत्पर तदुपर्यन्त स्थात्, अर्थात् विष्वमलग्नाद् ह्यादशभावस्य रामलग्नाद्वितीयभावस्य यत्पर तदुपर्यन्त स्थात् ॥ १ ॥

भाषा—इस पाद में उपर्यन्ते फलादेश करने के लिए प्रथम उपर्यन्त का निष्पत्ति करते हैं ।

एस है अनुचर (द्वितीय) जिस का देश जो ह्यादत भाव उस से “वावरीशाश्रयं पदभूषणाणाम्” इस पूर्णोक्त युक्ति से जो पद उस को उपर्यन्त कहते हैं, यह बील बण्ड का उत्तम है ।

अथवा विता (लान) का अनुचर (द्वितीय) जो है द्वितीय भाव उस से पूर्णोक्त युक्ति से जो पद उस को उपर्यन्त कहते हैं । यह स्वामी टीका कार का भत्त है ।

अथवा “विश्वनुचरात्” यहाँ पर “विश्वानुचरात्” ऐसा बास्तविक पाठ स्वीकार यर के पूर्ण युक्ति से उस व अक्षर के अद्वयता से सात मेख्या लाल र सप्तममात्र से जो पद उस को उपर्यन्त स्वीकार करते हैं ।

इस में बास्तविक अर्थ हो यह है । सम राति के लान हो तो एस पृष्ठवती है तिथ का देश जो द्वितीय भाव उस से जो पद उस को उपर्यन्त कहते हैं ।

सुधा विष्वमलग्नि के लान हो तो उस के पूर्णवती जो ह्यादश भाव उस से जो पद उस को उपर्यन्त कहते हैं ।


अर्थात् समलग्न में द्वितीय भाव विष्वमलग्न में भावरहरे भाव का जो पद उस से उपर्यन्त कहते हैं । यहुवादिः समाप्त शौर पठी वायुला गमान से शार्ये हृषि दोत्रों अर्थ गुनि के अभियेत हैं ।

अथवा विषय सम्म में क्रम गणना से समलग्न में उत्तम गणना से लग्न के पृष्ठ-
घर्तीं जो राशि हो उस का जो पद उस को उपपद कहते हैं, अर्थात् विषयस्थान में
स्थन से द्वादश समलग्न में लग्न से द्वितीय के पद को उपपद कहते हैं ॥ १ ॥

वदाहरण—१२ वे पृष्ठ के सुनित जन्मकुण्डली में धनु लग्न विषय है। इस लिये
यहाँ पर क्रम गणना से लग्न के पृष्ठघर्तीं वृश्चिक राशि हुई है। इस का स्वामी महल
वृश्चिक से एकादश स्थान कन्या में है, अतः कन्या से एकादश स्थान एक हुआ,
यही हस कुण्डली में उपपद हुआ।

* जन्म-कुण्डली *

श. १२



दर्शक

अथोपपदाध्यज्यादारनाशयोगज्वाह—

तत्र पापस्य पापयोगे प्रधज्या दारनाशो वा ॥ २ ॥

४ पादः] सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाद्यसहितम्। १२५

विं०—तत्रेति । तत्र=उपपदे (अधिकारप्राप्त्वात्तेति पदेवोपपदस्यैव प्रहृणं
न तद्विद्वितीयस्य), पापस्य=पापमहस्य राशी, वा पापयोगे=पापमहस्योगे, प्रपञ्चाऽप्य
सन्यासः, वा दारनाशः=द्वीपिनाशः स्यात् ॥ २ ॥

भाषा—उपपद स्थान पापमह की राशि में हो अथवा पापमह से युक्त हो तो
सन्यास घटण करता है अपवा र्षी का नाश होता है ॥ २ ॥

अथ रवैः शुभत्वमाद—

नाश रविः पापः ॥ ३ ॥

विं०—नात्रेति । अत्र=उपपापिकारे, रवि=सूर्यः, पाप.=पापमहः, न स्यात्
भाषा—इस उपपदापिकार में रवि पाप मह नहीं है ॥ ३ ॥

अथ पूर्वयोगायवादमाद—

शुभदृग्योगान्तः ॥ ४ ॥

विं०—शुभेति । शुभमहस्योगात्=उपपदे शुभमहाद्वियोगम्भ्यां, न=योगे एव
रविपि पूर्वोक्तं फलं (प्रवज्ञा दारनाशो वेति फलं) न भवति ॥ ४ ॥

भाषा—उपपद में शुभ मह की इष्टि अथवा योग हो तो पूर्वोक्त फल (सन्यास
या द्वीपिनाश) नहीं होता है ॥ ४ ॥

अथ दारनाशयोगमाद—

नीचे दारनाशः ॥ ५ ॥

विं०—नीच इति । नीचे=उपपदे नीचप्रहारिते यति, दारनाशः=द्वीपिनाशः
स्यात् ॥ ५ ॥

भाषा—आगे उपपद नीच प्रहारित हो तो र्षी का निनाश होता है ॥ ५ ॥

अथ बहुदारयोगमाद—

उच्चे यदुदारः ॥ ६ ॥ शुभे च ॥ ७ ॥

विं०—उच्च इति । उच्चे=उपपदे उच्चप्रहारिते सति, बहुदार=अधिक-
दारः स्यात् ।

युगम इति । युग्मे=मिथुनराशी उपपदे सति, बहुदारव स्यात् ॥ ६-७ ॥

भाषा—उच्च प्रहारित उपपद हो तो बहुत हित्रियाँ होती हैं ॥

आगे उपपद स्थान में युग्म (नृ३, नेष्ठ३) मिथुन राशि पड़े तो भी बहुत
हित्रियाँ होती हैं ॥ ६-७ ॥

अथ बद्वये शोरहितयोगमाद—

तत्र स्थामियुक्ते स्थाने पा तदेतायुक्तयुपि निर्दारः ॥ ८ ॥

विद्यु—तद्रेति । संश्व=उपपदे, स्वामियुक्ते=स्वामिनः सहिते, वा स्वक्षेपे=अन्यस्मिन् स्वराशौ, तदेतौ=तत्स्वामिनि स्थिते सति, उत्तरायुषि=वृद्धावस्थायां, निर्दोरः=दाररद्वितः स्यात् ॥ ८ ॥

भाषा—उपपद स्थान मध्ये स्वामी से युक्त हो अथवा अपने दूसरे राशि में हो तो वृद्धावस्था में स्त्री का जाता होता है ॥ ८ ॥

अथोत्तमकुलाहारलाभयोगमाह—

उच्चे तस्मिन्नुच्चमकुलाहारलाभः ॥ ९ ॥

विद्यु—उच्च इति । तस्मिन्=उपपदेशे, उच्चे=उच्चं गते सति, उच्चमकुलात्=अष्टकुलात्, दारलाभः=स्त्रीलाभः स्यात् ॥ ९ ॥

भाषा—उपपदेश अपने उच्च में स्थित हो तो अष्टकुल से स्त्री का लाभ होता है ।

अथ नीचकुलात्स्त्रीलाभयोगमाह—

नीचे विपर्ययः ॥ १० ॥

विद्यु—नीच इति । नीचे=उपपदेशे नीचं गते सति, विपर्ययः=नीचकुलात्स्त्रीलाभः स्यात् ॥ १० ॥

भाषा—उपपदेश नीच स्थान में स्थित हो तो नीच कुल से स्त्री का लाभ होता है ॥ १० ॥

अथ सुन्दरीस्त्रीयोगमाह—

शुभसम्बन्धात् सुन्दरी ॥ ११ ॥

विद्यु—शुभेति । शुभसम्बन्धात्=शुभपद्वर्गदण्डयोगदिसम्बन्धात्, सुन्दरी=सुन्दरी स्त्री स्यात् ॥ ११ ॥

भाषा—उपपदेश को शुभप्रह के पद्वर्ग, दण्ड, योग आदि सम्बन्ध हो तो सुन्दरी स्त्री होती है ।

अथ लोकापवादारब्रीत्यागयोग-स्त्रीनाशयोगवाह—

यनिराहुभ्यामपवादात्यागो नाशो वा ॥ १२ ॥

विद्यु—यनिराहुभ्यां=उपपदतदीशे यनिराहुभ्यां बुतदृष्टे सति, अपवादात् =लोकापवादात्, स्यागः=स्त्रीत्यागः, नाशो वा स्यात् ॥ १२ ॥

भाषा—उपपद और उस के स्वामी जैनि और राहु से युक्त हो तो लोकापवाद से स्त्री का त्याग अथवा नाश होता है ॥ १२ ॥

अथान्यानपि योगान्नाह—

शुक्केतुभ्यां रत्नप्रदरः ॥ १३ ॥ अस्तियस्त्रावा शुघ्केतुभ्याम् ॥ १४ ॥

४ पादः] सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी टीकाद्यसहितम् । १२७
 शनिरविराहुभिरस्थिज्वरः ॥ १५ ॥ युधकेतुभ्यां स्थोलयम् ॥ १६ ॥
 कुञ्जक्षेत्रे मन्दाराभ्यां नासिकारोगः ॥ १७ ॥ कुजक्षेत्रे च ॥ १८ ॥
 गुरुशनिभ्यां कर्णरोगो नरहका च ॥ १९ ॥ गुरुराहुभ्यां दन्तरोगः ॥ २० ॥
 शनिराहुभ्यां कन्यातुलयोः पट्टगुर्वातरोगो च ॥ २१ ॥
 शुभदृश्योगान्न ॥ २२ ॥

चिं—शुक्रेति । शुक्रेतुभ्यां=उपपदतदीशे शुक्रेतुभ्यां युतदृष्टे सति, रक्षा प्रदर्शन-रक्षप्रदरोगवती स्त्री स्यात् ।

अस्थीति । युधकेतुभ्यां=उपपदतदीशे युधकेतुभ्यां युतदृष्टे सति, अस्थिसाव-अस्थिश्वावरोगवती स्त्री स्यात् ।

शनिरविराहुभिरिति । शनिरविराहुभिरिति=उपपदतदीशे शनिरविराहुभिर्युत-दृष्टे, अस्थिज्वर.=अस्थिज्वरवती स्त्री स्यात् ।

युधकेतुभ्यामिति । युधकेतुभ्यां=उपपदतदीशे युधकेतुभ्यां युतदृष्टे, स्थीत्यं=स्थूला स्त्री स्यात् ।

युधकेश इति । युधकेशे=युधशृदे-उपपदे तदीशे स्थिते, मन्दाराभ्यां=शनै-इचरमनुलाभ्यां युतदृष्टे सति नासिकारोग.=नासिकारोगवती स्त्री स्यात् ।

कुजेति । कुजक्षेत्रे=उपपदतदीशे कुजक्षेत्रे गते मन्दाराभ्यां युतदृष्टे च नासिकारोगवती स्त्री स्यात् ।

गुरुशनिभ्यामिति । गुरुशनिभ्यां=उपपदतदीशे वृहस्पतिशनैइचराभ्यां युत-दृष्टे, कर्णरोग =कर्णरोगवती, नरहकाच =नाडिकानि सरणरोगवती स्त्री स्यात् ।

गुरुराहुभ्यामिति । गुरुराहुभ्यां=उपपदतदीशे वृहस्पतिराहुभ्यां युतदृष्टे, दन्तरोग =दन्तरोगवती स्त्री स्यात् ।

शनिराहुभ्यामिति । कन्यातुलयो=कुम्भमीनयोः उपपदतदीशे स्थिते इति, शनिराहुभ्यां=शनैइचरराहुभ्यां युतदृष्टे, पट्ट=पट्टवी, वातरोगो=वातरोगवती वा स्त्री स्यात् । अथ कन्यातुलयोरित्यस्य कन्यानुलान्यतरण इति वीलकण्ठेन स्वटो काया यद्यपाद्याते दद्यक्षतम्, यतोऽम्र प्रन्थे उर्ध्वांश्चाहुभद्रेन राशीना संख्याद्यगमो भवति । अतोऽप्रापि कन्या=१३=कुम्भराशि, तुला=३६द्वादशमधे दोषे=१२=मीनराशि, तेन कन्यानुलयो कुम्भमीनयोरयमेवार्थः एमीचीनः ॥

शुभदृश्योगात्=उपपदे तदीशे शुभदृश्योगात् । न=पूर्वोदीपा न भवन्ति ॥ ११-२२ ॥

भाषा—उपपद और उस के स्वामी शुक, केतु से युत दृष्ट हों तो जातक की स्त्री को रक्ष प्रदर रोग होता है ।

उपपद और उस के स्वामी शुध, केतु से युत दृष्ट हों तो जातक की स्त्री को अस्थियाव रोग होता है ।

उपपद और उस के स्वामी शनि, रवि, राहु से युत दृष्ट हों तो जातक की स्त्री अस्थिझर वाली होती है ।

उपपद और उस के स्वामी शुध, केतु से युत दृष्ट हों तो उस जातक को मोटी स्त्री की प्राप्ति होती है ।

उपपद और उस के स्वामी शुध क्षेत्र (कन्या, मिथुन) में स्थित होकर शनि-श्चर मङ्गल से युत दृष्ट हों तो नासिका रोग वाली स्त्री की प्राप्ति होती है ।

उपपद और उस के स्वामी कुञ्जक्षेत्र (मेय या वृश्चिक) में स्थित होकर शनि-श्चर मङ्गल से युत दृष्ट हों तो कर्णरोग वाली और नाडिकानिःसरण रोग वाली स्त्री की प्राप्ति होती है ।

उपपद और उस के स्वामी चृहस्यति, राहु से युत दृष्ट हों तो दन्तरोग वाली स्त्री होती है ।

उपपद और उस के स्वामी कुम्भ या मीन राशि में पड़े तथा शनैश्चर, राहु से युत दृष्ट हों तो लङ्घड़ी या वात रोग वाली स्त्री की प्राप्ति होती है यहाँ पर प्रसिद्ध-राशि के कारण कन्या तुल्योः, इस का अर्थ नीलकंठने कन्या तुला ही रक्खा है सो ठीक नहीं है । क्यों कि इस ग्रन्थ में अश्वराङ्ग के वश से राशि की संख्या सर्वत्र चाहूँ किया जाता है । अतः यहाँ पर भी कन्या=११ से कुम्भ और तुला=३६ में बाहर से भाग देने से शेष=१२=मीन राशि का महण करना ठीक है ।

यदि उपपद और उसके स्वामी शुभप्रह से युत दृष्ट हों तो पूर्वोक्त अशुभ फल नहीं होते हैं ।

अथ सप्तमौशप्रहेभ्यः फलविवेकव्यवस्थागाह—

सप्तांशग्रहेभ्यश्लौघम् ॥ २३ ॥

चिं—सप्तशेति । सप्तशप्रहेभ्यः उपपदादः (सप्तः=६७, द्वादशशम्भे शेषं=७,) सप्तमो=मावस्तस्य यो नवांशश, ग्रहै तदीशौ च तेभ्यः, एवं=पूर्वोक्त शरीरत्वा फलविचारः कार्यः ॥ २३ ॥

भाषा—उपपद से (सप्त=६७ बारह से तटित करने से शेष=७) सप्तममाव, सप्तम माव के नवांश और इन दोनों के स्वामी पर से भी पूर्वोक्त रीति से फलादेश करना ॥ २३ ॥

अथात्र फलान्वयाह—

बुधशनिशुक्लेष्वनपत्यः ॥ २३॥ पुत्रेषु रविराहुगुरुमिर्यहुपुत्रः ॥ २५॥

चन्द्रण्णेषुपुत्रः ॥ २६॥ मिश्रे विलम्बात् पुत्रः ॥ २७॥

कुजशनिभ्यां दत्तपुत्रः ॥ २८॥ ओजे वहुपुत्रः ॥ २९॥

मुम्मेऽल्पप्रजः ॥ ३०॥

विठ—बुधशनीति । बुधशनिशुक्लेष्व=उपपदात्सांशप्रदेश्यथ नवमेषु बुध-
शनिशुक्लेषु स्थितेषु, अनपत्य=अपत्यराहितः स्यात् ।

पुत्रेष्वीति । पुत्रेषु=उपपदात्सांशप्रदेश्यथ नवमेषु (पुत्र=२१, द्वादशमधे
शेष=९), रविराहुगुरुमिर्यहुपत्रेषु, वहुपुत्रः=अनेकपुत्रः स्यात् ।

चन्द्रेष्वीति । चन्द्रेष्व=उपपदात् सांशप्रदेश्यथ नवमेषु चन्द्रेष्व स्थितेन, एक-
पुत्रः=एकपुत्रवान् स्यात् ।

मिश्र इति । मिश्रे=उपपदात्सांशप्रदेश्यथ नवमेषु मिश्रप्रदेश्यथकारकान-
पत्यकारकथहे स्थिते सति, विलम्बात्=दृढावस्थायाँ, पुत्रः स्यात् ।

कुजेष्वीति । कुजशनिभ्यां=उपपदात्सांशप्रदेश्यथ नवमेषु कुजशनिभ्यां स्थित-
याभ्यां, दत्तपुत्रः=दत्तपुत्रवान् स्यात् ।

ओज इति ।

ओजे=उपपदात्सांशप्रदेश्यथ नवमेषु विषमरात्री सति, वहुपुत्रः रेत्यात् ।

युग्म इति । गुम्मे=उपपदात्सांशप्रदेश्यथ नवमेषु समरात्री सति, अल्प-
प्रजः=स्वप्नपत्यः इत्यात् ॥ २४-२०॥

भाषा—उपपद, सप्तम भाव, सप्तम भाव के नवांश और इन दोनों के स्थानी से
विषम स्थान में बुध, शनि, शुक्र हों सो जातक सन्तान हीन होता है ।

एक स्थानों से नवम में रवि, राहु, गुरु हों तो जातक ही बहुत पुरुष होते हैं ।

एक स्थानों से नवम में चन्द्रमा हों तो युक्त पुरुष होता है ।

एक स्थानों से नवम में अपरप कारक और अनपत्य कारक दोनों पद हों तो
विलम्ब से पुरुष होता है ।

एक स्थानों से नवम में मंडूल, शनि हों तो दत्तपुत्र होता है ।

उल्लङ्घनान्वयां रो नवम स्थान में विषम राति हो तो बहुत पुत्र, सम राति हो तो
योद्धा पुरुष होता है ॥ २४-२०॥

लघु जन्मलक्षणदीपत्यसांशप्रदेश्यः पूर्वोत्तिविकारः कर्त्त्वं इत्याद—

गृहक्षमाकुक्षितदीपत्यसांशप्रदेश्यदीपत्यम् ॥ २१॥

धि०—गृहकमादिति । गृहकमात्=राशिकमात् , कुक्षितदीशपश्चमांशप्रहेभ्यथ=कुक्षि जन्मलग्नं (कुक्षि=६१ द्वादशभक्षते शेषं=१) तदीशो जन्मलग्न स्वामी पश्चमो नवमो भावः (पश्चमं=५६१ द्वादशभक्षते शेषं=९) तश्चवांशप्रहेभ्यथ तथैव विचारः कार्यो यथा पूर्वमुपपदात्सत्तशप्रहेभ्यो नवमेषु विचारः कृतः ।

अत्र नीलकण्ठेन “गृहकमात् जन्मलग्नमात् यथा भावानां विचारः कियते तथा कुक्षितदीशादिभ्योऽपि कुर्व्यात् , कुक्षितदीशाख्युपपदोपपदेशौ तात्प्रयो पश्चमांशप्रहाः पश्चमभावस्तद्वावस्थ्यनवांशथ तात्प्रयां तयोः स्वामिप्रहाभ्यां चैवं पूर्वोक्तफलविचारः कार्य इत्यर्थः, तस्माद्यत्रयस्य सम्भवस्तस्यापिमस्त्रेऽनुश्रुतिः कार्यो । आतुभ्यामित्यादिस्त्रेपूर्पपदोपपदेशाभ्यां विचारः कार्य इति । कुक्षिपदेन प्रकरणपठितोपपदस्य ग्रहणम् । ननु स्वाम्यादिभिः कुक्षितदीशाविति सिद्धरवीत्युक्तं तत्सर्वसाधारण्यादनुपयुक्तं विशेषतोऽस्मिन् शास्त्रेऽक्षरगम्यकानामेव ग्रहणादिति स्वटीकार्यां व्याख्यातम् ।” अनयोः कतरयुक्तमिति निपुणं विवेचनीयं विपक्षिङ्गिः, वस्तुतस्त्वत्राह्माक व्याख्यानमेव समीचीनम् ॥ ३१ ॥

भाषण—जन्मलग्न क्रम से जन्मलग्न, जन्मलग्ननेश तथा जन्मलग्न से नवम भाव, इस के नवमांश और नवमांश पति से भी उसी तरह फल विचार करना, जिस तरह पूर्व में उपपद, उस से सप्तम भाव, उस के नवांश, और इन दोनों के स्वामी पर से नवम भाव में विचार किया गया है ।

यहाँ “नीलकण्ठ” जिस प्रकार जन्मलग्न के क्रम से भावों का विचार किया जाता है, उसी तरह कुक्षि (उपपद) और उपपद के स्वामी इत्यादिकों से भी विचार करना, उपपद, उपपद के स्वामी, इन दोनों से जो पञ्चम स्थान, उस के नवांश, पञ्चम स्थान का स्वामी, पञ्चमस्थ नवांश स्वामी इन सब स्थानों से पूर्वोक्त फल का विचार करना ।

यहाँ कुक्षि पद से उपपद का ही ग्रहण होता है । स्वाम्यादिदीकाशारों ने “कुक्षितदीशौ” इस का सिद्धरवी ऐसा अर्थकिया है, पर यह अर्थ सर्व साधारण होने से युक्त नहीं है, क्यों कि विशेष वर के इस शास्त्र में अक्षरों के वश से सिद्ध जो संत्या उसी का ग्रह होता है ।

“आतुभ्यो शनिः” इत्यादि सूत्रों में उपपद और उपपद के स्वामी से विचार करना, क्यों कि जहाँ जिस का सम्भव होता है उसी की अनुगृह्णिति अप्रिम सूत्र में की जाती है । यह अपने दीका में व्याख्या किया है । इन दोनों अर्थों में कौन युक्त है यह पण्डित लोग विचार करें । बालतक में यहाँ पर मेरा व्याख्यान (कुक्षि=जन्मलग्न, पञ्चम=नवम) ही थीक है ।

अध्याय फलान्याह—

आतुभ्यां शनिराहुर्यां आतुनाशः ॥ ३२ ॥

[पादः] सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-योग्याद्यरक्षितम् । १३४

शुक्रेण व्यवहितगर्भनाशः ॥ ३३ ॥ पितॄभावे शुक्रदृष्टेऽपि ॥ ३४ ॥
कुजगुरुचन्द्रवृथैर्यहुस्तरः ॥ ३५ ॥

शन्यारात्राभ्यां दृष्टे यथास्वं ग्रातुनाशः ॥ ३६ ॥

शनिना स्वमात्रजोपश्च ॥ ३७ ॥ केतो मणिनीवाहुत्यम् ॥ ३८ ॥

चिं—आतुर्भ्यामिति । शनिराहुभ्या, ग्रातुभ्यां=पूर्वोक्तेभ्यः वृशितदीश-
पश्चमाशप्रदेभ्यः तृतीयैकादशान्वतरस्थेन शुक्रेण, व्यवहितगर्भनाशः=

पूर्वोपरमातुर्गर्भनाशः स्यात् ।

पितॄभाव इति । पितॄभावे=शनादृष्टमावे, शुक्रदृष्टे=नुमेजावलोकिते, तदपि
व्यवहितगर्भनाशः स्यात् ।

कुनेति । कुजगुरुचन्द्रवृथैः=युसितदीशपश्चमाशप्रदेभ्यः मङ्गलवृहस्पति
षोमसोप्यैस्तुतीयैकादशैः, वृहुधातरः=पहुधातुरुक्तः स्यात् ।

शन्यारात्राभ्यामिति । शन्यारात्राभ्यां=शनैरथरमङ्गलाभ्यां दृष्टे श्रोतस्यानेभ्यस्तु-
तीयैकादशास्थाने, पश्चात्वं=पश्चात्वम्, ग्रातुनाशः स्यात्, तृतीयै रही क्विन्तस्त्वैका-
दर्शे दृष्टी ज्येष्ठस्योपयन्त्र दृष्टालुमयोश्चत्रोर्नाशः स्यादिर्यर्थः ।

शनिनेति । शनिना=शनैरथैण दृष्टे पूर्वोक्तस्यानेभ्ये ग्रातुस्थाने, स्वमाप्रयोपः=
स्वमाप्रावशिष्टः स्यादन्ये नश्यन्ति ।

केतादिनि । केतो=श्रोतस्यानेभ्यस्तुतीयैकादशास्थाने केनुयोगे, मणिनीवा-
हुत्यम्=मणिनीवाहुत्यम् स्यात् ॥ ३२-३८ ॥

भाष्य—जन्मश्च, जन्मलग्नेः, जन्मलग्न से नरम भाव, उस के नरमान
और नरमोत्तर परिये आत्म्यात (तृतीय, एकादश) में शनि और राहु हीं तो भाँई
का नाम होता है ।

शुक्र हीं सो अपने से व्यवहित एवं और व्यवहित पश्चात् गर्भ का नाम होता है ।

एगम से लग्न में शुक्र की इटि हो तो भी व्यवहित गर्भ का नाम होता है ।

इक स्थानों से तृतीय, एकादश में मङ्गल, पृष्ठस्ति, चन्द्र, सुष हीं सो दृढ़त
भाँई पाला होता है ।

उस स्थानों से तृतीय, एकादश में शनि और मङ्गल की इटि हो तो पश्चात्वम
भाँई का नाम होता है । अर्थात् तृतीय में इटि होने से भाँई का नाम शुक्रादश
में इटि होने से भाँई का नाम होता है ।

अगर उस होनों में केवल शनि की इटि हो तो अपेक्षा वही वर्षता है ।

उक्त स्थानों से सृतीय, एकादश में केतु हो तो अधिक वहिन वाला होता है ॥
अथ दंष्ट्रायुक्त्योगमाह—

लाभेशाद् भाग्यभे राहौ दंष्ट्रापान् ॥ ३६ ॥

विद्—लाभेशादिति । लाभेशात्=उपपदात्समेशात्, भाग्यभे=द्वितीये, राहौ
स्थिते सति, दंष्ट्रापान्=दंष्ट्रायुक्तः स्यात् ॥ ३६ ॥

मापा—उपपद से सप्तमेश से द्वितीय में राहु हो तो वडे वडे दांत वाला होता है ॥
अथाद्स्फुटोक्तिमान् योगमाह—
केतौ स्तब्धवाक् ॥ ४० ॥

विद्—केताविति । केतौ=उपपदसमेशाद्वितीये स्थिते केतौ, स्तब्धवाक्=
अस्फुटोक्तिमान् भवेत् ॥ ४० ॥

मापा—उपपद से सप्तमेश से द्वितीय में केतु हो तो स्फुट वक्ता नहीं होता है,
अर्थात् रुक्ष कर बोलता है ॥ ४१ ॥

अथ बुरुपयोगमाह—

मन्दे कुरुपः ॥ ४१ ॥

विद्—मन्द इति । मन्दे=उपपदात्समेशाद्वितीये शनैश्चरे स्थिते सति,
कुरुपःस्यात् ॥ ४१ ॥

मापा—उपपद से सप्तमेश से द्वितीय में शनैश्चर हो तो कुरुप होता है ॥ ४१ ॥
अत्रोक्त वृद्धेन—

सप्तमेशाद्वितीयस्थे राहौ मूकः खले स्थिते ।

अदन्तोऽधिकदन्तो वा दंष्ट्रायुक्तोऽथवा भवेत् ॥

पवनव्याधिमान् केतौ यदा स्याद्स्फुटोक्तिमान् ।

तत्र मिथ्रप्रहैयोगे मिथ्रं फलमुदाहृतम् ॥

मापा—उपपद से सप्तमेश जो हो उस से द्वितीय में राहु स्थित हो तो मूक
होता है । पापभ्र स्थित हो तो विना दांत अधिक दांत अथवा वडे २ दांत वाला
होता है । केतु स्थित हो तो वातव्याधि वाला अथवा अस्फुट घचन बोलने वाला
होता है । अनेक महों का योग हो तो मिला हुआ फल समझना चाहिए ।

अथ गौरादिवर्णज्ञानमाह—

स्वांशवशाद् गौरनीलपीतादिवर्णः ॥ ४२ ॥

विद्—स्वांशवशात्=आत्मकारक्षनवाशस्तमावात्, गौरनील-
पीतादिवर्णः=जातकान्तरप्रसिद्धा गौरादिवर्णा ज्ञेयाः ॥ ४२ ॥

४ पादः] सोदाहरणा-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाध्ययसहितम् । १३२

भाषा—आत्मकारक के नवांश राशि के अन्य लातकों के वर्ण स्वरूप वर्ण होता है।
अथान्यजातकोंवर्णान् इह—

रक्षः इवेतः शुक्लतनुनिमः पाठलोध्नपाण्डुक्षिणः कृष्णः कृतक्षुद्रशः विहः कर्वुर्क्षे
वभुः स्वच्छः प्रथमभवनारेषु वर्णः ।

भाषा—मेष लाल, वृष इरेत, मिथुन हरा, कर्क गुलाबी, सिंह पीला (भूमर रह),
कन्या चित्र, तुला काला, पृथिक सोने का रह, घन पीला, मरु लाल-इरेत, कुम्भ
मुख्ल के सहश और मीन मठली के सहश होता है ॥

अथ स्फुटार्थं चक्रम्—

राशयः	मेषः	वृषः	मिथुने	कर्कः	विहः	कन्या
वर्णः	रक्षः	इवेतः	शुक्लतनु- निमः	पाठलः	ध्नपाण्डु	चित्रः
राशवः	तुला	वृथिकः	धनु	मक्तः	कुम्भः	मीनः
वर्णः	कृष्णः	कृतक सहशः	विहः	कर्वुरा	वभुः	स्वरूप सहशः

अथ देवभक्तिविवारणाह—

अमात्यानुचरादेवताभक्तिः ॥ ४३ ॥

यि०—अमात्यानुचरादिति । अमात्यानुचरात्=अमात्यकारकस्यानुचरो भ्रातृ-
कारकस्तस्यात्, देवताभक्तिः=देवताविषयकभक्तिविवार्या, अमात्यानुचरो देवताका-
रकस्तस्य पापत्वे कूरदेवतायां भक्तिः शुभरे सौम्यदेवतायाभिति । तथा तस्योष
गतत्वे स्वर्णगतत्वे च मरिईडा, नीवगत्वे शश्रुराशिगतत्वे च भवत्यस्यैवभित्या-
दिक्षे ज्ञेयम् ॥ ४३ ॥

भाषा—अमात्यकारक के अनुचर भ्रातृकारक से देवता में भक्ति का विचार
करता । अथोत्तमानुचरक यह में पापत्व हो तो शुभ देवता भक्ति होती है ; शुभत्व
हो हो सौम्य देवता में भक्ति होती है । अगर देवता कारण (भ्रातृकारक) दण्ड पा-
प्यपेत्रस्थ हो हो इड भक्ति होती है ; नीव अपवा शश्रु ऐश्वर्य हो हो भरट-
भक्ति होती है ॥ ४३ ॥

अथ दाज्जलादिग्रोगमाह—

स्थांशे केषलपापसम्बन्धे परजातः ॥ ४४ ॥ नाथ पापात् ॥ ४५ ॥

शनिराहुभ्यां प्रसिद्धिः ॥ ४६ ॥ गोपनमन्येभ्यः ॥ ४७ ॥
शुभवर्गेष्वादम् ॥ ४८ ॥ द्विग्रहे कुलमुख्यः ॥ ४९ ॥

विं—स्वाशा इति । स्वांशै=आत्मकारकनवांशै, केवलपांसम्बन्धे=केवल
पापप्रदसम्बन्धे, परजातः=जारजातः स्यात् ।

नात्रेति । अत्र पापात्=आत्मकारकस्य पापात्, न=पूर्वोक्तं फलं न भवति ।
अर्थादात्मकारकचेत्पापस्तदा परजातो न भवति, कारकातिरिक्तचेत्पापस्तदैव
परजातो भवतीत्यर्थः ।

शनिराहुभ्यामिति । शनिराहुभ्यां=कारकांशे शनिराहुभ्यां गताभ्यां, प्रसिद्धिः=
परजातत्वप्रसिद्धिः स्यात् ।

गोपनेति । अन्येभ्यः=अन्यपापप्रदेभ्यः कारकांशे हिष्टेभ्यः, गोपनं=परजा-
तत्वगोपनं भवति ।

शुभवर्गे इति । शुभवर्गे=कारकांशै शुभग्रहस्य वर्गे, अपवादमार्गं=परजात-
त्वापवाद एव न तु परजातत्वम् ।

द्विग्रह इति । द्विग्रहे=कारकांशै प्रददयेन द्विग्रहे, कुलमुख्यः=शुले धेष्ठो भवति ॥

भाषा—आत्मकारक के नवांश में केवल पाप प्रद के सम्बन्ध हो तो जार पुण्य-
से उत्पन्न होता है ।

अगर आत्मकारक पाप हो तो परजात नहीं होता है, अर्थात् आत्मकारक में
पापत्व हो तो परजात नहीं होता, किन्तु आत्मकारक से भिन्न पाप प्रहों के सम्बन्ध-
कोने से परजात होता है ।

कारकांश में शनि और राहु हो तो जार से उत्पन्न होना लक्षात हो जाता है ।

कारकांश में अर्णव पाप प्रह हो तो परजातत्व गुप्त रहता है ।

अगर कारकांश में शुभ प्रह के वर्ग हो तो परजातत्व अपवाद मात्र होता है ।

अगर कारकांश में दो प्रह हों तो अपने कुल में श्वेष होता है ।

जातकतत्वे जारजयोगः—

पष्टाङ्गेशौ चन्द्रारुतौ जारजः । पष्टाङ्गेशौ पापयुतौ जारजः ॥

जीवशुक्रान्यतामोगे प्राप्ननजः । अंशे पापमध्यसम्बन्धे जारजः ॥

केन्द्रसोरपेशयोगे जारजः । द्विग्रिपशापीशा सप्तगा जारजः ॥

पापेऽप्ते शुप्ते शूने योमन्दे जारजः । चन्द्रेऽप्ते शुप्ते योरपे शौमे जारजः ॥

सप्तेऽप्ते शुप्ते रात्रे पितृप्यजः । सप्तने रात्रारो पुण्यवन्तो शूने शीवजः ॥

शून्येषु केन्द्रेषु जारजः । यत्वे द्विषष्ठाणान्त्येषु जारजः ॥

जोवर्गंहीनेऽप्ते जारजः । संत्वे तुवे सपापचन्द्रे चन्द्रमसौ गुर्वद्वी जारजः ॥
पुष्टवन्तावेकमासौ गुर्वद्वी जारजः । लग्नाम्बुपष्टर्थमपयोगे जारजः ॥

धर्मे सुखे च पापेऽप्तेऽप्तले जारजः । सुखे पापान्तरे लग्नपेऽप्तले पापात्पै जारजः ॥
द्वौशो धर्मे सपापे भीमे हृष्टे जारजः । चन्द्रमन्दयोगे जारजः ।

भाषा—एष और अष्टम स्थान के स्वामी चन्द्रमा, महूल इन दोनों से युत हो कर चतुर्थ स्थान में हों तो जार से उत्पन्न कहना चाहिए ।

एष और अष्टम स्थान के स्वामी पापार्थों से युत हो तो जार से उत्पन्न कहना चाहिए ।

एष और नवम स्थान के स्वामी शनि से युत हो तो शुद्ध से उत्पन्न कहना चाहिए ।
पूर्व एष और नवम स्थान के स्वामी शुभ से युत हो तो वैद्य से उत्पन्न कहना चाहिए ।

सूर्य से युक्त हो तो कशी से, गुरु और शुक्र से युत हो तो ब्राह्मण से उत्पन्न कहना चाहिए ।

कारकीश लक्ष्मी में पापपह का सम्बन्ध हो तो जार से उत्पन्न कहना चाहिए ।

केन्द्र स्थानों (१, ४, ५, १०) के स्वामी से युत तृतीय भाव का स्वामी हो तो जार से उत्पन्न कहना चाहिए ।

द्वितीय, तृतीय, पक्षम और एष स्थान के स्वामी लक्ष्मी में स्थित हो तो जार से उत्पन्न कहना चाहिए ।

पाप एष स्थान में, शुभपह सप्तम में जार शनि दशम में हो तो जार से उत्पन्न कहना चाहिए ।

चन्द्रमा लक्ष्मी में, शुक्र पक्षम में और महूल तृतीय में हो तो जार से उत्पन्न कहना चाहिए ।

सूर्य स्थान में और चतुर्थ स्थान में राहु स्थित हो तो पापा से उत्पन्न कहना चाहिए ।

एष में महूल और राहु, सप्तम स्थान में सूर्य और चन्द्रमा स्थित हो तो नीष जाति से उत्पन्न कहना चाहिए ।

केन्द्रस्थान (१, ४, ५, १०) में कोई एष नहीं हो तो जार से उत्पन्न कहना चाहिए ।

सब एष द्वितीय, एष, अष्टम और द्वादश में स्थित हो तो जार से उत्पन्न कहना चाहिए ।

युहस्पति का पार्श्व में नहीं हो तो जार से उत्पन्न कहना चाहिए ।

दशम, लग्न और चतुर्थ स्थान में प्राप्त एष से युत चन्द्रमा रैथ हो और अष्टम चन्द्रमा दून दोनों पर इस्त्यति की दृष्टि न हो तो जार से उत्पन्न कहना चाहिए ।

सुर्य आर चन्द्रमा दोनों एक राशि में स्थित हो और उस पर वृहस्पति की दृष्टि न हो तो जार से उत्पन्न कहना चाहिए ।

लग्न, चतुर्थ, पष्ठ और नवम स्थानों के स्वामियों का एक राशि में योग हो तो जार से उत्पन्न कहना चाहिए ।

नवम और चतुर्थ स्थान में पाप प्रहृ बैठा हो और लग्न के स्वामी निर्बंध हो तो जार से उत्पन्न कहना चाहिए ।

निर्बंधी लग्न के स्वामी दो पाप प्रहृ के मध्य में स्थित होकर चतुर्थ में स्थित हो और उस पर पापप्रहृ की दृष्टि हो तो जार से उत्पन्न कहना चाहिए ।

सप्तम भाव के स्वामी पाप प्रहृ से पुत हो कर धन स्थान में बौद्धा हो और उस पर मङ्गल की दृष्टि हो तो जार से उत्पन्न कहना चाहिए ।

जारभज्ञयोगाः—

लग्नपेऽह्ने वा लग्नद्रष्टरि जारजयोगभज्ञः । लग्ने जीवयुतदृष्टे जारजयोगभज्ञः ॥

लग्नचन्द्रान्यतरो जीवभार्गवान्यतरगो जारजयोगभज्ञः ॥

भाषा—लग्नेश लग्न में हो या लग्न को देखता हो तो जारज योग का भङ्ग समझना चाहिए ।

वृहस्पति से लग्न पुत या दृष्ट हो तो जारज योग का भङ्ग समझना चाहिए ।

लग्न और चन्द्रमा वृहस्पति के राशि या दश वर्ष में हो तो जारज योग का भङ्ग समझना चाहिए ।

इति महर्पिजैमिनिप्रणीत-जैमिनिसूत्रटीकायां

प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः समाप्तः ।

इति प्रथमाध्याये समाप्तः ।

—०—

अथ द्वितीयाध्ये 'प्रथमः' पादः ।

आयुनिर्णयं विवक्षुरादी कुत आयुर्विचार इत्याह—

आयुः पितृदिनेशाभ्याम् ॥ १ ॥

विद्—आयुरिति । पितृदिनेशाभ्याम्=लग्नेशाष्टमेशाभ्याम्, आयुः=आयुर्विचार्यमिति शेषः ॥ १ ॥

भाषा-लग्नेश और अष्टमेश हन दोनों पर से आयुर्विचार का विचार करना चाहिए ।
अथ स्वगतेन दीर्घायुर्योगमाह—

प्रथमयोद्यत्तरयोर्यार्थ दीर्घम् ॥ २ ॥ प्रथमद्वितीययोरन्तरयोर्यार्थ मध्यम् ॥ ३ ॥

मध्ययोराद्यन्तयोर्यार्थ हीनम् ॥ ४ ॥

विद्—प्रथमयोरिति । प्रथमयोः=चरयोर्मध्ये स्थितयोर्हनेशाष्टमेशयोः,

दीर्घ=दीर्घायुर्योगः स्यात्, तपोत्तरयोः=स्थिरद्विस्वभावयोर्मध्ये स्थितयोर्लग्नेशाटमे-
शयोः, दीर्घ=दीर्घायुर्योगः स्यात् । अर्थात्-यम् कुत्रापि चररात्योर्मध्ये स्थितयो-
र्लग्नेशाटमेशयोर्दीर्घायुर्योगः स्यात्, स्थिरद्विस्वभावयोर्मध्ये स्थितयोर्लग्नेशाटमे-
शयोर्वा दीर्घायुर्योगः । तदथा-स्थिरे लग्नेशो उति हन्देऽष्टमेशः, हन्देशो लग्नेशो उति
स्थिरेऽष्टमेश इति पर्यायेण द्वावपि भवतस्तदापि दीर्घायुर्योगः स्यात् । अत्रैकस्मि-
न्नेव चरादौ तदुमयस्त्वे एकस्यैव तदुमयस्वामित्वे वा न योगहानिः । ६

प्रथमद्वितीययोरिति । प्रथमद्वितीययोः=चरस्थिरयोर्मध्ये स्थितयोर्लग्नेशाट-
मेशयोः (चरे लग्नेशः स्थिरेऽष्टमेशो वा स्थिरे लग्नेशधरेऽष्टमेशः) तदा मध्यं=
मध्यायुर्योगः स्यात् । तथा अन्तयोः=द्विस्वभावस्ययोर्लग्नेशाटमेशयोः (द्विस्वभा-
वयोर्यपि कुत्रापि लग्नेशाटमेशी चेद्गतस्तदापि), मध्यायुः स्यात् ।

मध्ययोरिति । मध्ययोः=स्थिररात्मिस्थयोर्लग्नेशाटमेशयोः वा आयन्तयोः=
चरद्विस्वभावस्ययोस्तयोः, हीन=अत्यपायुर्योगः स्यात् ॥ २-४ ॥

आथा—लग्नेश और अष्टमेश दोनों चर राति में अथवा स्थिर, द्विस्वभाव इन
दोनों में हो तो दीर्घायु योग होता है । अर्थात् लग्नेश और अष्टमेश दोनों जहाँ
कहीं भी चाराति में स्थित हो तो दीर्घायु योग होता है । अथवा लग्नेश और अष्ट-
मेश इन दोनों में से कोई एक स्थिर राति में दूसरा चर राति में जैसे लग्नेश स्थिर
में हो तो अष्टमेश द्विस्वभाव में अथवा लग्नेश द्विस्वभाव में हो तो अष्टमेश स्थिर
में उप भी दीर्घायु योग होता है ।

लग्नेश और अष्टमेश दोनों चर, द्विपर दोनों में स्थित हो अथवा दोनों केवल
द्विस्वभाव में स्थित हो तो मध्यायु योग होता है । जैसे लग्नेश चर में स्थित हो तो
अष्टमेश स्थिर में, अष्टमेश चर में हो तो लग्नेश स्थिर में अथवा लग्नेश और अष्ट-
मेश जहाँ कहीं दोनों द्विस्वभाव राति में हो हो तो मध्यायु योग होता है ।

आगर लग्नेश और अष्टमेश दोनों स्थिर राति में हो अथवा दोनों में से कोई
एक चर में दूसरा द्विस्वभाव में हो तो दीर्घायु योग होता है ॥ २-४ ॥

अथ प्रश्नापात्रेणायुर्विवारमाद—

एवं मन्दचन्द्रस्याम् ॥ ५ ॥

यित॑—एवमिति । एवं=यथा पूर्वं लग्नेशाटमेशात्यामापुर्विवारः इतस्तथा,
मन्दचन्द्रस्याम्याऽवानिवयन्द्राम्याऽलग्नेचन्द्रस्याम्याऽवायुर्विवारः कार्यः ।

मन्दचन्द्रेन शब्देनप्रस्त्य च (मन्द=८५, द्वादशमले शेषम्=१) च प्रदत्त
भवत्यतः एव लग्नेचन्द्रस्याम्याऽवानिवयन्द्राम्याऽवायुर्विवारः एवं दत्ते व्या-
स्यात् एषीबीनम् । अथ एव लग्नेचन्द्रस्याम्याऽवायुर्विवारः एवं व्या-

इति सन्देहनिवारकविशेषसूत्रमेतदध्यायाभिमस्थनवमसूत्रमेव कल्पते । कथितीकाकारः द्वयोरपि सूत्रयोर्मन्दपदेन लग्नमेव गृहणाति । तथापरोऽप्त्र मन्दपदेन शनेरेव प्रदर्शनं करोति, परब्रह्म पूर्वोक्तार्थं एव बहुसम्मतत्वसमीचीनः ॥ ५ ॥

भाषा—जिस प्रकार लग्नेश और अष्टमेश इन दोनों के वंश से दीर्घांदि आयुर्दायं विचार किया गया है । उसी तरह शनि, चन्द्रमा या लग्न, चन्द्रमा से विचार करना चाहिए ।

यहाँ पर मन्द पद से शनि और लग्न (मन्द=८५, ८५=१) दोनों का ग्रहण किया है अतः इसी तरह शनि, चन्द्रमा से वा लग्न, चन्द्रमा से विचार करना चाहिए ऐसा अर्थ करना ठीक है । तथा कहाँ शनि चन्द्रमा से और कहाँ पर लग्न, चन्द्रमा से विचार करना चाहिए यह सन्देह निवारण करने वाला विशेष सूत्र इसी अध्याय में इस सूत्र से आगे नवम सूत्र है ।

किन्तु टीकाकार दोनों सूत्रों में मन्द पद से लग्न का ही प्रदर्शन करते हैं । तथा बहुत दोनों जगह शनि का ही ग्रहण करते हैं । परन्तु यहाँ बहु सम्मत होने के कारण पूर्वोक्त अर्थ ही समीचीन है ।

अथ सृतीयप्रकारेणायुर्विचारमाद—
पितृकालतथ ॥ ६ ॥

विद्—पितृकालेति । पूर्वोक्तरीत्यैव पितृकालतः=जन्मलग्नहोरात्मभ्याम-
प्यायुर्विचारः कार्यः ॥ ६ ॥

भाषा—पूर्वोक्त रीति से जन्मलग्न और होरात्म पर से भी आयुर्दाय विचार करना ॥ ६ ॥

अथ दीर्घांशायुर्ज्ञानाय सुलभः प्रकारः—

चरे चरस्थिरदृढ़द्वाः स्थिरे द्रन्द्वचरस्थिराः द्रन्द्वस्थिरदृढ़चरा दीर्घमध्यालयकाः क्रमात् ॥

भाषा—यदि योग कारक दोनों प्रदर्शन में हो तो दीर्घायु योग होता है । एक चर में और दूसरा स्थिर में हो तो मध्यायु योग होता है । एक चर में दूसरा द्विस्थिरमात्र में हो तो अल्पायु योग होता है ।

इसी तरह पृथक लिघ्य में और दूसरा द्विस्थिरमात्र में हो तो दीर्घायु योग होता है । पृथक स्थिर में दूसरा चर में हो तो मध्यायु योग होता है । दोनों लिघ्य में हो तो अल्पायु योग होता है ।

तथा एक द्विस्थिरमात्र में और दूसरा लिघ्य में हो तो दीर्घायु योग होता है । दोनों द्विस्थिरमात्र में हो तो मध्यायु योग होता है । पृथक द्विस्थिरमात्र में और दूसरा चर में हो तो अल्पायु योग होता है ।

अथ चक्रचनाप्रकार उक्तो यृद्देः—

मन्त्रोऽरामदृ वस्ये शृणु त्वं तं द्विजोत्तमः चतौरेषालिखेतिर्यंक् चतुरुहस्यं लिखेत्पुनः ॥

नवकोष्ठे ग्रन्थे योगा दीर्घमध्यालयमायुपि । आयत्रये चर्तु लेख्यं तदधःस्थे क्रमेण च ॥
 चर्तु विष्वरं द्विस्वभावं संलिखेद्विजसत्तम । मध्ये विष्वत्रये श्वेषे तदथो द्विस्वभावतः ॥
 ददर्शनरसिंहरं लेख्यं निर्विवक्षं हिजोत्तम । अन्तत्रये द्विस्वभावं तदधः विष्वमादिरेत् ॥
 विष्वरं ददर्शनं चर्तु विष्वक्रमेण संलिखेत् सुधीः । तिर्थक् खोषानुसारेण दीर्घमध्यालयमायुपि ॥
 एवं पक्षित्रयं विष्व आदीपक्षित्रयेण च । भराधः विष्वपक्षित्रयस्थिरपक्षित्रयोऽभयम् ॥
 चतुर्थं लिखेत्तरं नवकोष्ठान्तरे द्विज । प्रथमाङ्केन संलेख्यमूर्धकोष्ठयात्तमके ॥
 तिर्थक् पक्षीच द्वितीयितिर्थपक्षित्रयेष्वपि । तदथोप्यपूर्वं पक्षी च लिखेदेवं प्रथमं ॥
 मध्यपंक्त्यूर्वं संलिख्यं द्वय मेकं थर्थं पुनः । अन्तव्यं पंक्त्यूर्वके लेख्यं त्रयं द्वैकं द्विजोत्तम ॥
 एवं क्रमेण वे विष्व तत्कोष्ठविष्वपक्षित्रय । आयुदीर्घमध्यालयात् विजेयानि सवन्तो हि ॥
 अधरोत्तरक्षेत्रं वामभागत्रिक्षेष्टके । दीर्घादुव विजानीयान्विशाङ्कं द्विजोत्तम ॥
 मध्यकोष्ठप्रथमं मध्ये दक्षिणकोष्ठेऽप्तव्यक्षम् । उत्तरविशितिका भेदा भाषिता द्विजसत्तम ॥
 संग्रामाभ्येष्टयोर्विष्व दीर्घादी च त्रयं प्रथम् । नवकोष्ठ विजानीयादायुः साधन हेतवे ॥
 सदैव संविजानीयात्कोष्ठाकं लग्नवन्दन्तयोः । नवकोष्ठ महाप्राप्त विजेया लग्नहोरयोः ॥
 एवं चतुर्दिशाशोनां भेदेनापि पृष्ठक् पृष्ठक् । नाना भेदशिंखुची तत्त्वाभ्ये त्वयाम्बद्धम् ॥

भाषा—आगे के चक्र से स्पष्ट है ।

अथात्-स्फुटार्थं चक्रम्—

	१ योगः	२ योगः	३ योगः
दीर्घायुः	चरमे लमेशः चरभेऽष्टमेशः	स्विष्मे लमेशः द्विस्वभावेऽष्टमेशः	द्विस्वमावे लमेशः स्विष्मेऽष्टमेशः
मध्यायुः	चरमे लमेशः स्विष्मेऽष्टमेशः	स्विष्मे लमेशः चरभेऽष्टमेशः	द्विस्वमावे लमेशः द्विस्वभावेऽष्टमेशः
वल्पायुः	चरमे लमेशः द्विस्वभावेऽष्टमेशः	द्विस्वभावे लमेशः चरभेऽष्टमेशः	स्विष्मे लमेशः स्विष्मेऽष्टमेशः

अथ प्रकारत्रयेष्व एकस्मिन्सेव समागते सदैवाक्षुमाण्डिमिति निर्विवादसेव,
 ग्रन्थात्रयेष्वेकस्माद्विस्वायुपि समागते निर्णयमाप्त—
 सम्बादात्मामाप्यम् ॥ ७ ॥

विं०—सम्बादादिति । सम्बादात्=प्रकारद्वैतैकायुः प्रकारेकेन भिन्नायुष्मि समागतत् सम्बादस्तस्मात्, प्रामाण्यं=प्रकारहयेनागतायुरेव प्राण्यम् ॥ ७ ॥

भाषा—अगर तीनों प्रकार से एक ही तरह की आयु आये तो निर्विवाद वही आयु ग्रहण करना चाहिए । अगर सम्बाद हो अर्थात् दो प्रकार से एक तरह की एक प्रकार से भिन्न तरह की आयु आये तो वहाँ पर दो प्रकार से आई हुई आयु का ग्रहण करना चाहिए ॥ ७ ॥

**अथ प्रकारत्रयेण भिन्ने भिन्ने-आयुषि समागते निर्णयमाह—
विसम्बादे पितृकालतः ॥ ८ ॥**

विं०—विसम्बाद इति । विसम्बादे=प्रकारत्रयेण भिन्ने भिन्ने आयुषि समागते, पितृकालतः=लभ्नहोरालमाभ्यां यदायुः समागच्छेतदेव प्राण्यम् ॥ ८ ॥

भाषा—अगर पूर्वोक्त तीनों प्रकार से भिन्न भिन्न आयु आये तो लभ्न और होरालम के बश से सिद्ध जो आयु हो उसी का ग्रहण करना चाहिए ॥ ८ ॥

अथ पश्चमसूत्रसन्देहनिराकुर्व्यज्ञाह—

पितृलाभगे चन्द्रे चन्द्रमन्दाभ्याम् ॥ ९ ॥

विं०—पितृलाभग इति । चन्द्रे=सोमे, पितृलाभगे=लग्नसप्तमगे सति, चन्द्रमन्दाभ्यां=चन्द्रलग्नाभ्याम् ।

अन्यथा शनिचन्द्राभ्यां द्वितीयप्रकार आयुविचार्यम् ।

ये च विसम्बादप्रशङ्खोऽविशेषसूत्रमिदं स्वीकुर्वन्ति तेषामपि पक्षद्वयम्, तत्रैको मन्दपदेन लग्नस्यान्यः शनैर्ग्रहणं करोति । तत्रैमावर्धी-लग्नसप्तमान्यतरस्ये चन्द्रमसि सति विसम्बादे पक्षे लग्नचन्द्राभ्यां पक्षे शनिचन्द्राभ्यामागतायुर्प्राण्यम् । तथा हि-यथ “एवं मन्दचन्द्राभ्याम्” इति सूत्रप्रतिपादितद्वितीयप्रकारे लभ्नचन्द्राभ्यामायुरानयति तन्मतेन लभ्नचन्द्राभ्यामागतायुर्प्राण्यम् । यथ तत्र शनिचन्द्राभ्यामानयत्यायुस्तन्मतेन शनिचन्द्राभ्यामागतायुर्प्राण्यम् । परवान्न पूर्वोक्तार्थं एव समीक्षीनो वहुसम्मतत्वात् ।

यद्यैकत्र तस्मिन्नर्थे मन्दपदेन लग्नशनैर्धरयोरन्यथ केवलं लभ्नस्य ग्रहणं स्वाविवेक्युदया असमीक्षीनं विलोक्य नवमपश्चमयोर्द्वयोरपि सूत्रयोर्मन्दपदेनैकार्थप्रहणयोपदिशति सोऽपरीक्ष्य वादी । यतोऽस्मिन् शास्त्रे लाघवप्रसङ्गप्रयत्नमानेनाचायेण वहुत्र इलटादैरेव सूक्ष्मं निरनयि, एतद्यावत्प्रतिपादितानेकसूत्रदाः प्रमन्दपदेन लग्नशनैर्धरयोर्द्वयोरप्यर्थयोर्वुद्दिविषयीभूतत्वात् । अतः पश्चमसूत्रेऽर्थयोर्द्वयोरपि ग्रहणं योग्यमेव एकस्मिन् शास्त्रेऽनेकत्र प्रयुक्तानेकार्थकशद्वस्य भवेदेकप्रार्थं इति न कथितियमः ॥ ९ ॥

भाषा—यदि लग्न या सप्तम में चन्द्रमा दीना हो तो लग्न और चन्द्रमा पर से विशेष प्रकार में आयु का विचार करना चाहिए। अगर उस स्थान से अन्यथा चन्द्रमा दीना हो तो शनि और चन्द्रमा पर से आयु का विचार करना।

जो कोई विस्मयाद प्रसङ्ग में इस सूत्र को करते हैं, उन का भी दो पक्ष है। कोई मन्द पद से लग्न कोई शनि का प्रहण करते हैं। जैसे जो “पव मन्दचन्द्रा-स्याद्” इस पञ्चम सूत्र में मन्द पद से लग्न का प्रहण करते उनका मत है कि विम स्वाद होने पर लग्न या सप्तम में चन्द्रमा दीना हो तो लग्न और चन्द्रमा पर से सिद्ध आयु का प्रहण करना चाहिए। जो उक्त सूत्र में मन्द पद से शनि का प्रहण करते हैं उन का मत है कि विस्मयाद होने पर शनि और चन्द्रमा के बीच सिद्ध आयु का प्रहण करना चाहिए। परब्रह्म हुआ सम्मत होने के कारण दूसीक अर्थ ही समीक्षीय है। जो कोई उस अर्थ में एक जगह मन्द पद से लग्न और शनि द्वारा अन्यथा ऐकल लग्न का प्रहण देख कर स्व अपरिषद्बुद्धि से असमीक्षीय कहते हैं और नगम, पञ्चम इन दोनों सूत्रों में एक ही अर्थ प्रहण करने के लिए उपरोक्त कहते हैं व विचार कर नहीं कहते। क्यों कि इस शास्त्र में लाघव के प्रसङ्ग में पठनवान् आचार्य घृत जगह दिलष पद से ही सूत्र निर्माण किये हैं इस शास्त्र से मन्द पद से लग्न और शनि दोनों का प्रहण होता, अत वज्रम सूत्र में दोनों अर्थों का प्रहण करना ठीक है। एक शास्त्र में दो जगह एक शब्द आने से दोनों का एक ही अर्थ हो एसा कोई नियम नहीं है।

अथ दीर्घयुर्योगमाह शुद्ध —

लानेशाट्मनायाभ्यामायुर्दय विविन्तयेत् । दीर्घमध्यात्मयोगत्व यथावद्वदतो मम ॥
चोऽचरे हिते द्वीच लग्ननन्दाधिष्ठीय यदि । पूर्णयुर्योगो विवेयो निर्विशद्वद्विजोत्तम ॥
स्तिरहें लग्ननायोहि ल्येते द्वन्द्वमेस्थिते । तदायु पूर्णयोगश सम्मवेद् गणिताप्रणी ॥
तन्यधीशो हिते द्वन्द्वे स्तिररात्रील्याधिषे । पूर्णयुर्योगो विवेयो निर्विशक द्विजोत्तम ॥

अथ मध्यायुर्योग —

अभात सप्तवद्यामि भष्यायुर्योगमुत्तमम् । चरेलग्नाधिषे विश्व हिते रन्ध्रपतिर्यदि ॥

तदा मध्यायुप विन्द्याद्वीद्वन्द्वे मध्यमायुप ।

अध्याल्पायुर्योग —

नेशाधिष्ठचरे यस्य द्वन्द्वमे रन्ध्रनायके । तदाल्पायुर्महाप्राप्त निर्विशद्वद्विजोत्तम ॥
स्तिरेऽस्तिरे हिते द्वीच लग्ननन्दाधिष्ठीद्वित । स्वप्नायुस्तत्र विजेय स्थिरकर्त्ता प्रणोदितम् ॥
त्रैरात्मा विलग्नाभ्यां योगमेव विविन्तयेत् । तथैव तनुवन्द्राभ्यां मायुर्योग विविन्तयेत् ॥

जन्मेन्द्री या हिते द्वून चान्यस्पे मन्दचारयो ।

तथा तु नहते नैवोक्तम् —

स्वनेशाट्मेशाय योगैक कदितो द्वित । द्वौरात्मविलम्बाभ्यां योगमन्य विविन्तयेत् ॥

तृतीयं शनिचन्द्राभ्यां चिन्तनीयं सदाद्विज । लग्नेन्दौ मदने वापि चिन्तयेष्टगचन्द्रतः ॥
भाषा—इत्यादि सब प्रमाणों से सिद्ध होता है कि लग्न या सप्तम में चन्द्रमा हो तो तृतीय प्रकार में लग्न और चन्द्रमा के बश अन्यथा स्थित हो तो शनि और चन्द्रमा के बश आयुर्दायका ज्ञान करना चाहिए । अतः इस से विरुद्ध अर्थ करना दीक नहीं है । यहु समस्ति से यही अर्थ आता है । और इसी अर्थ के अनुसार कुण्डली में आयु निर्णय करने से मिलता है यह इमने सौकड़ों कुण्डली में देखा है ।

अथ दीर्घायुर्योगत्रयमाह वृद्धः—

रसाङ्कै(१६)र्गजात्रेन्दुभिः (१०८) शून्यमासैः (१२०)

त्रिधा दीर्घमायुः कलौ संप्रदिष्टम् ।

अथ मध्यायुर्योगत्रयमाह—

चतुः पष्ठि (६४) बाह्य (७२) शीति (४०) प्रमाणैर्भतं मध्यमायुर्नृणां
वत्सरैः स्यात् ।

अथाल्पायुर्योगत्रयमाह—

तथा द्वित्रि (३२) पद्मविहि (३६) शून्याद्वि (४०) वर्षैर्भवेदल्पमायुर्नराणां
युगान्ते ।

अःन्यच—

दीर्घं योगत्रयेणैव नखचन्द्र (१२०) समाद्वका ।

योगद्वयेन वस्त्वाशाः (१०८) योगैवेन रसाङ्ककाः (१६)

मध्ये योगत्रयेणैव खाष (८०) तुल्याद्वकाः स्मृताः ।

ज्वगाः (७२) योगद्वयेनात्र योगैकेनाधिष्ठप्त् (६४) मिताः ॥

अल्पे योगत्रयेणात्र दात्रिशान्मित (३२) वत्सराः ।

योगद्वयेन पट्टिशात् (३६) योगेकत च खाव्ययः (४०) ॥

भाषा—१६, १०८, १२० ये दीर्घायु के तीन भेद हैं ।

६४, ७२, ८० ये मध्यायु के तीन भेद हैं ।

तथा ३२, ३६, ४० ये अल्पायु के तीन भेद हैं ।

यदि पूर्वोक्त तीनों प्रकार से दीर्घायु योग आये तो १२० वर्षे दो प्रकार से दीर्घायु योग आये तो १०८ वर्षे और पृथक प्रकार से दीर्घायु योग आये तो ६४ वर्षे जानना ।

इसी तरह तीनों प्रकार से मध्यायु योग आये तो ८० वर्षे दो प्रकार से मध्यायु योग आये तो ७२ वर्षे और एक प्रकार से मध्यायु योग आये तो ६४ वर्षे जानना ।

तथा तीनों प्रकार से अल्पायु योग आये तो ३२ वर्षे दो प्रकार से आये तो ३६ वर्षे एक प्रकार से अल्पायु योग आये तो ४० वर्षे जानना ।

अथ स्फुटार्थं चक्रम्—

दीर्घायु	एकयोगे (१६)	योगद्वये (१००)	योगत्रये (१२०)
भृष्यायु	एकयोगे (६४)	योगद्वये (७२)	योगत्रये (८०)
अल्पायु	योगत्रये (३२)	योगद्वये (३६)	एकयोगे (४०)
प्रथमादि-संषड्गानि	३२	३६	४०

अथ स्पष्टायु साधनप्रकार—

पूर्णमादौ हानिरन्तेऽनुपातो भृष्यतो भवेत् ।

भाषा—योगकारक प्रह राशि के आदि में हो तो पूर्वोक्त संषड तुल्य आयु ज्यादा होती है । राशि के सन्त में हो तो लगड़ तुल्य आयु का नाश होता है । भृष्य में अनुपात से स्पष्टता करनी चाहिए ।

जैसे—पहले अमीष कुण्डली में सूर्य आदि सात प्रह और उग्र को स्पष्ट कर देना, उस के बाद पूर्वोक्त तीनों योगों के द्वारा लाय हुए आयुर्दीयों से दीय आदि आयुर्दीय का निश्चय कर देना, तब वश्यमाण रीति से आयु की स्पष्टता करनी चाहिए, जैसे योगकारक प्रह जिनमें हों उन के अंशादिकों के योग में योगकारक की दरूणा से भाग देना (अर्थात् एकयोग से सिद्ध आयुर्दीय हो तो वो से, दो योगों से सिद्ध हो तो चार से, तीनों योगों से सिद्ध हो तो छ से योगकारक के अंशादि योग में भाग देना), इस तरह भाग दने से जो अंशादि लब्ध हो उस को यथा प्राप्त लगड़ से गुणा कर तीस का भाग देना, लब्ध वर्षीय जो हो उस को यथा प्राप्त आयु-दीय में घटाने से स्पष्ट आयुर्दीय हो जाता है ।

१९४६, शालिवाहनशक्ति के १८
तदुपरि नवम्या, पुनर्वृत्तुनश्त्री
त्यादिमानम्=२४१२३, तदुपरि
साथे, गुदवासरे श्रीसूर्यमुक्तनुलांशकाशा=२१००५२,

श्रीसूर्योदयादिवृष्ट्य=५३१११, भित्रमानम्=४४११६, विद्येशान्तरधनम्=५०००८१५५, तात्कालिकोऽक्त=६०२०१४५, दिनमानम्=२८१२१, रात्रिमानम्=२११२९, अयनांशा=२००५१०९, प्रथमलग्न रात्र्यादि=४१२५१३३१५३, रात्री पद्धिमनतम्=८१५६, उनतम्=१११४, दशमलग्न रात्र्यादि=११२५१९५१५४,

अत्र ग्रयोजनीयहोरलग्नमानम्=११०१२१४५, एतस्मिन्द्युमये कस्यचिन्म् जातम् ।

अत्र तात्कालिकस्फुटग्रहास्तरगतिकाः—

रविः	६०२१०९१४५	गतिः	५९१४५
चन्द्रः	३१७१९१८१२६	गतिः	८१०१२९
कुजः	४१२२१३१५४	गतिः	३४१०२
बुधः	५१२११३७१२१	गतिः	१०१०१०५
शुक्रः	८१११३५११३	गतिः	११३५
शनिः	५१३१५६१४६	गतिः	७३११९
राहुः	२१९६१०७१४५	गतिः	३१११
केतुः	८१६१०७१४५	गतिः	३१११

अथ तन्वादयो द्वादशभावास्तसंधयः—

तनुः	४१२५१३३१५३	सन्धिः	५१९०१३११२६
धर्म	५१२५१२९१००	सन्धिः	६११०१२६१००
सहजः	६१२५१२४१०७	सन्धिः	७११०१२११४०
बन्धुः	७१२५१११११४	सन्धिः	८११०१२११४१
सुतः	८१२५१२४१०७	सन्धिः	९११०१२६१३३
रिपुः	९१२५१२९१००	सन्धिः	१०११०१३११२७
जाया	१०१२५१३३१५३	सन्धिः	१११०१३३१२६
मृत्युः	१११२५१२९१००	सन्धिः	००११०१२६१३४
धर्मः	००१२५१२४१०७	सन्धिः	१११०१२११४०
कर्मः	११२५१११११४	सन्धिः	२११०१२११४२
आयः	२१२५१२४१०७	सन्धिः	३११०१२६१३३
व्ययः	३१२५१२९१००	सन्धिः	४११०१३११२७

* जन्मकुण्डली *



प्रथम लग्नेश और लग्नेश से विचार करते हैं। यहाँ पर लग्नेश रवि, और अष्टमेश गुरु है। रवि घर (हुला) में और वृहस्पति द्विःस्वभाव (धनु) में है अतः “मध्ययोशाधन्तयोर्वा हीने” इस सूत्र से अव्यायु योग सिद्ध हुआ।

द्वितीय प्रकार—लाल और होरालाल से विचार करते हैं। यहाँ लाल लिथर (सिंह) में और होरालाल घर (कर्क) में है, अतः पूर्वोक्त सूत्र से मध्यायु योग सिद्ध हुआ।

तृतीय प्रकार—शनि और चन्द्रमा के बश विशार, यहाँ शनि लिथर (सिंह) में और चन्द्रमा घर (कर्क) में है, अतः पूर्वोक्त सूत्र से मध्यायु योग सिद्ध हुआ। यहाँ एक प्रकार अव्यायु और दो प्रकार से मध्यायु योग सिद्ध होने के कारण “सम्यादाहप्रमाणयम्” इस सूत्र से मध्यायु योग ही सिद्ध हुआ।

अंशादि योगकारक प्रह

उग्न = ३५। १३। ५३

होरालाल = १०। २१। ४५

शनेश्वर = ११। १५। १२

चन्द्र = १४। १८। २६

योग = ११। २१। १६

इस में योग कारक संख्या ४ का भाग दिया तो उत्त्व अंशादि = १६। ४४। ११। शतना हुआ, इस को दो प्रकार से मध्यायु योग सिद्ध होने के कारण द्वितीय रण्ड = ३६ से गुणा किया गया = (१६। ०। ६६। ०। २८९) - (१५। ०। ४। ४९)

$$-(99\frac{1}{2} + \frac{4}{60} + \frac{49}{3600}) = (99\frac{1}{2} + \frac{1}{19} + \frac{1}{60})$$

इस में तीस का भाग दिया तो लक्ष्य वर्ष=१८,

वर्षावशेष=११ + $\frac{1}{40}$ + $\frac{1}{30}$, इस को बारह से गुणा किया तो

$$\text{मासात्मक}=12\left(11 + \frac{1}{40} + \frac{1}{30}\right) = 2\left(11 + \frac{1}{40} + \frac{1}{30}\right) = 22 + \frac{1}{40} + \frac{1}{30}$$

प्रथम खण्ड में भाग देने से लक्ष्य मास=४,

मासावशेष=३ + $\frac{1}{40}$ + $\frac{1}{30}$, इस को तीस से गुणा किया तो दिनात्मक=

$$30\left(3 + \frac{1}{40} + \frac{1}{30}\right) =$$

$$6\left(3 + \frac{1}{40} + \frac{1}{30}\right) = 12 + \frac{1}{19} + \frac{1}{20} =$$

१२ + $\frac{1}{40}$ + $\frac{1}{30}$, अतः लक्ष्य दिन=१२,

दिनावशेष=५५ + $\frac{1}{30}$, इस को साठ से गुणा किया तो घट्यात्मक=

$$60\left(\frac{55}{30} + \frac{1}{30}\right) = 12 \times 4 + 3 \times 3 = 48 + 9 = 57 = \text{घटी}.$$

अतः लक्ष्य वर्षादि=१८। १२। १२। १५। ०० इस को दो योग सम्बन्धी मध्यायु वर्ष ५२ में घटाया तो

$$\text{स्पष्टायु वर्षादि}=५२ - (18। ४। १२। १५। ००) = १३। ७। १३। ०।$$

अथात्र भद्रीयः सुलभः प्रकारः—

यदंशादिकं योगकर्तृप्रहाणं भवेयोगमानं हृतं कर्तृसंख्यैः ।

गुणं प्राप्तस्थाप्तेः पुनर्द्वीदशर्थं दिनाद्यं फलं भुक्तमायुः प्रमाणम् ॥

विहीनं सदा तेन वर्षोक्तेन यथा लक्ष्यमायुर्भवेत्प्रस्फुटं तत् ।

अकार्विद्याहं छात्रव्यूहतिप्रीत्यै प्रकारं नितान्तं कियालापदं वै ॥

भाषा—योग कारक जितने प्रहादि हों उन के अंशादिकों में योग कारक प्रहादिकों की संख्या से भाग दे कर जो अंशादि लक्ष्य हो उस को यथा प्राप्त खण्ड से ५ गुण कर फिर बारह से गुणा करे तो दिनादि भुक्त आयु हो जायगी । उस को यथा प्राप्त आयुदाय में घटाने से स्पष्टायुदाय हो जायगा ।

ददाहरण—पूर्वोक्त योग काटक प्रहारिकों का योग=(६१२११६), इस में योग संख्या (४) से भाग देकर उच्च अंशादि=१५४४'४११", इस को यथा प्राप्त लाठ ३६ से गुणा किया तो=(२९१४'४१") इतना हुआ, इस को बारह से गुणा किया तो दिनादि फल=६६१३१४१४०=६६१३१४० दिन में दीस से भाग देने से भासादि फल=३२०११३१४०, भास में बारह से भाग देने से वर्षादि फल=१८१४० हुआ, इस को यथा प्राप्त मध्यायु वर्षे ७२ में घण्टने से पूर्व तुल्य सुनायु=५३१७१७३० हुई ।

अब द्वितीयोदाहरण-श्रीमन्त्यपतीन्द्रविक्रमसमवत्सरे ११५०, शालिकाहन-शके १८१५, फलगुणशुक्लदशभ्या धर्यादिमानम्=३२१४, गुर्वसुनश्वेष धर्यादिमानम्=१४१५८, शोभनवोषे पठथादिमानम्=३१४८, विजिजकरणे पठथादिमानम्=४१४८, शुक्लासरे श्रीसर्वोदयादिएषव्यादिः=४१२०, मिथ्यानम् ४६१२, मिथ्येष्टान्तरधनम्=००१९४१७, तारकालिकोऽहं: १११८५२४५५, दिनमानम्=३२१४, रात्रिमानम्=२७१५६, अथनाशा=२२१५८१५, प्रथमलात्तर रात्र्यादि=००११११६२०, दिने पूर्वनतम्=१५४४३, उष्णतम्=१४१७, दशमलात्तर रात्र्यादि=१००११२१४९,

क्षत्र ग्रयोजनीयहोरात्मसमानमानम्=१००१५१५५५५,


अथ सुनायुप्रदाः संगतिकाः—

रति:	१११०८५२३४५	गति:	५८१२६
वर्ष:	३१०२१५४११९	गति:	४४३१२०
हुक्त:	५१०१११०११७	गति:	४११६
कुरु:	१०१२२१०६११३	गति:	१०११५०
गुरु:	११०२१२११११४	गति:	२१३३
शुक्र:	५१२७११६१३४	गति:	५४१३
ज्येष्ठ:	५१२३१३४१४४	गति:	००१५
राहु:	११११८११२	गति:	३११९
लेनु:	५११८११२	गति:	३११९

अथ तन्यादयो द्वादशाभाषाः सप्तस्थयः—

तिरुः	००१११११६१२०	सन्धिः	००११४१२५१४५
धनं	११०७१३५११०	सन्धिः	०११२०१४४१३५
सहजः	२१०३१५४१००	सन्धिः	२११७१०३१२५
बन्धुः	३१००११२१४९	सन्धिः	३११७१०३१२५
सुतः	४१०३१५४१००	सन्धिः	४१२०१४४१३५
रिपुः	५१०७१३५११०	सन्धिः	५१२४१२५१४५
जाया	६१११११६१२०	सन्धिः	६१२४१२५१४५
सूख्यः	७१०७१३५११०	सन्धिः	७१२०१४४१३५
धर्मः	८१०३१५४१००	सन्धिः	८११७१०३१२५
कर्म	९१००११२१४९	सन्धिः	९११७१०३१२५
आयः	१०१०३१५४१००	सन्धिः	१०१२०१४४१३५
व्ययः	१११०७१३५११०	सन्धिः	१११२४१२५१४५

* जन्मकुण्डली *



तृतीय प्रकार—अनि और चन्द्रमा पर से विचार यहाँ शनि द्वितीयभाव (कन्या) में और चन्द्रमा चर (कर्क) में है। अतः “मध्ययोराद्यन्तयोवां हीनंम्” इस सूत्र से हीनायु योग सिद्ध हुआ।

यहाँ तीनों प्रकार से भिन्न भिन्न आयुर्दीय सिद्ध होने के कारण “विस्त्वादे पितृकालतः” इस सूत्र से मध्यायु योग सिद्ध हुआ।

प्रथम प्रकार—लग्नेश और अष्टमेश से विचार। यहाँ लग्नेश और अष्टमेश दोनों मङ्गल ही है, वह चर में है अतः “प्रथमयोरुत्तरयोवांदीर्घ्यम्” इस सूत्र से दीर्घायु योग आया।

द्वितीय प्रकार—लग्न और होरा लग्न से विचार। यहाँ लग्न चर में और होरा लग्न लिथर में है। अतः “प्रथमद्वितीययोरन्त्योवांमध्यम्” इस सूत्र से मध्यायु योग सिद्ध हुआ।

१०८:] सोनादाहरण-यिमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाद्वयसहितम् । १४६

योग कारक लम्ब और होरा लम्ब के अंशादिकों का योग

$$\begin{array}{r} \text{लम्ब} = ११११६१२० \\ \text{होरा लम्ब} = ००१५२१५५ \\ \hline \text{योग} = १३१०६१७५ \end{array}$$

इस में योग कारक संख्या थो का भाग दिया तो लक्षण अंशादि = ६१४'१३७"
इतना हुआ । इस को एक प्रकार से मध्यांत्र योग सिद्ध होने के कारण प्रथम लक्षण = ३५ से गुणा किया तो ११३११३८१११४' = ११३१२७१४४'

$$= (114 + \frac{13}{60} + \frac{7}{3600}) - (114 + \frac{6}{20} + \frac{11}{100})$$

इस में तीस का भाग दिया तो लक्षण वर्षे = ६,

$$\text{वर्षावरोप} = \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{10} \right)$$

$$\text{इस को चारदे से गुणा किया तो मासात्मक} = १३ \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{10} \right) =$$

$$1 \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{10} \right) = \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{10},$$

यही प्रथम लक्षण से भाग देने से लक्षण मास = ६,

$$\text{मासावरोप} = ६' + \frac{1}{20} + \frac{1}{100} = \frac{6}{6} + \frac{1}{10} + \frac{1}{80},$$

$$\text{इस को तीस से गुणा किया तो दिनात्मक} = १० \left(\frac{6}{6} + \frac{1}{10} + \frac{1}{80} \right) = \\ 1 \left(1 + \frac{1}{5} + \frac{1}{80} \right)$$

$$= 1 + \frac{1}{5} + \frac{1}{80} = 1 + \frac{16}{80} + \frac{1}{80} = 2 + \frac{1}{5} + \frac{1}{80}, \text{अतः एक दिन} = 2.$$

$$\text{दिनावरोप} = \frac{1}{5} + \frac{1}{80},$$

$$\text{इस को सात से गुणा किया तो पञ्चात्मक} = १० \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{80} \right) = \left(-12 \times 1 + \frac{4 \times 11}{5} \right) . 11 + \frac{11}{5} = 11 + \frac{1}{5}$$

अतः लघु घटी=३२, शेष= $\frac{४}{६}$ को साठ से गुणा किया तो पला = $\frac{४ \times ६०}{६} = ४८$,

अतः लघु वर्णादि = ६।१।२३।३।२।४८

इस को पूक योग सम्बन्धी मध्यायु वर्ण = ६४ में घटाया तो रूपायु = ६४-(६।१।२३।३।२।४८) = ५७।६।६।२७।१२ हुई।

अथ सूतीयोदाहरणं—सम्वत्सरे १९९५, शके १८५९, आश्विनशुक्लैकादशी घटयादिमानम्=४।४।६ तदुपरि द्वादश्याम्, शतभिषानक्षत्रे घटयादिमानम्=४।६।१५, तदुपरि पूर्वमाद्रे गण्डयोगे घटयादिमानम्=९।१।२।४, तदुपरि वृद्धियोगे, शनिवासरे श्रीसुर्यभुक्तकन्याशकादाः=२।९।३।५।४।३, सूयोदयादिष्टघटयः=४।७।३।९।३।०, दिनमानम्=२।८।३।५, रात्रिमानम्=३।१।२।५, मिथ्रमानम्=४।४।१।७।३।९, मिथ्रे-षान्तरधनम्=०।०।३।१।२।२ तात्कालिकोऽर्थः=५।२।९।३।९।४, अयनांशाः २।९।३।४।३।६ प्रथमलग्ने राश्यादि=३।२।४।१।४।३।८, रात्री परिचिमनतम्=३।२।१।१।३।०, उच्चतम्=२।६।३।८।१।३।९, दशमलग्ने राश्यादि=०।०।२।०।२।३।४।५ एतस्मिन् रामये कस्य निजन्म जातम्। भयातम्=१।२।४, भभोगः=५।१।५।२।।

अत्र प्रयोजनीयहोरालग्ने राश्यादि=१।०।१।२।७।०।४।

अथ तात्कालिकस्फुटग्रहाः सगतिकाः ।

रविः	५।२।९।३।१।०।४	गतिः	५।१।४।०
चन्द्रः	१।०।२।०।१।९।८।४।३	गतिः	
मंगलः	८।९।८।३।७।३।६	गतिः	४।०।५।६
बुधः	५।२।२।३।१।१।४	गतिः	१।०।०।२।२
गुरुः	८।२।७।१।२।१।७	गतिः	५।५।९
शुक्रः	५।४।१।२।१।४	गतिः	७।३।१।९
शनिः	१।१।५।१।५।३	गतिः	३।१।३।८
केतुः	१।१।७।१।८।०।६	गतिः	३।१।१
राहुः	७।१।७।१।८।०।६	गतिः	३।१।१

योग कारकों का अंशादि योग—

लग्नेश = चन्द्रमा=	२०१२८।४३
अष्टमेश = शनि=	५।०५।५३
शनि=	५।०५।५३
चन्द्रमा=	२०१२८।४३

$$\text{योग} = ३३।०१।१२$$

इस में योग कारक संहया घार का भाग दिया तो लक्षण अंशादि - ८।१।१।
इतना हुआ, इस को दो प्रकार से दीर्घायु योग सिद्ध होने के कारण द्वितीय खण्ड
३६ से गुणा किया जो (२८।८।२।१६४८) = २९।८।२३।१८ =

$$(२९।८ + \frac{३३}{६०} + \frac{४८}{३६००}) = (२९।८ + \frac{११}{३०} + \frac{१}{७२})$$

इस में तीस का भाग देने से लक्षण वर्ष = ९, वर्षावशेष = $\frac{२८ + \frac{१}{३०} + \frac{१}{७२}}{३०}$

इस को बारह से गुणा किया तो मासात्मक = १२ $(\frac{१ + \frac{१}{३०} + \frac{१}{७२}}{३०})$ =

$$१ (\frac{१ + \frac{१}{३०} + \frac{१}{७२}}{३०}) = ५६ + \frac{१}{३०} + \frac{१}{७२},$$

यहाँ प्रथम खण्ड में भाग देने से लक्षण मास = ११,

मासावशेष = $\frac{१ + \frac{१}{३०} + \frac{१}{७२}}{३०}$, इस को तीस से गुणा किया तो दिनात्मक =

$$३० (\frac{१ + \frac{१}{३०} + \frac{१}{७२}}{३०}) = ६ (\frac{१ + \frac{१}{३०} + \frac{१}{७२}}{३०}) =$$

$$६ + \frac{१}{३०} + \frac{१}{७२} = ६ + \frac{१}{३०} + \frac{१}{७२} =$$

६ + $\frac{१}{३०}$ + $\frac{१}{७२}$ = ६ + $\frac{१}{३०}$, अतः लक्षण दिन = ६, दिनावशेष = $\frac{१}{३०}$, इस को साठ
से गुणा किया तो घट्यात्मक = ६० ($\frac{१}{३०} + \frac{१}{३०}$) = $\frac{६० \times १}{३०} + \frac{६० \times १}{३०} = १२ \times २ +$
 $\frac{६० \times १}{३०} = २४ + \frac{६०}{३०} = ३३ + \frac{१}{३०}$ अतः लक्षण घटी = ३३, घटी शेष = $\frac{१}{३०}$ को साठ से
गुणा किया तो पला = $\frac{३३ \times १}{३०} = ११ \times ३ = ३३$ इतना हुआ। अतः लक्षण वर्षादि =
१।१।१।०।३।३।३६ इस को दो योग सम्बन्धी दीर्घायु (१०८) में घटाया तो ल्पष्टायु =
१०८ - (१।१।१।०।३।३।३६) = १।८।०।०।१।१।३।६।३४ इवती हुई।

१७३] सोद्धाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाद्वयसहितम् । १५३

चतुर्थमुदाहरण-शुभशाखे १८५८, चत १३४४, साल अदिवनद्युष्मार्गिमा-
तिपिण्डादि: १०१०० तदुपरि प्रतिपद, अदिवनीनश्च द० १४५१ तदुपरि
मरणी, विद्वियोग द० ४०१४३ तदुपरि भाष्यः, शुक्रवासरे श्रीसूर्यमुदाहरणाकाशाः
१३५०११ स्वेदद्वादिष्ठटयः=५११२६, दिनमात्रम् २७४२, रात्रिमात्रम्
३२१८, दिनार्द्धम् १३५१, रात्र्यार्द्धम् ११९, भित्तमात्रम् ४३१५१, भित्तेष्टान्तर-
मनम् ५०१५०२७, तात्कालिकोऽर्कः ६१११०५१२३, अवनीशाः २११३३४६१५१
प्रथमल्लने रात्र्यादि ६१११ २६१९, रात्रे पूर्वनवम् १५१३५, उत्तरम् १४१९,
द्वितीयल्लने रात्र्यादि ३११३५१९, अस्तिमन्त्रये कस्यचिज्ञन्म जातम् ।

अन्त ग्रन्थोऽनीयहोरात्रमम् = ६१३५१२८१३५,

अथ तात्कालिकस्पष्टप्रह्लाः संगतिकाः—

रविः	६११४५०१२	गतिः	१०१९
चन्द्रः	००१२११४५०५४	गतिः	८५११५७
द्वंगल	४१२५०३८१३१	गतिः	३६१४९
बुधः	६१०३१५१५५	गतिः	१०१५४
गुह्यः	८०९१२५१२६	गतिः	१११९
शुक्रः	४५१२५१५५	गतिः	४३१९९
चन्द्रि	१०१२०४५१५५	गतिः	११७६
हेतुः	२५५१५१०८	गतिः	३३११
रात्रुः	४१५१५१०८	गतिः	३१९९

अथ तन्वादयो द्वादशभावाः ससन्धयः—

ततुः	६।१।१।२।६।१।५	संधिः	६।२।६।४।२।४।३
धनैः	७।१।१।५।१।१।२	संधिः	७।२।३।१।५।४।१
सहजः	८।१।२।३।३।१।०	संधिः	८।२।३।४।८।३।९
वन्धुः	९।१।३।५।१।७	संधिः	९।२।३।४।८।३।७
सुतः	१०।१।२।३।३।१।०	संधिः	१०।२।३।१।५।४।१
रिपुः	१।१।१।१।५।१।१।३	संधिः	१।१।२।६।४।२।४।५
जाया	०।०।१।१।१।२।६।१।५	संधिः	०।०।२।६।४।२।४।३
मृत्युः	१।१।१।१।५।१।१।२	संधिः	१।१।२।३।१।५।४।१
धर्मः	२।१।२।३।३।१।०	संधिः	२।२।३।४।८।३।९
कर्म	३।१।३।५।१।४	संधिः	३।२।३।०।४।३।७
आयः	४।१।२।३।३।२।९	संधिः	४।२।३।१।५।४।१
व्ययः	५।१।१।५।१।१।३	संधिः	५।२।६।४।२।४।५

* जन्मकुण्डली *



प्रथम प्रकार—छन्देश और अष्टमेश से विचार। यहाँ छन्देश शुक्र और अष्टमेश भी शुक्र ही है। यह शुक्र स्थिर राशिमें है, अतः प्रथम सूत्र से अस्पायु योग आया।
द्वितीय प्रकार—खनन और होरा लक्ष्मी से विचार। यहाँ खनन तुला (धर) में और होरा द्वादश भी चर (तुला) में है; अतः द्वितीय सूत्र से दीर्घायु योग सिद्ध हुआ।

तृतीय प्रकार—यहाँ पर चन्द्रमा को लक्ष्मी में होने के कारण लक्ष्मी और चन्द्र पर से विचार कीते हैं। लक्ष्मी और चन्द्रमा होनों पर (तुला) में हैं अतः द्वितीय सूत्र से दीर्घायु योग सिद्ध हुआ।

यहाँ दो प्रकार से दीर्घायु योग सिद्ध होने के कारण दीर्घायु योग सिद्ध हुआ।

योग कारकों का अंशादि योग—

जन्मने=१११२६११५

होशल्लरन=२५ २८१३४

जन्मने= ११३६११५

चन्द्रमा=२३१४४१५४

योग=७२१०८१५८

इष में योग काएक संख्या बार का भाग दिया हो लक्ष अंशादि १८०८११५" इतना हुआ । इष को दी प्रकार से दीर्घायु योग होने के कारण ३६ से गुणा किया जो=(१४८५७/२१५४०')=१४६१२१/१००'-६८६+३५१=

$\frac{686 + 351}{20}$, इस में योग का भाग होने से छठ पर्यंत=२१, वर्षावर्षेष=११+ $\frac{3}{20}$,

इस को बाराद से गुणा किया तो मात्रात्मक=१२($\frac{11 + \frac{3}{20}}{20}$)—

२ ($\frac{11 + \frac{3}{20}}{20}$) = $\frac{14 + \frac{3}{20}}$,

यहाँ प्रथम लक्ष में भाग होने से लक्ष मास=२, मासावर्षेष= $\frac{3}{20} + \frac{3}{20} = \frac{3}{10}$

इस को योग से गुणा किया हो दिनात्मक=३०($\frac{3 + \frac{3}{10}}{4}$) $\frac{3}{4} (1 + \frac{3}{10}) = १८ + \frac{5}{4} = २२ + \frac{3}{4} = २२ + \frac{3}{4},$ अत लक्ष दिन=२३, दिनावर्षेष= $\frac{3}{4}$ को साठ से गुणा किया हो जो=६०=१२ । अत लक्ष वर्षादि=२१।४२३।१२।०० इतना हुआ । इस को दो योग सम्बन्धी दीर्घायु १०८ में घटाया हो लक्षायु १०८(२१।००।२३।१२।००)=८६।४।१।४८।०० इतना हुई ।

अथ परमपुरुषाद्वय—शुभयकाशा=१८५६, शुभविक्षमाशा=११११, श्वीशाशा=११३४, तत्र याम्यावदे द्वारात्मी मासोत्तमे कार्तिके शुभे लक्षणके नयो-दीर्घायुपिदण्डादि=१४८, तदुपरि चतुर्दशी निषि, इस्तलक्षणदण्डादि=२१५८ तदुपरि विज्ञा, विष्णुमयोगदण्डादि=१२१ तदुपरि ग्रीतियोग, चन्द्रवास्ते श्रीसूर्यमुष्टुकाशाशा=१११२।३।१०, स्योदयादिष्टपटपादि=४२।६ दिनात्मक=२७।२४, रात्रिमात्मक=१२।३।६, दिनावर्षेष=१२।४२, रात्रिवर्षेष=१६।१५, विष्णुमात्मक=४३।४४, विष्णेषान्तरवर्षे कार्तिकम्=२३।५।११, तारालिङ्गोऽक्षं=१।१।१।३।१।१३, वयनाशा=२।१।१।१।५९, प्रथमलवं रात्रिवर्षे=३।१।४ ५।६।५६, रात्री वूर्षनवं पटपादिम्=१।३।६, ततो दत्तमात्मवं रात्रिवर्षे=२०।१।४।२।३।१।४, समोगपटवं =

६२२३, भवातपटयः=३९११७ अस्मिन् शुभसमये कस्यचिज्जन्म जातम्।

अत्र प्रयोजनीयहोरालग्नमानम्=५१११०९१२९,

अथ तत्कालिकस्फुटग्रहाः संगतिकाः—

रघुः	६ ११२११२१	गतिः	५०१९९
चन्द्रः	६०११४११३८	गतिः	७९०१३५
कुजः	४११३११११३३	गतिः	३४१५९
बुधः	३०९१००१२८	गतिः	३३ ३९
शुक्रः	६११३१४३१३२	गतिः	१३१४०
शनिः	११२६००१२८	गतिः	७५१७
राहुः	६११४११११७	गतिः	३१९९
केतुः	३११४१११७	गतिः	३१९९

अथ तन्यादयो द्वादशभावाः संसन्धयः—

ततुः	३११४१५६१५६	संधिः	३२१४१४२
धने	४११३११२१२९	संधिः	४२३१२०११५
सहजः	५११११२८०१	संधिः	५१२५१३५१४८
बन्धुः	१६१३१४३१३४	संधिः	६१३५१३५१४८
सूतः	७११११२८०१	संधिः	७१२३१२०११५
रिषुः	८११३१२०१२९	संधिः	८१२९१०४१४२
जाया	९ १४१५६१५६	संधिः	९१२१४१४२
मृत्युः	१०११३११२१२९	संधिः	१०१२३१२०११५
धर्मः	११११११२८०१	संधिः	१११२५१३५१४८
कर्म	००१०९१४३१३४	संधिः	००१२५१३५१४८
आयः	१११११२८०१	संधिः	०११२३१२०११५
धयगः	२११३१२१२१२९	संधिः	०२१२९१०४१४२

॥ जन्मकुण्डली ॥



ै, अत पूर्वोक्त घुरुयं सूत्र से हीनायु योग सिद्ध हुआ ।

तृतीय प्रकार—शनि और चन्द्रमा से विचार, शनि चर (मकर) में और चन्द्रमा भी चर (तुला) में है, अत प्रथम सूत्र से दीर्घायु योग सिद्ध हुआ ।

यहाँ पृक्ष प्रकार से अवधायु और दो प्रकार से दीर्घायु सिद्ध होने के कारण सबसे सूत्र से दीर्घायु योग सिद्ध हुआ ।

अशादि योगकारक प्रह—

चन्द्रमा = ११४११३८

शनि = ३६१०२१३८

नक्षमा = ११४११३८

शनि = ३६१०२१३८

योग = ६६१३८११२

इस में योग कारक सेख्या चार का भाग दिया तो उच्च अशादि=१३।१ २।३ इतना हुआ, इस को दो प्रकार से दीर्घायु योग सिद्ध होने के कारण तृतीय लघु (३६) से गुणा किया तो $(\frac{66138112}{36}) = (1836116148) - (499 + \frac{1}{36} + \frac{1}{36}) = 499 + \frac{1}{36} + \frac{1}{36}$,

इस में तीस का भाग दिया तो उच्च वर्ता=१६,

षष्ठोक्तोप्त=११ + $\frac{1}{36} + \frac{1}{36}$, इस को दारद से गुणा किया तो भासारमह=

$$12\left(\frac{11}{36} + \frac{1}{36} + \frac{1}{36}\right) = 2\left(\frac{11}{36} + \frac{1}{36} + \frac{1}{36}\right) = \left(\frac{36}{36} + \frac{1}{36} + \frac{1}{36}\right) =$$

प्रथम छन्नेश और छठमेश से विचार करते हैं। यहाँ छन्नेश=चन्द्रमा, और छठमेश=शनि है, चन्द्रमा चर (तुला) में और शनि भी चर (मकर) में है अतः पूर्वोक्त प्रथम सूत्र से दीर्घायु योग सिद्ध हुआ ।

द्वितीय प्रकार—एग्र और द्वोरा छान से विचार करते हैं, छरन चर (कक्ष) में और होरा छरन द्वित्यमात्र (वस्त्रा) में

३० + इ८ + इ८ प्रथम खण्ड में भाग देने से लब्ध मास=७,

मासावशेष=३ + इ८ + इ८ इस को तीस से गुणा किया तो दिवात्मक-

३० (३ + इ८ + इ८) =

६ (३ + इ८ + इ८) = १८ + $\frac{४८}{६}$ + $\frac{४८}{६} = २१ + \frac{३}{६} + \frac{३}{६}$,

अतः लब्ध दिन = ३१, दिवावशेष = $\frac{३}{६} + \frac{३}{६} = \frac{१}{२} + \frac{१}{२}$,

इस को साठ से गुणा किया तो घटयात्मक = ६० ($\frac{१}{२} + \frac{१}{२}$) = १२ + $\frac{३}{२} = २१ + \frac{३}{२}$,

अतः लब्ध घटी २१, घटी, शेष= $\frac{३}{२}$, को साठ से गुणा किया तो पला=६०× $\frac{३}{२} = ९०$

अतः घटव वर्षादि = १६।०।२।१।२।३।६, इस को दो योग सम्बन्धी दीर्घायु १०८ में घटाया तो घर्षादि स्पष्टयु = १०८-(१६।०।२।१।२।३।६) = ९।०।४।०।८।३।८।२।४।

अथ शनैयोगकारकत्वे विशेषमाह—

शनौ योगहेतौ कक्ष्याहासः ॥ ० ॥

वि०—शनाविति । शनौ=शनैर्थे, योगहेतौ=योगहेतुभूतराशौ स्थिते सति, कक्ष्याहासः = पूर्वप्रतिपादितदीर्घमध्याल्पायुयोगव्यात्मककक्ष्यायाः हानिः स्यात्, तथादि शनौ योगहेतौ दीर्घं चेन्मर्यं मर्घ्यं चेदर्घ्यं अर्घ्यं चेत्ततोऽप्यल्पायुर्भवति ।

अत्रायमभिप्रायः—प्रन्थेऽस्मिन् कक्षात्रयं प्रतिपादितम् । तत्र योगहेतौ सति शनौ पूर्वोक्तनियमानुसारेण तृतीयखण्डस्य प्राप्तौ द्वितीयस्य प्रहणं द्वितीयस्य प्राप्तौ प्रथमस्य प्रहणं सति प्रथमस्य प्राप्तौ यस्मिन् राशौ शनिरवस्थितस्तस्य राशेऽचरदशाया यन्मानं तदर्धेसमानं प्रथमखण्डमानादिशोध्यावशेषसमानमल्पायुस्तद्विगुणं मध्यायुलिगुणं दीर्घायुः परिकल्प्य पूर्ववर्त्स्फुटायुः साधनीयम् ॥

भाषा—पूर्वोक्त आयुर्दीर्घ योग के विचार में यदि शनइचर योग कारक हो तो कक्ष्या द्वास होता है, अर्थात् दीर्घायु होतो मध्यायु, मध्यायु हो तो अल्पायु और अल्पायु योग हो तो उस से भी अर्घ्य आयुर्दीर्घ होता है ।

अभिप्राय यह है कि इस पन्थ में आयुर्दीर्घ के सम्बन्ध में ३२, ३६, ४०, दो तीन कक्षायें हैं । नियमानुसार ४० की प्राप्ति होती हो तो ३६, ३२ की प्राप्ति होती हो तो ३२, और ३२ की प्राप्ति होती हो तो, शनि जिय राशि में छोड़ा हो उस राशि की उत्तर दशा का आपा उत्तीर्ण में घटा कर जो योग वचे उस को अल्पायु, उस के

१५८] सोदाहरण-पिमला-संस्कृत-हिन्दी-टिकाद्यसहितम् । १५९

द्विगुणित मध्यात् और ग्रिगुणित दीर्घात् मान कर पूर्णवत् सुखात् के मान अनुपात से जानना चाहिए ।

कश्याहासलशणम्—

दीर्घस्य मध्यमा याता भवेदायुपि मध्यमे । अल्पादल्पं च विशेषं कश्याहासस्य लक्षणम् ॥
भाषा—स्पष्ट है ।

अधात्र मतान्तरमाद—

विषयोत्तमन्ये ॥ १२ ॥

विषय—विषयोत्तमिति । अन्ये=केवलावार्यो , विषयीत्तं = विलोपं शनी दोग हैती न कश्याहास्य हृति वदन्ति ।

भाषा—किसी आवार्य का मत है कि शनैश्चर योग कारक हो तो कश्या द्वास नहीं होता है ।

वय परप्रथनिर्दिश्य स्वप्रक्षमाद—

न स्वर्क्षतुङ्गे सौरे ॥ १२ ॥ केवलपापद्वयोगिनिति च ॥ १३ ॥

विषय—न स्वर्क्षतुङ्ग हृति । सौरे=शनैश्चरे, स्वर्क्षतुङ्गे=स्वराशिस्त्रोत्तरोघ्रति, न=कश्या द्वासो न स्पात् ।

देवलेति । केवलपापद्वयोगिनिति=केवलपापद्वयोगविशिष्टे शनी च न कश्या-हास्य ॥ १२-१३ ॥

भाषा—शनैश्चर अपने राशि या अपने उच्च राशि में हो तो कश्या द्वास नहीं होता है ।

तथा केवल पाप प्रद से इष्ट युत शनैश्चर हा तो भी कश्या द्वास नहीं होता है ॥

अथ कश्याद्विगोलमाद—

पितॄलाभगे गुरो केवलशुभद्वयोगिनिति च कश्यात्वद्विः ॥ १४ ॥

विषय—पितॄलाभगे शृंति । गुरो=वहस्यतौ, पितॄलाभगे=लग्नसप्तमगे उति कश्यात्वद्विभूतिति । तथा केवलशुभद्वयोगिनिति=केवलशुभद्वयोगविशिष्टे च गुरो, कश्यात्वद्विभूतिति, अर्थात् दशप्रयुक्तये भव्यात्, भव्यायुक्तये दीर्घात्, दीर्घायुक्तये ततोऽपिहायुभूतिति ॥ १४ ॥

भाषा—अगर लक्ष या सप्तम में शुद्धस्यति हो तो कश्या की शृंदि होती है । तथा केवल शुद्धस्यति केवल शुभप्रद से इष्ट युत हो तो भी कश्या की शृंदि होती है, अर्थात् अबप्रयुक्त योग में भव्यात्, भव्यायु, योग में दीर्घात् और दीर्घायु योग में उत्तर से भी अविक भाव्य दोती है । अग्रोद १३,३६,३० इन तीनों कक्षामों में ३२ की

प्राप्ति होती हो तो ३६,३६ की प्राप्ति होती हो तो ४० और ४० की प्राप्ति होती हो तो शृङ्खला स्वरूपति जिस राशि में छौड़ा हो उस की चर दशा के आधा ४० में जोड़ कर उस के तुष्टय अवपात्यु उस के द्विगुणित मध्यात्यु और त्रिगुणित दीर्घात्यु मान कर स्पष्टात्यु साधन करना चाहिए ॥ १४ ॥

अथ दशारीत्या मरणयोगमाद—

भलिने द्वारयाह्ये नवांशे निधनं द्वारद्वारेशयोक्त्वं मालिन्ये ॥ १५ ॥

विद् ०—मलिन इति । **द्वारबाष्टे**=द्वारबात्यसंज्ञके राशी, मलिने=स्वर्य पापे पापप्रह्युते पापप्रह्युते वा सति, नवांशे=तत्त्वांशदशायां (द्वारयात्यसंज्ञकयोर्न वांशदशायामित्यर्थः), निधनं=मरणं भवति ।

द्वारद्वारेशयोः=द्वारसंज्ञकराशिद्वारसंज्ञकराद्यधिपयोः, मालिन्ये=मलिनताया च चत्यां निधनं भवति ॥ १५ ॥

भाषा—द्वार संज्ञकराशि और वाद्य संज्ञक राशि दोनों स्वर्यं पापी, पापप्रह से युत दृष्ट होते द्वार राशि और वाद्य राशि की नवांश दशा में मरण होता है ।

तथा द्वार राशि और द्वार राशि के स्वामीये दो नौं भी यदि स्वर्यं पाप, पापप्रह से युत या पापप्रह से दृष्ट हो तो द्वार राशि और द्वारेश राशि की नवांश दशा में मरण होता है ।

अथ प्रसाकाद्वारयात्ययोर्लक्षणमाद—

दशात्थयो द्वारम् ॥ २-४-२ ॥

तत्त्वस्त्वादिपर्यं वाद्यम् ॥ २-४-३ ॥

भाषा—जिस राशि की दशा पर्तमान हो उस को द्वार कहते हैं । तथा प्रथम दशा प्रद राशि से द्वार राशि तक जितनी संख्या हो द्वार राशि से उतनी संख्या गिरने से जो राशि मिले यह वाद्य संज्ञक है ।

निधनयोगापवादमाद—

शुभदृग्योगाद् ॥ १६ ॥

विद् ०—शुभदृग्योगादिति । **शुभदृग्योगात्**=द्वारद्वारेशयोरपरि शुभप्रद्युत्त-रक्षित्यात्, न = निधनं न भवति ॥ १६ ॥

भाषा—यदि द्वार राशि के स्वामी शुभप्रह से युत या दृष्ट हो तो उन की नर्ती दशा में मरण नहीं होता है ॥ १६ ॥

अथ एतात्याव्याप्तिः विरोपमाद—

रोगेणो तुहे नयांशायृदिः ॥ १७ ॥

तत्रापि पदेशाद्यान्ते पदनयांशदशायां पितॄदिनेशक्रिक्षेण या १८

१ पदः] सोदाहरण-घिमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाठयसहितपू। १६८

घि०—रोगेश इनि । रोगेश=जन्मलग्नादृष्टमेशे, तुजे=स्वोर्चय गते सति, नवां-
५ नशदि=नवाद् उद्दिपूर्वनिवित्तमरणयोगप्रदनवीशदशातोऽप्रियपाशिनवीशदशायाः ।
निधनं स्यादित्यर्थः ।

तत्रापि=नवांशदशात्तदावपि, पदेशदशायाः=लग्नपदेशवामिदशायाः लग्नपदाय यः
त्वामो तदाथयोभूतराशेद्दशान्ते, पदनवीशदशायाः=लग्नपदराशिनवीशदशायाः,
या=अशवा, पितृदिनेशशिक्षेण=लग्नेशाटमेशान्याः पदमनवमान्यतरराशिदशाया-
भन्तर्दशायाः वा निधनं स्यात् ॥ १७-१८ ॥

मापा—जन्म लग्न से अष्टम स्थान के स्वामी अपने उच्च में ढौंका हो तो पूर्व-
निदिच्चत नवांश दशा में मरण नहीं होता है किन्तु उम से अविम राशि की नवांश
दशा में मरण होता है ।

युद्धि होने पर भी जन्म लग्न पद के स्वामी जिय राशि में हो उम राशि की
दशा के अन्त में या जन्मलग्न पद राशि की दशा में या अष्टमेश से त्रिकोण राशि
(९, ९) की दशा में अथवा अष्टमेश राशि से त्रिकोण की अन्तर्दशा में मरण होता है ।

अथ प्रकारान्तरेण दीर्घायायुयोग्यतयमाह—

पितृलाभरोगेशप्राणिनि कण्टकादिस्थे स्थृतश्चौबं विधा ॥ ९ ॥

घि०—पितृलाभेति । पितृलाभरोगेशप्राणिनि=पितृलाभयोः लग्नसुप्तमयोः
सकाशात् यो रोगेशो अष्टमेशो तयोर्मध्ये यः प्राणो वलो तस्मिन् पितृलाभरोगेश-
प्राणिनि, कण्टकादिस्थे=केन्द्रप्रणकरायोक्तिलमस्थे, विधा=आयुर्योगत्रयं भवति ।
पूर्व=पूर्वोत्तरीत्या, स्वत.=आत्मकारकात्त्व, आयुर्योगत्रयं भवति । तदथा आत्म-
यात्रक्षत्यसमाच्च याष्टमेशो तयोर्मध्ये यो वलवन् स कारकात् कण्टकादिस्थे
आयुर्योगत्रयं भवति । अत्रैतदुक्तं भवति—वलवत्यष्टमेशो केन्द्रस्थे दीर्घायुः, पण्ड-
रस्थे मध्यायुः, आपोक्तिलमस्थेऽल्पायुः स्यात् लग्ने विषमे क्रमेण समे-टटक्षमेण-
श्चेषोनेद उक्तस्थानात् ॥ १९ ॥

मापा—लग्न से अष्टम स्थान का स्वामी और सप्तम स्थान से अष्टम स्थान का
रचानो इन दोनों में जो वली हो वह केन्द्रादि में लिप्त हो तो दीर्घादि आयुर्क्षय के
तीन योग होते हैं । अर्थात् केन्द्र (१, ४, ७, १०) में हो तो दीर्घायु, पण्डर (३, ५,
८, ११) में हो तो मध्यायु, आपोक्तिलम (३, ६, १, १२) में हो तो अष्टमायु योग होता है ।

इसी तरह आत्मकारक से अष्टमस्थान के स्वामी और उस से सप्तम स्थान से
अष्टम स्थान के स्वामी इन दोनों में जो वलवन् हो वह आत्मकारक से केन्द्र में
निष्ठ हो तो दीर्घायु, पण्डर में लिप्त हो तो मध्यायु, आपोक्तिलम में लिप्त हो तो

अल्पायु होता है । लग्न विषम हो तो क्रम से सम हो तो उत्कर्म से अष्टमेश जानना चाहिए ॥ १९ ॥

योगात्समे स्वस्मिन् विपरीतम् ॥ २० ॥

विं—योगादिति । योगात्=जन्मलग्नसप्तमात्, समे = नवमे, स्वस्मिन्=आत्मकारके सति, विपरीतं=पूर्वोक्ताद्विलोमं (केन्द्रेऽष्टमेशेऽल्पायुः, पण्फरे मध्यायुः; आपोऽक्लमस्थे दीर्घयुरित्यर्थः) भवति । अत्रापि विषमराशिस्थिते लग्ने क्रमतः समे उत्कर्मतो नवमे ग्राहयम् ।

अत्र कथिदेवं वदति । सप्तमाज्ञवमं लग्नात्तृतीयं भवति, यदि तत्स्थानमेवाचार्यस्याभिमतं भवेत्तर्हि “कामे स्वस्मिन् विपरीतम्” इति लापवं विहाय द्राविडप्रायायमन्यादेन सप्तमाज्ञवम इति कथगुच्छम् । अतोऽन्न योगात्सम इति चतुरक्षरवशेन (८४३१, शेष=७) सप्तसंख्यया सप्तमो भावः प्रतिपादितो शेयः । अत्रापि सप्तमभावस्थाने “लाभे स्वस्मिन् विपरीतम्” इति कथं नोचमेवं न वाच्यं यतः पूर्वोक्तचरात्स्यादिवशादायुर्दीयगोऽतिव्यासिवारणायैव लाभ स्थाने योगात्सम इति सप्तमभावसंज्ञा समुदिता । एतेन “योगात्” अस्मादेव योगादायुर्विचारे वैपरीत्यं ज्ञेयं न तु पूर्वस्मिन् योगे इति सूचनार्थमेवात्र साभिप्रायं योगात्सम इति सप्तमभावसंज्ञा कृता ।

परश्यातिव्यासिदोपशानशून्यमद्युभावस्थैर्यं कथयचिद्ब्याख्यानं न समुचितम् । यतोऽलक्ष्ये लक्षणगमनादेवातिव्यासिदोपो भवति । अत्र लक्ष्यं तु केन्द्रादिस्थानवशेनायुर्निर्णयः, लक्षणं तु यत्र यत्र केन्द्रादिस्थानवशेनायुर्निर्णयत्वं तत्र तत्र “योगात्समे स्वस्मिन् विपरीतम्” इति सप्तस्य प्रश्नतिरिति । अतो नहि चरादिस्थानवशेनायुर्निर्णयेऽस्य लक्षणस्य कथमपि प्रश्नतिरितम् केन्द्रादिस्थानसम्बन्धेनायुर्निर्णयाभावात् ।

तथा यत्रात्मुपो विभिः प्रतिवेष्ठो वा तत्र “अनन्तरस्य विभिर्वा भवति प्रतिवेष्ठो वा,, इति परिभाषेऽनुपरिभाषया स्वाव्यवहितसन्निहितेऽन्द्रादिस्थानवशेनायुर्निर्णयस्य प्रतिवेषरूपं विभिरूपं वा सिद्धपत्यनापारोनैव “योगात्समे स्वस्मिन् विपरीतम्” इति सूत्रमित्यपरमण्डनमपि मन्मतस्य ।

एवं च योगादित्यास्मादेव योगादित्यर्थः कृतस्तेनातिव्यासिवारणायैव,

परश्य पृच्छपतेऽन्न मया “अस्मादेव योगात्” इत्यन्न पूर्वस्मादेव योगादित्यवार्त्यः न कथं सापुत्रपदमवल-

प्रेत, न हि कविदेवाद्यः कुप्रथिनिवमो वरपथम्यन्तप्रयुक्तशब्दार्थः स्वाव्य-
विदितपूर्वप्रतिपादितशब्दार्थस्यन्यमेयावलम्बेदतोऽनुध्यैव सामुपरमतं खण्डयन्
स्वायथार्थाभिप्रेर्तं प्रकाशितं तेनेति विचारे सर्वथा यतनीय विषयिद्धिः ।

तथाकावरं छन्दनं तत्स्य "ुपुरजातकर्षप सत्तमं रथालं जायात्पानं स्रोजातकर्षप
सत्तमं रथालं परिस्थानान्तरं एव प्रकृतविद्वद्वात्प्रसामनावर्षप एव कारके फलवैष
रीत्यमपि समुचितम्" परर्थेवं चति लग्नसप्तमयोः प्रकृतविद्वद्वत्यमेवं भिन्नफल-
जनकं चेत्पर्हि लग्नस्थानरिदपेटफलपैपरीत्यमेव सप्तमावर्षप देटफलं सर्वत्र
यद्येषां भविष्यति । किन्त्वेवं न इत्यते यतः यानसप्तमयोर्द्योरपि स्थानयोः
प्रियतस्यार्थस्यादोभवमेव फलं इत्यते शोभनमेव पञ्चसप्तमावतः सर्वयाप्तं
तमेव व्याहृत्यानां तस्येति विवेचनीयं विषयिद्धिः ॥ २० ॥

भाषा—एस ते गृहीय में कारक हो तो वेन्द्र भास्त्र में हित अष्टमेत के वर
आनीत आयुर्दीप में विपरीत होता है । लर्णवीकेन्द्र में लहरेत हो तो अल्पायु,
पण्डि में हो तो मध्यायु, आपोक्तिम में हो तो दीप्यायु होता है ।

यहाँ पर कोई इस तात्त्व कहता है कि सप्तम से नवम एस से गृहीय भाव होता
है, लग्न गृहीय रथान हो आवायं का अभियव इत्ता तो "कामस्वलिम्न-
विपरीतम्" ऐसा ही गृह बनाते तिर लावव को छोड़ कर गृहीय के विषये सप्तम से
नवम इस प्रकार द्वाविष्ट प्रणायाम करने से कहने का व्याप मतहृष्ट रहा ।

अतः "योगात्सम" इस पाठ लक्षण से सप्तम भाव ही कथित जातना चाहिए ।
यहाँ पर भी सप्तम स्थान के लिए "योगात्सम" इस के रथाल में लावव से लाभे यह
सप्तम दीक्षा दीप्यक ही भास्त्र कपो न कहा ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्यों कि
परादिपात्रिवर्ग प्रतिपादित आयुर्दीप के योग में अतिव्याप्ति निशाण के टिप्पणाम
में नीतिवाचन नहीं दायरा भाव को छोड़ा । अर्थात् केवल हस्ती योग से
• • • • • • • • • • • • वरा से आयुर्दीप

• • • • • • • • • • • • से सप्तम भाव का
प्रतिपादन किया । परम अतिव्याप्ति दोग के शाल से शून्य भद्रानुभाव का इस तरह
कहना दीक्षा ही, वर्णोक्त अवर्षप में लक्षण को जाने से अतिव्याप्ति जामल दोग
होता है । यहाँ पर वेन्द्र भास्त्र स्थान वरा आयुर्दीप का निर्लेप लक्ष्य है । अतः लक्षण
"यही जहो केन्द्र भास्त्र स्थान के वरा आयुर्दीप का निर्लेप होगा हहो तहो" "योगात्सम" के
स्वातिष्ठ विपरीतम्" इस एवं की प्रत्युत्ति होती । अतः पर भास्त्र स्थान के वरा
आयुर्दीप में इस लक्षण की प्रत्युत्ति नहीं हो सकती, परवा यहाँ केन्द्र भास्त्र
स्थान के ताप्तवर्षप से आयुर्दीप मही है ।

फिर उन्होंने अतिव्याप्ति द्वेष निवारण के लिये योगात् इस का अर्थ केवल इसी योग से ऐसा किया है किन्तु यहाँ पर मैं पूछतां हूँ कि इसी योग से वा सब योग से वा ज्ञान के निर्णय में प्रतिपादित योग से ऐसा ही अर्थ समीचीन क्यों न होगा । इस तरह का कोई नियम नहीं है कि पञ्चम्यन्त शद्गार्थं अपने से अव्यवहृत पूर्व में कथित शद्गार्थं ही से सम्बन्ध रखते । अतः मुनि के अभिप्राय न जानका दूसरे के यथार्थं भत को खण्डन करते हुए अपना ज्ञानस्तव भतको प्रकाशित किया है, इस पर विद्वान् लोग विचार करें ।

फिर दूसरी तरह से भी स्वसत का मण्डन करते हैं कि पुरुष जातक के सप्तम स्थान जाया स्थान और स्त्री जातक के सप्तम स्थान पति स्थान है । इस लिये पुरुष, स्त्री इन दोनों में प्रकृति विरुद्ध होने के कारण कारक के सप्तम में रहने से विरुद्ध फल देना ही क ही है ।

परब्रह्म इस तरह होने से लग्न और सप्तम दोनों में प्रकृति विरुद्ध ही भिन्न फल को देने वाला सिद्धंहुआ, अतः सब जगह सब पढ़ों का लग्न स्थान स्थित फल से सप्तम में विरुद्ध फल होगा, परब्रह्म इस तरह एल प्रकरण में कहीं नहीं देखा जाता । अतः ऋग्म और सप्तम दोनों स्थानों में स्थित सूर्यं अशुभं फल ही हेते हैं तथा चन्द्रमा दोनों में शुभं फल ही हेते हैं हत्यादि प्राप्यः सब पढ़ों में, अठः ऐसा नार्थं करना ठीक नहीं है । पूर्वोक्त अर्थं ही समीचीन है ॥ २० ॥

अथकर्त्तमाद्वर्त्तं प्रत्यमित्याह—

राशितः प्राणः ॥ २१ ॥

विद्य०—राशित इति । राशितः=राशिवलतः, प्राणः=यज्ञं प्राणम्, अर्थात् “अप्रहासप्रहो ज्यायान्” इत्यादिनोकराशियलाद् (कारकयोगः प्रप्तमो भानामिति वश्यमाणात्) प्रहाणी यज्ञे आर्यं किन्वशाभिक्यरूपं यज्ञं न भाद्रम् ॥ २१ ॥

भाषा—इस प्रकरण में “अपहासप्रहो ज्यायान्” इत्यादि राशि दल के सदृश “कारक योग प्रप्तमो भानाम्” इस वश्यमाण यज्ञ के सदृश पढ़ों का भी यज्ञ प्रहण करना चाहिए । किन्तु अंशाधिक रूप यज्ञ महों प्रहण करनो पाहिए ॥ २१ ॥

अथ विदेषमाह—

रोगेशयोः स्वत एकेषु योगे या मध्यम् ॥ २२ ॥

विद्य०—रोगेशयोरिति । रोगेशयोः=जन्मस्तरनकारकयोः यज्ञायाद्वलपद्धतेः, ययोः, स्वतः=पारकेष, एकेषु=नेत्राभावे (य एव कारकः स एषाटमेता द्रवर्थः), या=अथया, योगे=ध्ययोगे चति, यम्यम्=सीरीपांगुलेतदापि यम्यायुः, हीनातुरपि-यम्यायुः, यम्यायुरेन्मध्ये स्थितमेव ॥ २२ ॥

१ पदः] सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-ट्रीकाढ्यसहितम् । १६५

भाषा—लग्न से और कारक से वल्लान् अष्टमेश (१९ सूत्र से सिद्ध वल्लान् अष्टमेश) कारक ही हो या कारक से युक्त हो तो मध्यायु होती है , अर्थात् दीर्घायु या अल्पायु हो तो भी मध्यायु योग ही होता है मध्यायु योग में मध्यायु योग सिद्ध ही है ॥ २३ ॥

अथ पूर्वप्रतिपादितदीर्घायायुर्योगेषु कक्ष्याहासयोगमाद—

पितृलाभयोः पापमध्यत्वे कोणे पापयोगे वा कक्ष्याहासः ॥२३॥
स्वस्मिन्नन्येवम् ॥२४॥ तस्मिन् पापे नोचेऽतुङ्गेऽशुभसंयुक्ते च ॥२५॥
अन्यदन्यथा ॥ २६ ॥

विद्—पितृलाभयोरिति । पितृलाभयोः=लग्नसहस्रमयोः, पापमध्यत्वे=पाप-
प्रहमध्यवर्तित्वे, वा कोणे=निकोणे (नवमपञ्चमयोरित्यव्यं), पापयोगे=पाप-
प्रदयोगे सति, कक्ष्या हासी भवति ।

स्वस्मिन्निति । स्वस्मिन्=आत्मकारके, अपि=निश्चयेन, एवं=पूर्वोक्तवर्त्तेयं
अर्थात् कारकराशितलात्मराश्योः पापमध्यत्वे वा तयोऽन्तिकोणे पापयोगे सति
कक्ष्याहासी भवति ।

तस्मिन्=आत्मकारके, पापे=पापप्रदै, नोचे=नीचराशिस्थे, अतुङ्गे=उच्चाद-
न्यत्रये अशुभसंयुक्ते च, कक्ष्याहासी भवति ।

अन्यथा=लग्नसहस्रमयोः, कारकसहस्रमयोर्वा शुभग्रहान्तर्वर्तित्वे वा उच्चा त्रिकोणे
शुभप्रदयोगे सति, एवं कारके शुभे उच्चे, तुङ्गे शुभसंयुक्ते सति, अःयत्=कक्ष्या
पूर्द्धिर्भवति ॥ २३-२६ ॥

भाषा—लग्न और सहस्र पापपदों के मध्यवर्ती हो या उस से त्रिकोण स्थान
(१९) पापप्रद से युक्त हो तो कक्ष्या हास होता है ।

इसी तरह आत्मकारक ते भी विचार करना, जौसे कारक और उस से वस्त्र
स्थान पापपदों के मध्यवर्ती हो या उस से त्रिकोण स्थान पापप्रद से युक्त हो तो
कक्ष्या हास होता है ।

तथा पाप प्रद होकर कारक भीच स्थान में या उच्च, नीच स्थान से भिन्न स्थान
में ह कर पापप्रद से युक्त हो तो भी कक्ष्या हास होता है ।

इस से विपरीत रहने पर कक्ष्या पूर्द्धि होती है , अर्थात् लान सौर उस से
लग्न स्थान कारक और उस से सहस्र शुभपदों के मध्यवर्ती हो या उस से त्रिकोण
स्थान शुभ प्रद से युक्त हो अथवा शुभप्रद कारक हो कर उच्च में हो या उच्च नीच
से इतर स्थान में हाकर शुभप्रद से युक्त हो तो कक्ष्या पूर्द्धि कहना चाहिए ॥२३-२६॥

अथ गुरुवेन केक्षयाहासंवृद्धिविचारमाद—

गुरौ च २७ ॥

विद्—गुरविति । गुरौ=वृहस्पती च, पूर्वोक्तरीत्या कक्षयाहासंवृद्धिनिर्णये विधेयः, तद्यथा तस्य पापप्रदृग्मध्यवर्तित्वेऽथवा तत्त्विकोणे पापप्रदृग्योगे सति, तथा तस्मिन् पापे नीचेऽतुहो शुभसंयुक्ते सति कक्षयाहास्त्रो भवति ।

शुभमध्यवर्तित्वे तत्त्विकोणे शुभयुक्ते सति, तथा तस्मिन् शुभे उच्चे तुहो संयुक्ते सति कक्षयावृद्धिर्मवति ॥ २७ ॥

भाषा—इसी तरह वृहस्पति से भी कक्षया हासवृद्धि का विचार करना चाहिये । जैसे वृहस्पति पापप्रदृग्मों के मध्य में हो या उस से त्रिकोण स्थान पापप्रदृग्म से युक्त हो या नीच में हो या उच्च नीच स्थान में स्थित हो कर पापप्रदृग्म से युक्त हो तो कक्षया हास होता है ।

एवं शुभप्रदृग्मों के मध्य में हो या उस से त्रिकोण स्थान में शुभप्रदृग्म हो या उच्चस्थान में हो या उच्च नीच से भिन्न स्थान में स्थित होकर शुभप्रदृग्म से युक्त हो तो कक्षया की वृद्धि होती है ॥ २७ ॥

अथात् विशेषमाद—

पूर्णेन्दुशुक्लयोरेकरात्यिवृद्धिः ॥ २८ ॥ शनी विपरीतम् ॥ २८ ॥

विद्—पूर्णेन्दुशुक्लयोरिति । पूर्णेन्दुशुक्लयोः=पूर्णवन्दशुक्लयोगे सति (पूर्वप्रतिपादितकक्षयावृद्धियोगे पूर्णेन्दुशुक्लयोगे सतीत्यर्थः), एव्वरात्यिवृद्धि=दशायामेकरात्यिवृद्धिः (न कक्षयावा वृद्धिरित्यर्थः) ।

शनाविति । शनी॒=शनैवरे सति (पूर्वप्रतिपादितकक्षयाहासयोगे शनैवरे सतीत्यर्थः), विपरीतम्=पूर्वोक्ताद्विपरीतम्, एकरात्यिहास इत्यर्थः, न तु कक्षयाहासस्त्रित्यवयवन्तव्यम् ॥ २८-२९ ॥

भाषा—पूर्वप्रतिपादित कक्षया वृद्धि योग में अग्रह पूर्ण चन्द्र और शुक्र का योग हो तो वहाँ पर दशा में एक राति की वृद्धि होती है, किन्तु कक्षया वृद्धि नहीं ।

तथा पूर्णोक्त कक्षया हास योग में शनैवर का योग हो तो दशा में एक राति का हास होता है ॥ २८-२९ ॥

अथ दीर्घायायुयोगमाद वृद्धः—

धर्मे गोष्ठे चिरायुः स्याद्दर्मे फासेच मायमाद् । धर्मे धने च स्पल्यासुर्यमें धर्मे गतायुः ॥

भाषा—“आयुः पितृदिनेशास्याम्” इत्यादि सूष्य दाता प्रतिपादित शनैवर और शनैवर जादि के चर जादि राति में स्थिति वत्त जिस तरह दीर्घ मायमादि आ-

१ पदः] सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाद्वयसहितम् । १६७

पुराण का निर्णय दिया गया है, उसी तरह यहाँ पर भी घर्मादि स्थान में स्थिति
वश दीर्घ आदि आयुर्वेद का विर्णव करते हैं ।

जैसे लग्नेश और अष्टमेश हन दोनों में से कोई एक दग्ध से एकादश में हो और
दूसरा दग्ध ऐ पश्चम में हो तो दीर्घायु योग होता है । तथा उन दोनों में से एक
एकादश में और दूसरा तृतीय में ही तो मध्यायु योग होता है । एवं एक एकादश
में और दूसरा नवम में दो तो अल्पायु योग होता है । दोनों एकादश में ही हो तो
अन्यायु योग होता है । इसी प्रकार दग्ध, होता दग्ध आदि के वश दीर्घ आदि आयु-
र्वेद योग विवारना चाहिए ।

दीर्घायुयोग	मध्यायुयोग	अल्पायुयोग	हीनायुयोग
लग्नेश एकादशे अष्टमेशः पश्चमे	लग्नेश एकादशे अष्टमेशस्तृतीये	लग्नेश एकादशे अष्टमेशो नवमे	लग्नेश एकादशे अष्टमेश एकादशे
अष्टमेशः पश्चमे लग्नेश एकादशे	अष्टमेश एकादशे लग्नेशस्तृतीये	अष्टमेश एकादशे लग्नेशो नवमे	(एवमन्ययोग- क रक्ताभ्यास)

अन्न प्रमाणान्तरम्—

लग्नलग्नेशातशशिनायथानां त्रिष्ठोणके । अल्पमध्यचिरायुष्मि रूपवप्यप्रमाणतः ॥

भाषा—यदि अष्टमेश आदि योग कारक वह दग्ध से श्रिकोण (१, ५, १) में हो
तो तीन प्रकार के अल्पायु योग होते हैं । लग्नेश से श्रिकोण में हो तो तीन प्रकार
के मध्यायु योग होते हैं । लग्नेश के आधित्र राशि से श्रिकोण में हो तो तीन प्रकार
के दीर्घायु योग होते हैं । एवं तीनों अल्पायु योग, मध्यायु योग और दीर्घायु
योगों का वर्ण प्रमाण रूप वर्ण (१२) से जानना चाहिए ।

जैसे लान में योग कारक पड़ हो तो अल्पायु का प्रमाण १२ वर्ष, लान से
पश्चम में हो तो अल्पायु का प्रमाण २४ वर्ष और लग्न से नवम में हो तो अल्पायु
का प्रमाण ३६ वर्ष होते हैं ।

एवं लग्नेश से प्रयम में योग कारक हो तो मध्यायु का प्रमाण ४८ वर्ष, प्रयम
में हो तो मध्यायु का प्रमाण ६० वर्ष, नवम में हो तो मध्यायु का प्रमाण ७२ वर्ष
होते हैं । तथा लग्नेशाधित राशि से प्रप्तम में हो तो दीर्घायु का प्रमाण ८४ वर्ष,
पश्चम में हो तो दीर्घायु का प्रमाण ९६ वर्ष, नवम में हो तो दीर्घायु का प्रमाण १०८
वर्ष होते हैं ।

अथ स्फुटार्थं चक्रम्—

लगात्			लग्नेशात्			लग्नेशाभितरारोः		
त्रिविधाल्पायुयोगाः			त्रिविधमध्यायुयोगाः			त्रिविधदीर्घायुयोगाः		
१	५	९	१	५	९	१	५	९
१२	२४	३६	४८	६०	७२	८४	९६	१०८

अन्यदप्याह वृद्धः—

तुलगेषविलग्ने तु प्रायः शुक्रे भवेद्गुली। रवि, कुजः शनी राहुर्मरणे वलिनः कमात्॥
 विरोधे दुर्घेलं हित्वा आहयेत् सद्गुलं सुधी। केतुश्च शनिवज्ज्ञे यो नायैरेभिक्ष निर्दिशेत्
 शनिना राहुणा वापि युक्ते सौम्यैरवीक्षिते। पर्यायमेकं तत्त्वं एषे कैकराशौ मृत्यि वदेत्
 रायेस्तु शुभयोगे तु तद्राशौ मृतिमादिशेत्। भोगराशौ दुर्घेले वा प्रबले वा प्रहृ स्थिते॥
 तत्रापि निर्दिशेत्काले मरणं नात्र संशयः। केतो श्रीमद्वशानाये नाथे वा शुभरीक्षिते॥

केतोदंशान्ते मृत्युः स्यात्-शुभदृष्टे न किञ्चन ॥

भाषा—स्पष्ट है।

अथ ग्रन्थान्तरे आयुयोगाः—

आयुयोगाज्ञिका प्रोच। स्वल्पमध्यचिरायुपः। अल्पायुर्दिनगायस्य शप्रुल्माधिपो यदि ॥
 समत्वे मध्यमायु स्यान्मित्रे दीर्घायुरादिशेत्। यलहृने विलग्नेत्रे जीवेन्द्रविकोणके ॥
 पष्ठाष्टमव्यये पापे मध्यमायुरुदाहृतम्। शुभे केन्द्रविकोणस्थे शनी वलसमन्विते ॥
 पष्ठे वाप्यष्टमे पापे मध्यमायुरुदाहृतम्। लग्ने त्रिकोणे केद्रे वा मध्यमायुर्विमिथिते ॥

भाषा—अल्प मध्य और दीर्घ ये आयुदाय के सीन भेद हैं। सूर्य का शनु दर्शन हो तो अल्पायु, सम हो तो मध्यायु और मिश्र हो तो दीर्घायु योग होता है।

अगर दर्शन निर्धल हो, वृहस्पति केन्द्र या त्रिकोण में हो पाप पष्ठ पष्ठ, अष्टम और द्वादश रूपान में हो तो मध्यायु योग होता है।

केन्द्र और त्रिकोण में शुभ पष्ठ हो शनैश्चर वली हो, पाप पष्ठ पष्ठ या अष्टमस्थान में हो अथवा लग्न, ऐन्द्र या त्रिकोण में पापपष्ठ हो तो मध्यायु योग ही होता है॥

१ पाद] सोदाहरण-धिमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाद्यसहितम् । १६४

अथ पूर्वोक्ताखुयोगापवादवेन निधनयोगं हियरदशामवलम्ब्याह—

स्थिरदशायां यथाउण्डं निधनम् ॥ ३०॥ तत्रश्वेविशेषः ॥ ३१॥

चिं—स्थिरदशायामिति । हियरदशायां=स्थिरसंज्ञकदशायां “शशिनन्दपाणक” इत्यादिगाऽस्तैवाभ्याचरस्य तृतीयपाणे वश्यमाणायाम्, यथाउण्डं=स्तृणं-मनतिकम्य, निधनं=परण भवति । अवैतदुक्त भवति स्थिरदशायां प्रथमदशा प्रदराशेषतुर्थान्तं यावत् प्रथम राण्डम्, पश्यमादृष्टमपर्यन्तं द्वितीयखण्डम्, नवमादृष्टादशान्तं यावत्तृतीयखण्डम् । तत्रालपायुश्वेत्यथमस्तृणे, मध्यायुश्वेद्वितीयखण्डे, दीर्घायुश्वेत्तृतीयखण्डे निधनं भवतीत्यर्थं ।

यद्यापातउण्डेऽपि कदा निधनमित्याद-तत्र=निधने, अश्वदिसेष=राशिविशेषो निधनकारको यत्तोत्यर्थं ॥ ३०-३१ ॥

भाषा—“शशिनन्दपाणक” इत्यादि से हमों अध्याय के तुर्तीय पाद में वश्यमाण स्थिरदशा में खण्ड के अनुमार मरण होता है । इस से पह उत्तर होता है कि प्रथम दशाप्रद राशि से चतुर्थ वर्ष्यन्त प्रथम उण्ड, पश्यम से लक्ष्यम पर्यन्त द्वितीय खण्ड और नवम से वेष्टक द्वादश पर्यन्त तृतीय उण्ड होता है । मध्य अवाह अवयायु योग हो तो प्रथम उण्ड में, मध्यायु योग हो तो द्वितीय खण्ड में और दीर्घायु योग हो तो तृतीय खण्ड में मरण होता है । इन उण्डों से भी कव मरण होगा हम का कित्रिय करते हैं कि यथा यात्र खण्ड के मध्य में जय राशि विशेष की दशा आये तब मरण होता है । उस राशि विशेष को जारे सूत्र में निर्णय भरते हैं ॥ ३०-३१ ॥

अथ राशिविशेषमाह—

पापमध्ये पापकोणे रिपुरोगयोः पापे वा ॥ ३२ ॥

तद्रीशयोः केवलश्चीणेन्दुशुक्रद्वयै वा ॥ ३३ ॥

तत्राप्याद्यक्षर्तिनाप्यद्वयनघममाग्राणा ॥ ३४ ॥

चिं—पापमध्य इति । पापमध्ये=पापमहोर्मध्ये (पापमहोर्मध्ये यो राशिस्तदशायामित्यव), पापकोणे=पापप्रदात् विशेषे यो राशिस्तदशायाम्, वा=अधवा, रिपुरोगयो=द्वादशाष्टमस्थानयो, पापे=पापमहे तद्रीशयायाम्,

वा तदोपायो=द्वारकालराशिरसामिनो, केवलश्चीणेन्दुशुक्रद्वयै=केवलश्चीणवन्द-शुक्राभ्यो द्वयो सत्या द्वारकालराशिदशाया निधन भवति ।

अथवा तदीशयो=द्वादशाष्टमेशयो, केवलश्चीणेन्दुशुक्रद्वयै=पदान्तरदहिरहित-केवलश्चीणवन्दशुक्रद्वयै सत्या द्वादशाष्टमराशिदशाया निधने भवति ।

अथ वहुर्वर्णव्यापिन्यो तदशाया कदा मरणमित्याशङ्कायामाह । तत्रापि=निर्धनयोग्यक्षदशायामपि, आयक्षस्त्रिनाथदृश्यनवमभागद्वा=आयक्ष प्रथमदशाप्रदर्शनिस्तस्मायोऽष्टमेशस्तेन दृश्यो यो राशिस्तनवभागे तदन्तर्दशायां मरणं भवति ।

अथवा आयक्षं निधनराशिस्तस्य सदृशमस्य च यौ नायी ताभ्यां दृश्यो यो राशिस्तदन्तर्दशायां तनवांशदशायां वा मरणं भवति ॥ ३२-३४ ॥

मापा—पूर्वोक्त खण्ड में मरण का निश्चय होने पर भी किस राशि की दशा में मरण होगा इस का निश्चय करते हैं । मरण कारी खण्डा के मध्य जो राशि पापग्रहों के मध्य में हो या पापग्रह से त्रिकोण स्थान में जो राशि हो या जिस राशि से द्वादश और अष्टम में पापग्रह हो उस राशि की दशा में मृत्यु होती है ।

अथवा द्वार और बाल्य राशि के स्वामी के ऊपर केवल क्षीण चन्द्र और शुक्र की दृष्टि हो तो द्वार, बाल्य राशि की दशा में मृत्यु होती है ।

अथवा अष्टमेश और द्वादशेश के ऊपर केवल क्षीण चन्द्र और शुक्र की दृष्टि हो तो अष्टम और द्वादश राशि की दशा में मृत्यु होती है ।

उक्त राशि दशा में भी एवं मृत्यु होगी इस का निश्चय करते हैं । प्रथम दशा प्रद राशि से जो अष्टमेश हो वह जिस राशि को देखता हो उस की अन्तर्दशा में मरण होता है ।

अथवा जन्मलान से अष्टमेश और पठेश से दृश्य जो राशि उस की अन्तर्दशा में मृत्यु होती है ॥ ३१-३४ ॥

अथ प्रकारान्तरेण दृद्धप्रहं निरूप्य तदशेन निधनराशीनाह—

✓ पितॄलाभम्भावेशप्राणी रुद्रः ॥ ३५ ॥ अप्राण्यपि पापदृष्टे ॥ ३६ ॥

प्राणिनि शुभदृष्टे रुद्रशश्लान्तमायुः ॥ ३७ ॥ तत्रापि शुभयोगे ॥ ३८ ॥

द्यर्कपापयोगे न ॥ ३९ ॥

विं—पितॄलाभे । पितॄलाभम्भावेशप्राणी=पितॄलाभयोः लमसमयोर्यो भावेशावृष्टमेशी तयोर्मध्ये यः प्राणी बली स, रुद्रः=रुद्र सीज्ञकः स्यात् ।

अप्राण्यपि=निर्बलोऽपि, पापदृष्टः=पापग्रहेण दृष्टः, रुद्रः स्यात् । अर्थात् लमसमयोर्योवृष्टमेशी तयोर्मध्ये यो निर्बलः स यदि पापदृश्यतदा थोऽपि रुद्रः स्यात् ।

प्राणिनि=शलवति, रुद्रे=दृद्धप्रहे, शुभदृष्टे=शुभप्रहवलोक्ते सति, शूलान्तमायुः=शूलदशान्तं यावदायुः स्यात्, (अर्थात् लिपायुःचेत् प्रथमशूलान्तं यावदायुः स्यादित्यादि । शूलविमागस्तु प्रथमदशा प्रदर्शोद्यतुर्योन्तं यावत् प्रथमशूलं, पथमादृशमान्तं यावद्द्वितीयशूलं, नवमाद्वादशान्तं यावत्तीयशूलम्),

तत्रापि=प्राणिनि रुद्रे शुभदृष्टेऽपि, शुभयोगे=शुभप्रदयोगे सति, शूलान्तमायुर्मूर्दति ।

१.पादः] सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-ट्रीकार्डयसहितम्। १७१

ष्ट्यक्षपापयोगे=रविभिन्नपापयोगे सति, न=पूर्वोक्तं फलं, न भवति । अप्र
२वेः पापग्रहणा मध्येऽखोकारातयोऽपि कलभूते न भवतीत्यर्थः ॥ ३५-३६ ॥

भाषा—समझौर सम्प्रसार स्थान से जो जटास्थान के स्थानीय हों उन दोनों में
जो बड़ी हो वह इन पदों कहलाता है ।

उक्तदोनों अष्टमेशों में दुर्बल भी पाप यह से देता जाता हो तो इन पदों कहलाता है ।

यक्षावल रुद्रपद शुभ इष्ट हो तो शूल पव्यंत आयु होती है । अर्थात् अल्पायु
शो तो प्रथम शूल पव्यंत, मध्यायु हो तो द्वितीय शूल पव्यंत और दीर्घायु हो तो
तृतीय शूल पव्यंत आयु होती है । प्रथम आदि शूल विमाग इस तरह समझना
चाहिए, जैसे प्रथम दशाशृद राशि से चतुर्थ पव्यंत प्रथम शूल, चतुर्मास से अष्टम
पव्यंत द्वितीय शूल, नवम मेरे द्वादश पव्यंत तृतीय शूल जानना चाहिए ।

पूर्वोक्त योग में शुभग्रह का योग इन्हें पर भी शूल पव्यंत आयु होती है ।

आगर रवि के भिन्न पापग्रह का योग हो तो पूर्वोक्त फल नहीं होता है । वहीं
रवि की पापग्रह नहीं मानते अतः रवि के योग इन्हें पर उक्त फल होता हो देता है ॥ ३७-३८ ॥

अथ पूर्वोक्तशुलान्तमायुषि विशेषमाइ—

मन्दारेन्दुदृष्टे शुभयोगाभावे, पापयोगेऽपि या शुभमृद्दृष्टौ परतः ॥ ४७॥

विः—मन्दारेन्दुदृष्टे=शनिकुञ्जचन्द्रैर्दृष्टे, शुभयोगा-
भावे=शुभयोगरहिते रुद्रे सतीत्येषो योगः । वा पापयोगे=मन्दारेन्दुदृष्टे रुद्रे
पापयोगे सति द्वितीयः, या शुभमृद्दृष्टौ=मन्दारेन्दुदृष्टे रुद्रे शुभमृद्दृष्टौ सत्यामिति तृतीयः,
एतद्योगश्रये परतः=प्राप्तशुभापरत आयुरवसानं भवति ॥ ४० ॥

भाषा—यदि इष्ट पद के ऊपर शनि, मङ्गल और चन्द्रमा की दृष्टि हो और
शुभग्रह से वियुत हो तो शुक्र योग ।

वा इष्ट पद के ऊपर शनि, मङ्गल और चन्द्रमा की दृष्टि हो और शुभ ग्रह से
देखा जाता हो तो तृतीय योग ।

इन तीनों योगों में पूर्व कथित रीति से प्राप्त शूल से अस्तिम शूल में निपत्न
होता है ॥ ४० ॥

अथ शुभ पापग्रहनिर्णयमाइ इदः—

धर्कारनन्दफलिनः कलात् शूरा वशाशयग् । चन्द्रोऽपि शूर एवाश कविद्वाराकामये ॥

शुभाध्यजस्तकवयः सुवर्णापूर्वे शुभग्रहाः । प्रत्येकं शुभराशिरसं उच्छव्यो वा द्युधः शुभः ॥

भाषा—सूर्य, मङ्गल, शनि और रात्रु ग्रह से पाप ग्रह हैं, अर्थात् समान रूप से

सुर्यं पाप ग्रह उस से अधिक मङ्गल मङ्गल से अधिक शनि और शनि से अधिक रातु पाप ग्रह है। कहाँ मङ्गल के आश्रय होने पर चन्द्रमा भी पाप ग्रह होता है। तथा ब्रह्मपति, केतु, शुक्र और लुध यथा पूर्व शुभग्रह होते हैं। जैसे सामन्य रूप से लुध शुभग्रह उस से अधिक शुक्र, शुक्र से अधिक केतु और केतु से अधिक ब्रह्मपति शुभग्रह है। शुभग्रह की राशि या अपने उच्च में स्थित लुध शुभ है अन्यथा लशुभ है।

अथ शूलेऽपि कदा मरणमित्याह—

शूले चेत्तदन्तशूले ॥ ४१ ॥

विद०—शूल इति । शूले चेत्त=शूले चेन्मृतिः तदा तदन्तशूले=प्राप्तशूलावसा-नराशिदशायां निधनं स्यात् ॥ ४१ ॥

भाषा—प्राप्त शूल में भी कब मरण होगा इस का निश्चय करते हैं कि प्राप्त शूल में भी अन्तिम राशि की दशा में मरण होता है ॥ ४१ ॥

अथ पुनर्निधनयोगमाह—

रुदाथ्रयेऽपि प्रायेण ॥ ४२ ॥ क्रिये पितरि विशेषेण ॥ ४३ ॥

द्वन्द्वे कदे तदन्तं प्रायः॥४४॥ प्रथममध्यमोत्तमेषु चातत्तदायुपामृष्टे

विद०—रुदाथ्रय इति । प्रायेण=याहुन्येन, रुदाथ्रयेऽपि=रुदाथ्रितराशिदशाया-नन्तर्दशायां वा, निधनं भवति ।

क्रिये=मीने, पितरि=लमस्ये, विशेषेण=विशेषेण रुदाथ्रितराशिदशाया-निधनं भवति ।

रुदे=रुदप्रह्वे, द्वन्द्वे=अष्टमभावस्थे, प्रायः तदन्तं=प्रायः रुदप्रहाथ्रितराशिद-शायां मरणं भवति । या तत्तदायुपां=अल्पमध्यदीर्घायुपा, प्रपथमध्यमोत्तमेषु=प्रथममध्यमोत्तमेषु श्वेषु निधनं भवति ॥ ४२-४५ ॥

भाषा—यहुधा रुदाथ्रित राशि की दशा अन्तर्दशा में भी मरण होता है ।

यदि शीत राशि लग्न में हो तो विदेष कर के रुदाथ्रित राशि की दशा अन्तर्दशा में मरण होता है ।

यदि लग्न से अष्टम स्थान में रुद प्रह्वा हो तो प्रायः रुद प्रहाथ्रित राशि की दशा में मरण होता है ।

शालपायु, मध्यायु और दीर्घायु इन सीनों पोर्नों में गम से प्रथम, द्वितीय और तृतीय शूल में मरण होता है ॥ ४२-४६ ॥

अथ शूल—

रुदयोः पापमात्रते प्रथमक्षेषु शृतिभवेत् । विथरते मध्यशुलभ्येषु शृमत्वे वाम्त्वये शृति ॥

१ पादः] सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाद्वयसहितम् । १३२

भाषा—पूर्णोक्त दोनों प्रवार के रद्द प्रह पापग्रह हों तो प्रथम शुल में मरण होता है। दोनों में एक शुभ प्रह और दूसरा पाप प्रह हो तो द्वितीय शुल में मरण होता है। यदि दोनों शुभ प्रह हों तो अन्त शुल में मरण होता है।

अथ प्रकारान्तरेणायुर्योगनिर्णयाव महेश्वरप्रहमादः—

स्वभावेशो महेश्वरः ॥४६॥ स्वोच्चे स्वभै रिपुभावेशप्राणी ॥४७॥
पाताभ्यां यागे स्वस्य तयोर्चर्च योगे ततः ॥ ४८ ॥

विद्—स्वभावेश इति । स्वभावेशः=आत्मकारकादृष्टमेशः, महेश्वरः=महेश्वरप्रहो भवति ।

स्वोच्चे=निजोच्चे, स्वराशी=स्वक्षेप, स्थिते आत्मकारके, रिपुभावेशप्राणी=द्वादशादृष्टमेशयोर्मध्ये यो वलवान् स महेश्वरप्रहः स्यात् ।

स्वस्य=आत्मकारकस्य, पाताभ्यां = राहुकेतुभ्यां, योगे सति, वा=क्षयवा, रोगे = कारकादृष्टमस्थाने, तयोः=राहुकेतुयोः, योगे सति, ततः=ताभ्यां द्वादशादृष्टमेशयोर्मध्ये यो वलवान् स महेश्वरः स्यात् ॥ ४६-४८ ॥

भाषा—आत्मकारक से अष्टम स्थान का स्वामी महेश्वर प्रह कहलाता है ।

अगर आत्मकारक अपने उच्च में या स्वगृह में हो तो आत्मकारक स द्वादशेश और अष्टमेश इन दोनों जो बली हो वही महेश्वर प्रह होता है ।

अगर राहु या केतु से आत्मकारक पुत हो या आत्मकारक से अष्टम भवति में राहु या केतु हो तो उन से अष्टमेश और द्वादशेश इन दोनों में जो बली हो वही महेश्वर प्रह होता है ॥ ४६-४८ ॥

अथ ब्रह्मप्रहमादः—

प्रभुभावैरीशप्राणी पितॄलाभप्राण्यनुचरो विषमस्थो ब्रह्मा ॥४९॥

विद्—प्रभुभावैति । प्रभुभावैरीत्यप्राणी=पृष्ठादमद्वादशेशानां भव्ये यो बली स, पितॄलाभप्राण्यनुचरः=पितॄलाभयोः लग्नसमयोर्मध्ये यः प्राणी वली तस्यानुचरः पृष्ठस्थः, विषमस्थः=विषमराशिगतस्वेत् तदा स, ब्रह्मा=ब्रह्मप्रहो भवति । सप्तमभावयोग्यांशतो लग्नभुक्तांशं यावलग्नस्य पृष्ठं, लग्नभोग्यांशतः सप्तमभुक्तांशं यावत्, सप्तमभावस्य पृष्ठम् ॥ ४९ ॥

भाषा—लग्न और सप्तम इन दोनों में जो चली हो उस से पद्येश, अष्टमेश और द्वादशेश इन दोनों में जो बली हो वह लग्न और सप्तम में जो बली हो उस के पृष्ठ राशि में स्थित होकर विषम राशि में हो तो वह ब्रह्मप्रह कहलाता है ।

सप्तम भाव के भोग्यांश से लग्न के भुक्तांश पद्यन्त लग्न के पृष्ठ और लग्न के ओर्यांश से सप्तम के भुक्तांश पद्यन्त सप्तम भाव के पृष्ठ समस्ता चाहिए ॥ ५० ॥

अथ विशेषमाह—

ब्रह्मणि शनौ पातयोर्वा ततः ॥ ५० ॥ बहूनां योगे स्वजातीयः ॥ ५१ ॥
राहुयोगे विपरीतम् ॥ ५२ ॥ ब्रह्मा स्वभावेशो भावस्थः ॥ ५३ ॥

विवादे वली ॥ ५४ ॥

चिं—ब्रह्मणीति । शनौ=शनैश्चरे, ब्रह्मणि=ब्रह्मत्वं प्राप्ते, वा, पातयोः=राहुकेत्वोऽवृद्धत्वं प्राप्तयोः, ततः=पष्ठः (पष्ठाधीश इत्यर्थः), ब्रह्मा भवति ।

बहूनां=एकाधिकानां महाणां ब्रह्मयोगे प्राप्ते सति, स्वजातीयः=अंशाधिके ब्रह्मा भवति ।

राहुयोगे, विपरीतं=विलोमं (अल्पांश एवेत्यर्थः), ब्रह्मा भवति ।

स्वभावेशः=य आत्मकारकादृष्टमेशः तथा भावस्थः=अष्टमस्थव्य यः सोऽपि ब्रह्मा भवति ।

विवादे=अत्रापि ब्रह्मत्वप्राप्तविवादे, वली=तयोर्भव्ये यो वली स ब्रह्मा भवति ॥

आपा—शनि, राहु या केतु ग्रहत्वं प्राप्त हो तो उस से पर्वेश ब्रह्मा होता है ।

यदि एक से अधिक ग्रह में ग्रहत्वं प्राप्त हो तो उन में अधिक अंश वाला ग्रह ब्रह्मा होता है ।

राहु के योग होने पर विपरीत ब्रह्म ग्रह होता है, अर्थात् सब से अल्प अंश वाला ग्रह ब्रह्मा होता है ।

एवं आत्मकारक से अष्टमेश और अष्टम स्थान में स्थित ग्रह भी ब्रह्मा होता है । यही पर विवाद हो जो सब से वली ग्रह ब्रह्मा होता है ॥ १०-१४ ॥

ब्रह्महेश्वरप्रद्योरायुर्ज्ञनमाह—

ब्रह्मणो यावन्महेश्वरर्क्षददशान्तमायुः ॥ ५५ ॥

तत्रापि महेश्वरभावेशत्रिकोणाद्वे ॥ ५६ ॥

चिं—मद्दण इति । ब्रह्मणः=ब्रह्मप्रहात्, महेश्वरर्क्षददशान्तं=महेश्वरप्रद्योरायुर्ज्ञनमात्, आयुः=आयुर्दीयः स्यात् ।

तत्रापि=महेश्वरप्रद्योरायुर्ज्ञनमात्, महेश्वरभावेशत्रिकोणाद्वे—महेश्वरप्रद्योरायुर्ज्ञनमेशः तस्य त्रिकोणाद्वे त्रिकोणरायिदशाया निषेन्न स्यात् ॥

आपा—यह ये महेश्वरप्रद्योरायुर्ज्ञनमेश की स्थित दशा पर्यन्त आयुर्ज्ञन होती है ॥

उस में भी महेश्वर ग्रह से जो अष्टमेश उस से त्रिकोण रायि की दशा में निषेन्न होता है ॥ १५-१६ ॥

अथ मारकप्रहनिपत्रयोगावाह—

- २ स्वर्कमवित्तरिपुरोगनाथप्राणी मारका ॥५७॥ वित्तनाथः प्रायेणा पूटा
तदृक्षदशायां निधनम् ॥५८॥ तथापि कालाद्विपुरोगवित्तनाथापहरेद०
यि०—स्वकर्मेति । स्वकर्मवित्तरिपुरोगनाथप्राणी=स्वात् आत्मकारकारका-
इमाद्वा कर्मवित्तरिपुरोगनायामां सूतीयवद्वात्सात्त्वेशानां भधे यः प्राणी वली
य मारक स्वात् ।

विस्तार-उत्तरारक्षप्रदेश पश्चिम, ग्रामेण-वाहस्येन मारक स्थान ।

तदशाया॒=तसेषा॑ मारुप्रद्वा॑ण कृष्णशाया॑ रविद्वा॑या॑ निधनं मवति ।

तशेषिपि-मारकप्रहराशिदशायामपि, कालात्त-यस्मात् लग्नात्कारकादैत्यर्थं, रिपुरोगचित्तनायापहो-रिपुरोगचित्तनायार्वा पष्टाऽमद्वादोशार्वा अपहोरे अन्तर्दै-
शायार्वा निवर्त्त-स्यात् ॥ ५७-६० ॥

माण—मात्रकारक वा छात से दृढ़ीयेग, पहेज, अट्टेज और द्वारचेज, इन चारों में जो बली हो वह मारक होगा है।

भारक प्रह जिय शशि में बौद्ध हो उस शशि को दशा में मरण होता है। उस में भी सप्त वा कारक से जो सप्तम हो उस से पष्टेश, अष्टयेश और द्वाष्टयेश की कल्पनादेशा में मरण होता है ॥ ५७-६० ॥

अथ प्रन्थान्तरे मारकस्यानमाद्—

अस्मे मारुत्स्थानमष्टादश्यं च यद् । तयोरपि व्ययस्थानं मारुत्स्थानमूच्यते ॥

तत्राप्याद्यव्यवस्थानादुदितीयं वलदतरम् ।

भाषा—जन्म एवं से अष्टम स्थान और अष्टम स्थान से अष्टम स्थान (जन्म एवं से तृतीय स्थान) इन दोनों से व्यय स्थान अर्पण, सप्तम और द्वितीय स्थान मात्रक स्थान कहलाते हैं।

लघु मार्केश विचारमाह—

अल्पमध्यमपूर्णायु प्रमाणमिह दोगजम् । विद्याय ग्रथमेऽप्युदां ततो मारकविन्तवम् ॥
महामारुकसंशी ती दानिकेतु दृष्टि स्मृतो । जायद्वितीयकाधीशो मारकवटमेष्वरः ॥

એહું પારમ્પરિએ વાણીશો મુલ્યાંકન : ।

मादा—प्रथम अद्यप, मध्य और पूर्ण शायुयोंगों का शान कर मारेकेश का

- विधार करना चाहिए। शमेश्वर और केतु महा मारक दंतक हैं। सतमेश, द्वितीयक और काष्ठमेश मारकेश होते हैं। अग्र पष्ठ स्थान में बहुत पापपद ही सो बहुत मुख्य मारक होता है।

अथ मरणसमयज्ञानमाह—

मारकेशदशाकाले मारकस्थस्य च पापिनः । पापे पापयुजां पाके सम्बद्धे निधनं नृणाम् ॥
असम्भवं व्ययाधीशदशायां मरणं दिशेत् । तदभावेऽष्टमेशस्य दशायां निधनं पुनः ॥
मन्दशेत्पापसंयुक्तो मारकप्रहयोगतः । तिरस्कृत्य इहान्सर्वाखिहन्ता पापकृच्छनिः ॥

भाषा—मारकेश प्रह की दशा में और मारकस्थान में स्थित पाप प्रह की अन्तर्देशा में अथवा पाप प्रह की दशा और पाप प्रह की अन्तर्देशा में आयु का अन्तिम समय हो तो मनुष्य की मृत्यु होती है । उस के असम्भव हो तो व्ययेश का दशा में उस के असम्भव हो तो अष्टमेश की दशा में मरण होता है । यदि शान्तेश्वर पापयहों से युत हो तो सब पूर्णोक्त मारक प्रहों को हटा का वह स्वर्य मृत्यु कारक होता है ॥

अथ ग्रन्थान्तरेऽल्पायुरादियोगमाह—

अल्पायुर्दिननाथस्य शत्रुर्लमाधिपोयदि । समत्ये मध्यमायुः स्यान्निमन्त्रे दीर्घायुरादिशेत् ॥
पलहीने विलम्बेशो जीवे केन्द्रत्रिकोणगे । षष्ठाष्टमव्यये पापे मध्यमायुरुदाहतम् ॥
छुमे केन्द्रत्रिकोणस्ये शनौ वलसमन्विते । षष्ठे वाप्यष्टमे पापे मध्यमायुरुदाहतम् ॥

लग्ने त्रिकोणे केन्द्रे वा मध्यमायुर्त्व मिथिते ।

भाषा—यदि लग्नेश सूर्य का शत्रु हो तो अल्पायु, सम हो तो मध्यायु और मित्र हो तो दीर्घायु योग होता है ।

लग्नेश निर्वल हो, तृहस्पति केन्द्र या त्रिकोण में हो, पष्ट, अष्टम, द्वादश में पाप प्रह हो तो मध्यायु योग होता है ।

यदि केन्द्र या त्रिकोण में शुभ प्रह हो शनि वलयुत हो और पाप प्रह पष्ट, अष्टम में हो तो मध्यायु योग होता है ।

अथवा केन्द्र या त्रिकोण में शुभ प्रह हो शनि वली हो और लग्न, त्रिकोण, केन्द्र इन में ही पाप प्रह हो तो मध्यायु योग होता है । उक्त योग मिथित होने पर भी मध्यायु योग कहना चाहिए ।

अथ ग्रन्थान्तरे चायुर्योगमाह—

आयुः स्थानाधिपः पापैः सदैव यदि संस्थितः ।

क्रोत्यल्पायुषं जातं लग्नेत्रोऽप्यभ उस्थितः ॥

एवं हि शनिना चिन्ता कार्या तर्कविवशणैः । कर्माधिपेन च तपा चिन्तनं कार्यमायुपः ॥
पष्टे व्ययेऽपि वलेशो व्ययाधीशो रिपो व्यये । लग्नेऽष्टमे दिग्तोयापि दीर्घमायुः प्रयत्नति

भाषा—जहाँ वहाँ पाप प्रहों के साप मष्टमेत लिप्त हो और लग्नेश अष्टम स्थान

१ पादः] सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाद्वयसदितम् । ५७७

मैं दीटा हो तो अल्पातु योग होता है । इसी तरह शनि और कर्मेश के बदा भी आयु का विचार करना चाहिए ।

* अगर षष्ठ्ये षष्ठ्ये या द्वादश स्थान में दीटा हो, षष्ठ्ये षष्ठ्ये द्वादश, उस या अष्टम स्थान में हो तो दीर्घातु योग होता है ।

बन्धक—

स्त्रयो न स्वांशके नाधिपित्राण्ये मिश्रमन्दिरे । दीर्घातुपंच क्रोत्येव लग्नेशोऽप्यमपः पुनः॥
लग्नात्यमपकर्मेशमन्दाः केन्द्रिकिण्योः । लग्ने वा संहितास्तद्वद् दीर्घातुपंचमायुपम्॥
रन्ध्रेशो नीचराद्यित्ये रन्ध्रे पापमहैर्युते । लग्नेशो दुर्बलो यस्य अल्पातुर्भवति द्रवम्॥
रन्ध्रेशो पापसंयुजे रन्ध्रे पापमहैर्युक्ते । व्यये त्रूरप्रहैर्युक्ते जातमात्रे मृतिं वदेत् ।

केन्द्रिकिण्योऽस्याः पापाः पश्चात्तातु शुभा चरि ॥

लग्नरन्ध्रेशनीचर्ये जातमात्रे मृतिं वदेत् । परमे पापसंयुजे रन्ध्रेशो पापसंयुते ॥

रन्ध्रे पापमहैर्युक्ते अल्पायुधः प्रजायते ।

भाषा—अगर लग्नेश या अष्टमेश स्वपृष्ठ में हो कर अपने नवांश में या अधिमित्र के नवांश में न लौट कर मिश्र के नवांश में दीटा हो तो दीर्घातु योग होता है ।

अगर लग्नेश, शतमेश, कर्मेश और शनि बैन्द्र, त्रिकोण या लाभ स्थान में स्थित हों तो दीर्घातु योग होता है ।

अगर अष्टमेश या षष्ठ्ये प्रह से युत हो अष्टम स्थान पाप प्रह से युत हो और लग्नेश दुर्बल हो तो अल्पातु योग होता है ।

अगर अष्टमेश या त्रिकोण में पाप प्रह, षष्ठ्ये और अष्टम में शुभ प्रह और लग्नेश तथा अष्टमेश नीचरा राशि में हो तो जातक दीटा होते ही मर जाता है ।

यदि लग्न से पश्चम स्थान, अष्टमेश और अष्टम स्थान पाप प्रहों से युत हो तो अल्पातु योग होता है ।

अथ प्रन्थान्तरे मृत्युयोगात्मा—

रंप्रिये रिपुरन्गारिण्यगृह्ये तत्पादमुक्ती मृतिमन्दाकान्तगृहेशपादस्यये रघ्वेशमुक्तीतया ।

पाके रन्ध्रगृहाभिष्यत्य तदत्पादान्तस्य मुक्ती तु वा

देटाना वलदुर्बलेन सकल संचिनत्य यत्प्रदेत् ॥

भाषा—यदि अष्टमेश प्रह, अष्टम, द्वादश इन तीर्थों स्थानों में से किसी प्रक स्थान में हो तो उस की दशा कल्पदेशा के समय मृत्यु होती है ।

अथवा लग्नेशवर त्रिस स्थान में दीटा हो उस स्थान के स्वामी की दशा और अष्टमेश की अग्नदेशा में मृत्यु होती है ।

अथवा अष्टमेश की दशा और अष्टम स्थान में स्थित ग्रह की अन्तर्दंशा दशा में
सृत्यु होती है ।

अगर अष्टम स्थान में दो तीन ग्रह हों तो उन में जो सब से निर्वल ग्रह हो उस
की अन्तर्दंशा में सृत्यु होतो है ।

अथ प्रकारान्तरेण मृत्युयोगमाह—

लप्तात्पञ्चमराशिपेन सहितो व्योमाटनानां दशा

चंह्या भानुहतावशेषगृहगे मृत्युं दिनेशो सति ।

पुत्रेशो न विच्छरेण सहितः स्वाद्वैन सञ्चिन्तये-

हलवनेशेन युताद्वमङ्गविहृतं संक्रान्तिपूर्वं दिनम् ॥

भाषा—लग्न से पञ्चम राशि के स्वामी से युत ग्रहों की दशा संख्या में वारह से
भाग देने से जो शेष बचे उस के समान संख्या धाली राशि में जय सूर्य आवे तथ
सृत्यु कहनी चाहिए ।

यदि पञ्चमेश किसी अन्य ग्रह से युत न हो तो केवल उसी के दशा वर्ष से
विचार करना चाहिए । लग्नेश से युत ग्रह के दशा वर्ष में तीस का भाग देने से जो
शेष बचे संक्रान्ति दिन से उतने दिन पर सृत्यु होती है ॥ १६ ॥

अथ प्रकारान्तरेण मृत्युयोगमाह—

देहेशो च विनाशपे बलयुते केन्द्रशिक्षोणस्थिते

तद्युक्तप्रदृपाकमुक्तिसमये रोगापवादः फलम् ।

रघ्नेशस्तनुप्रथ खेचरदुती केन्द्रशिक्षोणस्थितौ

रन्ध्रस्थानगतस्य पाकसमये मृत्युं समेति ध्रुवम् ॥

भाषा—यदि लग्नेश और अष्टमेश धाली हो कर केन्द्र या श्रिकोण में स्थित हों
तो उस से युत ग्रह की दशा अन्तर्दंशा में रोग का अपवाद होती है ।

लग्नेश अष्टमेश दोनों कीसी भी मह से युत हो कर केन्द्र या श्रिकोण में स्थित
हो तो अष्टम स्थान में स्थित ग्रह की दशा में निश्चय कर के सृत्यु होती है ।

अथान्येऽपि सृत्युयोगाः—

लग्नेशो निधनारिरिष्टगृहगे राहीं स केती तु या

होरारन्ध्रपञ्चयुतप्रदृदशा जातस्य मृत्युप्रदा ।

तत्थेटान्वितराशिनायकदशा नाशप्रदा देहिनां

ऐठानां प्रथमागतस्य फणिः पाचापदारे क्रमात् ॥

भाषा—लग्नेश, अष्टमेश दोनों पष्ठ या द्वादश गृह में हो कर राहु या केतु के
साप हो तो लग्नेश या अष्टमेश से युत ग्रह की दशा में सृत्यु होती है ।

१०८) सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी शीकाडयसहितम् । १७६

आगर उन दोनों के साथ में कोई भी यह न हो तो उस में युव राशि स्वामी की दशा में मरण होता है ।

* पूर्वोक्त प्रहोंका दशा में राहु की अन्तर्देशा आने पर मुख्य भारक सत्त्व होता है ।
अथ कष्टसुखश्रुयोगसाह—

जातस्य जन्मसमये विषये विलग्ने एवंतेशारुप्रपतिपाकातीव कष्टम् ।

पश्चादतीव सुखमेति विलग्नाये वीर्यान्विते निधनप्रस्थ मृतिं दशायाम् ॥

भाषा—जातक के जन्म काल में एवं वर्षहीन हो तो लग्नेश और अष्टमेश की दशा कष्ट होने वाली होती है ।

और दशा के अन्त में विशेष सुख होता है । आगर लग्नेश वही हो तो अष्टमेश की दशा में सुख्य होती है ।

अथान्यदप्याह—

नाशे नाशपती तु तद्ग्रहदशा भुक्ते समेत्यामव्य

लग्ने लग्नपती तु लग्नपदशा भुक्ते शरीरार्तिभाव् ।

पश्चादामयनाशर्वं तु तुमुखं मोदत्वं सज्जायते रन्प्रेतो वल्लस्युते तनुपतेर्दीपे गृतिर्देहिनाम् ॥

भाषा—आगर अष्टम स्थान के श्वासी अष्टम स्थान में वैठा हो तो उस की अन्तर्देशा में रोग होता है ।

आगर लग्नेश लग्न में बैठा हो तो उस की अन्तर्देशा में पहले शरीर में वट, पीछे से ग का नाश शरीर में सुख और अनेक रुह के हृष्ण होते हैं । यदि अष्टमेश बल्ले हो तो लग्नेश की दशा में सुख्य होती है ।

अथ पितृभ्यां समं सृत्युयोगसाह—

त्रिकोणे केन्द्रे या यदि पितृततुक्षेप्रपतयो दशाभुक्ते तेपानुभवणमाहुर्गुणिगणा ।

सभीमे भन्दाङ्गे फणिखुजि तु वेन्दी निधनमे

त्वपस्मारस्तहमान्मरणमयवेन्दी कृशतनी ॥

भाषा—नवयोग, लग्नेश और चतुर्थेश प्रिकोण या केन्द्र में हो तो उन की दशा, अन्तर्देशा में जातक के मरण के पश्चात् उस के माता, पिता का भी मरण होता है । ऐसा सुनि लेगरों का कथन है ।

आगर मङ्गल या शनि या राहु के साथ ही कर चढ़ामा निर्वल हो तो अपस्मार (सुधी) से मरतु होती है ।

अन्यदप्याह—

तीयेदृष्टमयेचरो यदि तनुप्राहेन उचिन्ताये-

न्मन्दे सर्वयसेऽप्यवाहयते तत्पात्रभुक्ते भूतिः ।

रन्प्रेक्षोदयनायकी सख्चरौ युक्तप्रहो दुर्बलो,
यस्तस्य द्युचरस्य पाकसमये भुक्ती च मृत्युं वदेत् ॥

भाषा—यदि अष्टम स्थान में पढ़ न हो तो लग्न में जो पढ़ स्थित हो उसी के चक्र विचार करना चाहिए ।

अगर शनि लग्न या अष्टम में हो तो उस की दशा, अन्तर्देशा में मरण होता है ।

अष्टमेश और लग्नेश जिस पद से युत हो यदि पढ़ निर्वल हो तो उसी के दशा, अन्तर्देशा में मृत्यु होती है ।

नाशस्थे ततुपेऽयवा निधनपे पाषेन युक्तेषिते
भूदेऽदश्यगतेऽयवा रिपुगृहे जातो गतायुम्बेत् ।
दीर्घायुनिंजतुद्वगे शुभयुते केन्द्रत्रिकोणेऽयवा
रन्प्रे रन्प्रपत्ती चिरायुरुदयं चाते विलगनाथिपे ॥

भाषा—लग्नेश अष्टम में अथवा पाप प्रहों से युत अष्टमेश अस्त हो या शब्द-गृह में हो तो जातक आयु रहित होता है ।

यदि शुभप्रहों से युत अष्टमेश अपने उच्च में स्थित हो का केन्द्र या त्रिकोण में हो तो दीर्घायु योग होता है ।

अथवा अष्टमेश अष्टम में और लग्नेश लग्न में हो तो भी चिरायु होता है ।

अथ पुनरल्पायुक्तिरायुर्योगाभाद—

रन्प्रापिपे पापगृहोपयाते दुः स्थानगे पापमुतेऽल्पमायुः ।
शुभान्विते शोभनराशियुक्ते शुभेषिते रन्प्रगते चिरायुः ॥

भाषा—अष्टमेश पापगृह में, दुःस्थान (६, ८, १२) में स्थित होकर पाप पढ़ से युत हो तो क्षमपायु होता है ।

यदि शुभ पढ़ शुभ राशि में हो, अष्टम में स्थित हो कर शुभपद से दृष्ट हो तो चिरायु होता है ।

अथ पुनरल्पायुर्दीयादियोगाभाद—

अस्पायुर्यदगेऽयवा रिपुगते पापान्विते रन्प्रे
लग्नेशेन युते तु तत्र विष्णे जातोऽस्यजीवी नरः ।

इस्थे रन्प्रपत्ती चिरायुरुदयन्तिष्ठापिष्ठी पष्ठगौ-

रिःक्षस्पी यदि या यमेति गनुओ जातदिवरातुर्भूमिम् ॥

प्यापारोदयरन्प्रापत्तिरात्यः केन्द्रत्रिष्ठोणायगः ।

दीर्घादुर्विवहाः यमानुतनया वयस्पमातुर्वदेत् ॥

। पदः] सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाद्यसहितम् । १८८

भाषा—अष्टमेश पापग्रह से सुत हो कर द्वादश वा पष्ठ में स्थित हो तो जातक वैष्णवातु होता है ।

आगर अष्टमेश-ठडनेश के साथ हो वह द्वादश वा पष्ठ स्थान में हो और निर्णय हो तो जातक अष्णवातु होता है ।

आगर अष्टमेश अपने गृह में हो तो दीर्घातु होता है ।

यदि वा एवनेश और अष्टमेश पष्ठ वा द्वादश में हो और शुमश्रृंग हो सुत हो तो दीर्घातु होता है ।

द्वादश, लग्नेश और अष्टमेश केन्द्र, श्रिकोश वा एकादश में स्थित हों तो दीर्घातु होता है । यदि उक्त प्रहृति के साथ हाँ तो अष्णवातु होता है ।

अथ मरणस्थानमुक्तं सर्वार्थचिन्तामणी—

जनी वा चरराशिस्थे चर। शस्त्रेऽवधा भवेत् । स्थिरे रन्ध्रे तदीशोऽपि स्थिरराशी तदंशके ॥
जनी वा स्थिरराशयेत् स्वरूपे मरणं भवेत् । रन्ध्रे हिन्देहास्यादौ मांगे मरणमादिशेत् ॥

भाषा—यदि लग्नेशवर चर राशि वा चर राशि के नवांश में हो तो दूर देश में मरण होता है ।

द्वं अष्टम स्थान स्थिर राशि में हो और उस राशि का स्वामी भी स्थिर राशि में हो तो अपने पर में मरण होता है ।

तथा अष्टम स्थान में हिन्द्वमाव राशि हो और उस का स्वामी भी हिन्द्वमाव में हो तो रास्ते में मरण होता है ।

अथ परिभादितोगमाह—

रन्ध्रे पापर्वतुष्टि पापर्वते सदन्तरे । पापक्षेऽयदा रन्ध्रे जातः परिभान्वितः ॥
शुमश्राजो सम्बन्धे रन्ध्रे परिशब्दो नहि । चोरन्ध्रे नुहिद्दैरो तदीशै चरराशिये ॥

भाषा—आगर अष्टमेश पाप ग्रह से सुत हो, पापहाँ के मध्य में हा, दान गहों के राशि में हो अथवा अष्टम स्थान में हो तो वह मनुष्य विस्तृत होता है ।

यदि अष्टम स्थान में शुम गहों का सम्बन्ध हो तो विस्तृत वहाँ होता है ।

यदि अष्टम स्थान चर राशि के और अष्टमेश भी उसी में (चर राशि में) तो तो दूर देश में मरण होती है ।

अथ शुमादिमरणयोगमाह—

उत्तरेऽद्यन्द्रौ व्ययगात्मु पापः शिशोर्मुते शोभनदृष्टयमावे ।

अस्ते रूपै चन्द्रयुते विलग्ने पापनिते तत्सुवयत्तुमाहुः ॥

हिन्देशचन्द्रौ व्ययगौ तदातीमन्यो भवेत्सीम्यद्या विहीनो ।

युक्ते तयोरन्यतरेण रिष्टे छाली भवेत्सीम्यद्या विहीने ॥

दिनेशचन्द्री व्ययगौ तदीशो लग्नस्थिते देहविनाशमाहुः ।

सुरेश्वरे रन्ध्रगते व्यये वा पापन्विते पापदशा समेते ॥

लग्नाधिपे पूर्णबले सुखेशभागयेद्वरौ नाशगतौ विद्वीनौ ।

जातस्य जन्मावसरे तदानीं पितुष्ठ मातुर्निधनं वदन्ति ॥

भाषा—सूर्य और चन्द्रमा लग्न में पाप प्रह से युत हो तो बालक की मृत्यु होती है। शुभ प्रह की दृष्टि न हो तो बालक की मृत्यु होती है।

सूर्य सप्तम में चन्द्रमा लग्न में पाप प्रह से युत हो तो बालक की मृत्यु होती है।

सूर्य ईर्ष्म में चन्द्रमा द्वादश में किसी भी शुभ प्रह की दृष्टि से रहित हो तो वह जातक अन्धा होता है।

अगर सूर्य, चन्द्र इन दोनों में से कोई एक पष्ठ और दूसरा व्यय स्थान में हो और इन पर किसी भी शुभप्रह की दृष्टि न हो तो एक अंग से काना होता है।

यदि सूर्य और चन्द्रमा व्यय स्थान में व्ययेश लग्न में हो तो शरीर नाश होता है।

यदि बृहस्पति अष्टम या द्वादश में हो और पापप्रह से दृष्टि युत हो तो जन्म समय में हो जाता, पिता दोनों की मृत्यु होती है।

अथवा लग्नेश पूर्ण पली, चतुर्थेश और नवमेश अष्टम स्थान में चल हीन हो तो भी जन्म समय में हो जाता, पिता दोनों की मृत्यु होती है।

अथ पुनर्मात्रापित्रीर्मरणयोगमाद—

अस्ते शशांके यदि मातृमृत्युं पापन्विते पापदशा समेते ।

भानी पितुर्मृत्युमुदाहरन्ति मन्दारशुकैः सहिते युतस्य ॥

तृतीयपृथिव्यतरेचरे-द्रैः पापप्रहेन्त्यगतैऽच सीम्यैः ।

शिशोर्मृतिं वा ऊमुदात्मवन्धी चतुर्थरन्ध्रस्थितपाप्लेदैः ॥

भाषा—चन्द्रमा सप्तम स्थान में स्थित हो कर पापप्रहों से युत दृष्ट हो तो माता का मरण होता है।

यदि सूर्य सप्तम में स्थित हो कर पापप्रहों से युत दृष्ट हो तो पिता का मरण होता है।

यदि सप्तम में शनि, मङ्गल और शुक्र हो तो बालक का मरण होता है।

यदि पाप प्रह तृतीय, पष्ठ में स्थित हो शुभप्रह द्वादश में हो अथवा पापप्रहों से युत हो कर चन्द्रमा चतुर्थ या अष्टम स्थान में हो तो बालक की मृत्यु होती है।

विद्यान्येऽप्यरिष्योगः—

स्त्राच्छुभे कर्मणि भूमिपुत्रे पापेषिते मातुलमृत्युमाहुः ।

मन्देन युक्ते यदि पुत्रमृत्युं चन्द्रे हि तम्मातृगृति सपापे ॥

पितुर्मूर्तिर्वाचरनायकेऽन न सशम पापदक्षा सुमेते ।
 पापद्वयेनापि मुही विलगननिश्चाकरी सूर्युग्रैति बाल ॥
 मस्ते शशाके परिवेषयुक्ते पापेक्षिते वा मरण व सदा ।
 लभ्ये शुद्धे वा यदि अन्दवीमो कणीन्द्रियौ पितुरस्त्वयाद् ॥
 पापेक्षिते भूमि मुते कलदे जाते स मरु समुद्रैति रम्धे ।
 सोत्ये धरासनुयुते सपापे पापेक्षिते सोदरनाशमाहु ॥

भाषा—जन्म इन्ह से न गम या दशम स्थान में हित हो कर मङ्गल यदि पाप-
 पद से छूट हो तो जातक के भासा की मृत्यु होती है ।

यदि शनैद्वयर से युक्त हो तो उस के पुत्र की मृत्यु होती है ।

चन्द्रमा से मुत हो तो उस के भाता की मृत्यु होती है ।

अग्रह उष्ण स्थानों में हित हो कर सूर्य-पापप्रद से देखा जाता हो तो निवाय
 कर के उस के दिता की मृत्यु होती है ।

अगर लग्नेश, चन्द्रमा दो यात्रकहों से युक्त हो तो बालक काल में ही वह मृत्यु
 को पाता है ।

यदि अग्रह काल में चन्द्रमा ग्रहण कोल का अथवा परिवेष युक्त हो कर पाप
 दृष्ट हो तो भाता फीत्र मर जाती है ।

यदि एकादश या नवम स्थान में शनैद्वय, मङ्गल और राहु युक्त हो तो उस के
 पिता का नाश होता है ।

यदि मङ्गल सप्तम या अष्टम स्थान में हित हो कर पाप दृष्ट हो तो उस जातक
 की मृत्यु होती है ।

यदि मङ्गल तृतीय भाव में हित हो कर पापप्रद से युक्त दृष्ट हो तो उस का
 भारी का नाश होता है ।

इति भृणिंडैसिनिप्रणीतजैसिनिसूचटीकायां
 द्वितीयाद्याये प्रथमं पाद् ।

अथ द्वितीयाद्याये द्वितीयपादः ।

तत्र पितुकारकप्रहमाद—

रविशुक्लयोऽप्राणी जनकः ॥ १ ॥

विद्—रविशुक्लयोरिति । रविशुक्लयो =सूर्यगार्गयो मध्ये य प्राणी बलवान्,
 जनक =पितुकारक स्थान, (तातस्तु जनक पितैरयमर) ॥ १ ॥

भाषा—रवि और शुक्र हन दोनों में जो वलवान् हो वह पितृकारक होता है ॥१॥

अथ मातृकारकप्रहमाह—

चन्द्रारयेर्जननी ॥ २ ॥

विद्—चन्द्रारयोरिति । चन्द्रारयोः=चन्द्रमङ्गलयोर्मध्ये यो बलवानसौ, जननी=मातृकारकः स्यात् ॥ २ ॥

भाषा—चन्द्र और मङ्गल इन दोनों में जो बलवान् हो वह मातृ कारक होता है ॥२॥

अथ तत्र विशेषमाह—

अप्राण्यपि पापद्वष्टः ॥ ३ ॥

विद्—अप्राण्यपीति । अप्राण्यपि=निर्वलोऽपि (रविशुक्रयोर्धन्द्रारयोश्च मध्ये यो निर्वलः सोऽपि) पापद्वष्टः=पापग्रद्वष्टश्चेत्तदा यथासंख्यं पितृमातृकत्वमवाप्नोति ॥ ३ ॥

भाषा—रवि, शुक्र और चन्द्र, मङ्गल हन दोनों शुगल में निर्वल भी वह अगर पाप ग्रह से देखा जाता हो तो वह कम से पितृकारक और मातृकारक होता है । वैसे सूर्य और शुक्र हन दोनों में जो ग्रह निर्वल हो वह भी अगर पाप ग्रह से देखा जाता हो तो वह पितृकारक होता है । तथा चन्द्र और मङ्गल हन दोनों में जो ग्रह निर्वल हो वह भी अगर पाप ग्रह से देखा जाता हो तो मातृकारक होता है ॥ ३ ॥

अथ मातापित्रोर्निधनसमयमाह—

प्राणिनि शुभद्वष्टे तच्छूले निधनं मातापित्रोः ॥ ४ ॥

विद्—प्राणिनीति । प्राणिनि=ब्रह्मति (मातृकारके पितृकारके च), शुभद्वष्टे=शुभप्रहावलोकिते सति, तच्छूले कारकप्रदशशुलशायां क्लेश, मातापित्रोः=जननी-जनहयोः, निधनं=मरणं भवति, अर्थात् मातृकारकप्रदशशुलशायां मातृमरणं, पितृकारकप्रदशशुलशायां पितृमरणं भवति ॥ ४ ॥

भाषा—मातृकारक ग्रह तथा पितृकारक ग्रह वली और शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो कम से कारक ग्रह की शूल दशा में माता पिता का मरण होता है । अर्थात् मातृकारक ग्रह की शूलदशा में माता का और पितृकारक ग्रह की शूलदशा में पिता का मरण होता है ॥ ४ ॥

अथात्र मतान्तरमाह—

तद्वायेशो स्पष्टयते ॥ ५ ॥ तच्छूल इत्यन्ये ॥ ६ ॥

विद्—तद्वायेश हैति । तत्त्वाभ्यांश्राण्यप्राणिपितृमातृकारकप्रदाभ्यां, भावेशो=

२ पादः] सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाद्यसंहितम् । १८५

अष्टमेशे, स्वष्ट्यले=अधिकव्यले सति, तच्छूले=अष्टमेशा। अथितशूलदशायां, मातापित्रो निधनगित्यन्ये-आचार्याः प्राहुः ॥ ५-६ ॥

भाषा—यद्वान् या निर्वल मातृकारक और पितृकारक यह से अष्टम स्थान का स्थानी अग्र अधिक वल्वान् हो तो उस अष्टमेश की शूलदशा में माता, विता का मरण होता है यह भी किसी का मरण है ॥ ५-६ ॥

अथ मातापित्रोरायुर्विचारे विशेषमाद—

आयुपि चान्यत् ॥ ७ ॥

विं०—आयुपीति । आयुषि=आयुर्दाये (पित्रादीनामायुषि विचारणे), अन्यत् प्रकारान्तरं विचार्यम् ॥ ७ ॥

भाषा—पिता और माता के आयुर्दाय विचार करने में और जो प्रकारान्तर है गये हैं, उस से भी विचार करना पाहिए ॥ ७ ॥

अथ पुनस्तयोर्निधनयोगमाद—

अर्कज्ञयोगे तदाथये किये लग्नमेष्टदशायार्या पितुरित्येके ॥ ८ ॥

विं०—अर्कज्ञयोग इति । किये द्वादशे (लग्नाद्वादशे), तदाथये=अर्कज्ञयोगे (सिंहमुखुनकन्यान्यतरराशिसत्त्वे), अर्कज्ञयोगे=सूर्यवुधकोयोगे सति, लग्नमेष्टदशाया=लग्नातृतीयपश्चराशिदशायार्या, पितुः=तातस्य, निधनं स्थात्, इत्येके=इत्येवं निधनं

भाषा—लग्न से वारहवें स्थान में सिंह या मिथुन या कन्या राशि पड़े उस में सूर्य और वुध का योग हो तो लग्न से तृतीय और पश्चम राशि की दशा में विता का निधन होता है । यह किसी का मरण है ॥ ८ ॥

अथ वास्यावस्थायां मातापित्रोर्निधनयोगमाद—

व्यर्क्षपापमात्रहृष्टयोः पित्रोः प्राग् द्वादशाद्वात् ॥ ९ ॥

विं०—व्यर्क्षपापेति । पित्रोः=मातृपितृकारकप्रहयोः, व्यर्क्षपापमात्रहृष्टयोः=सूर्यरहितपापमात्रहृष्टयोः, द्वादशाद्वात्=जातकस्य द्वादशवत्सरतुन्यावस्थातः, प्राग्=पूर्वमेव, पित्रोः=मातापित्रोर्निधनं स्थात् । अर्थात् मातृकारकप्रहे सूर्यरहितपापमहावलोकिते पितुर्मरणं स्थात् । अत्र पित्रोरित्यस्य देहलीढीपन्यायेनाभ्ययो विधेयः ॥ ९ ॥

भाषा—मातृसौरक और पितृ कारक पह सूर्य रहित पाप पह से देखा जाता हो तो बालक की वारह यसकी अवस्था के पहले ही क्रम से माता आर पिता का मरण होता है ।

जैसे मातृकारक प्रह सूर्यं रहित पाप प्रह से देखा जाता हो तो बालक की बाह्य चरस की अवस्था से पूर्वं माता का मरण और पितृकारक प्रह सूर्यं रहित पाप प्रह से देखा जाता हो तो बालक की बाह्य चरस की अवस्था से पूर्वं पिता का मरण होता है। पहां पर “पित्रोऽहं” इस शब्द को देहली दीपन्वाय से अन्वय करना चाहिए—

अथ स्त्रीनिधनयोगमाह—

गुरुशूले कलत्रस्य ॥ १० ॥

विं०—गुरुशूल इति । गुरुशूले=गुर्वाधितराशिविकोणदशायां, कलत्रस्य = विद्याः निधनं स्यात् ॥ १० ॥

भाषा—वृहस्पति की शूल दशा में स्त्री का निधन होता है ॥ १० ॥

अथान्येषां निधनयोगमाह—

तत्तच्छूले तेषाम् ॥ ११ ॥

विं०—तत्तच्छूल इति । तत्तच्छूले=तत्त्वकारकप्रहशूलदशायां, तेषां=तेषां तेषो निधनं स्यात् । भ्रातुषुप्रमातुलादिकारकप्रहशूलदशायां कमेण भ्रातुषुप्रमातु-लादीना निधनं स्यादित्यर्थः ॥ ११ ॥

भाषा—भ्रातृकारक, पुत्रकारक, मातुलकारक आदि की शूल दशा में कम से भ्राता, पुत्र, मातुल आदिका मरण होता है ॥ ११ ॥

अथ मरणस्य शुभमशुभतत्त्वज्ञानमाह—

कर्मणि पापयुतद्वृष्टे दुष्टं मरणम् ॥ १२ ॥ शुभं शुभदृष्टयुते ॥ १३ ॥
मिथ्ये मिथ्यम् ॥ १४ ॥

विं०—कर्मणीति । कर्मणि=तत्त्वकारकप्रहशूलग्नादा तृतीयस्थाने, पापयुतद्वृष्टे अशुभप्रदृष्टयुतद्वृष्टे सति, दुष्टं=नानाविधश्वलेशसमन्वितं, मरणं=निधनं स्यात् । शुभं-युतद्वृष्टे=शुभप्रदृष्टयुतद्वृष्टे, शुभं=अल्पश्वलेशसहितं मरणं स्यात् । मिथ्ये=शुभपापयो-द्वयोरपि योगे दृष्टी वा, मिथ्रं शुभाशुभात्मकं मरणं स्यात् ॥ १२-१४ ॥

भाषा—कारक प्रह से या लाज से तृतीय स्थान पाप प्रह से सुन दृष्ट हो तो बहुत कष्ट के साथ मरण होता है । अगर वह तृतीय स्थान शुभ प्रह से सुन दृष्ट हो तो अहं कष्ट के साथ मरण होता है । अगर शुभप्रह और पापप्रह इन दोनों से सुन दृष्ट हो तो मध्यमरूप के कष्ट के साथ मरण होता है ॥ १२-१४ ॥

अथ प्रहयोगादन विदीपमाह—

मादित्येन राजमूलात् ॥ १५ ॥ अन्द्रेण यक्षमणः ॥ १६ ॥

३ पादः] सोदाहरणा-विमला-संस्कृत-हिन्दी-योकाल्यसहितम् । १८७

कुजेन व्रगशङ्खाभिदाहार्थैः ॥ १९ ॥ शनिना वातरोगात् ॥ १८ ॥

मन्दमान्दिभ्यां विषसर्पेजलोद्बन्धनादिभिः ॥ २० ॥

केतुना विषूचीजलरोगार्थैः ॥ २० ॥

चन्द्रमान्दिभ्यां पूरगमदाक्षकवलादिभिः क्षणिकम् ॥ २१ ॥

गुरुणा शोफाहचिवमनार्थैः ॥ २२ ॥ शुक्रेण मेहात् ॥ २३ ॥

मिथ्रे मिथ्रम् ॥ २४ ॥ चन्द्रदृग्योगान्विष्टयेन ॥ २५ ॥

विं०—आदित्येनेति । आदित्येन=रविणा युते दृष्टे वा तृतीये, राजमूलात्=राज-हेतोर्मरण स्थात् । च-दण्ण=विषुना युक्ते दृष्टे वा तृतीये, यक्षमण =क्षयरोगान्मरणम् । युजेन=महालेन युक्ते दृष्टे वा तृतीये, व्रगशङ्खाभिदाहार्थैः=पृणरोगशङ्खप्रहाराभिदाहार्थैः कारणीर्मरणम् । शनिना मन्देन युक्ते दृष्टे वा तृतीये, वातरोगात्=वातव्याधेर्मरणम् । मन्दमान्दिभ्यां=शनिगुलिकाभ्यां युक्ते दृष्टे वा तृतीये, विषसर्पेजलोद्बन्धनादिभिः=विषोविषभक्षणं सर्पो भुजन्नदंशन जलं जलरोगः उद्बन्धनं राजदण्ड इत्यादिभिः कारणीर्मरणम् । केतुना=शिरिना (केतुः शिरीत्यमरः) युतदृष्टे, विषूचीजलरोगार्थैः=विषूची विषूचिकारोगः जलरोगो जलोदर इत्यादिभिः कारणीर्मरणम् । चन्द्रमा-स्त्रिभ्यां=चन्द्रगुलिकाभ्यां युतदृष्टे, पूरगमदाक्षकवलादिभिः=पूरगमदः पूरगफलमदः अक्षकवलोडककवलनिरोध इत्यादिभिः कारणैः क्षणिकं शीघ्रमरणम् । गुरुणा=वृद्धस्पतिना युतदृष्टे तृतीये, शोफाहचिवमनार्थैः=शोफरोगेण अहस्तिरोगेण वमनार्थैर्चार्या मरणम् । शुक्रेण=सितेन युतदृष्टे, मेहात्=प्रमेहरोगान्मरणम् । मिथ्रे=प्रदृष्टयोगे विमिथिते (बहूना देटाना तृतीये योगे दर्शने वैत्यर्थ्यः, मिथ्रात्=तत्तद्वप्त्रहोक्तमिथ्र-निभित्तात् (नानारोगादित्यर्थः), मरणम् ।

चन्द्रदृग्योगात्=चन्द्रयुतदृष्टिस्त्वात् (तृतीये तत्तद्वप्त्रयोगदर्शनसर्वे तत्रैव चन्द्र-दृष्टियोगस्त्वैत्यर्थः), निथयेन=नियमेन, तत्तद्वप्त्रोक्तमरणनिमित्तीभूतरोगान्मरणम् । एतेन चन्द्रदृग्योगामावे तृतीयस्थाने तत्तद्वप्त्रेण युतदृष्टेऽपि तत्तद्रोगान्मरणे सन्देह द्विति प्रकटोमवति ॥ १५-२५ ॥

मापा—कारक प्रह वा लग्न से तृतीय स्थान रवि से युत दृष्ट हो तो राजा के कारण मरण होता है । चन्द्रमा से युत दृष्ट हो तो क्षयरोग से, महूल से युत दृष्ट द्वा तो घण शष्ठ, अमिदाह आदि कारण से मरण होता है । शनेश्वर और गुलिक से युत दृष्ट हा तो सर्प, जलरोग, वन्धन आदि के कारण से मरण होता है । केतु से युत दृष्ट हो तो विषूचिकारोग, जलरोग आदि से मरण होता है । चन्द्रमा और

गुलिक से युत हृष्ट हो तो सुपारी के नद और आच्छासादि से शीघ्र मरण होता है। वृहस्पति से युत हृष्ट हो तो शोक (सृजन), अहंचिरोग, वसन इत्यादि से मरण होता है। शुक से युत हृष्ट हो तो प्रमेहरोग से मृत्यु होती है।

अगर तृतीय स्थान में अनेक ग्रहों का योग वा दृष्टि हो तो अनेक रोगों से मरण होता है।

यदि लग्न वा कारक प्रह से तृतीय स्थान में चन्द्रमा का योग वा दृष्टि हो तो निश्चय कर के उसी प्रह के रोग से मरण होता है। इस से यह ध्वनित होता है कि तृतीय स्थान में चन्द्रमा का योग वा दृष्टि न हो तो जिस प्रह से तृतीय स्थान पुनः हृष्ट है उस प्रह के रोग से मरण में सन्देह रहता है ॥ १६-३७ ॥

अथ मरणदेशमाह—

~~कीटक~~
शुभैः शुभदेशो ॥ २६ ॥ पापैः कीटक ॥ २७ ॥

विं०—शुभेरिति । शुभैः=शुभप्रदैर्यस्योगे तृतीयस्थाने, शुभदेशो=पुण्यभूमौ (वाराणस्यादितीर्थस्थान इत्यर्थः), मरणं स्थात् । पापैः=पापप्रदैर्युतदृष्टे तृतीयस्थाने, कीटके=निन्दितदेशो (मगधादिगहितस्थान इत्यर्थः) मरणं स्थात् ॥ २६-२७ ॥

भाषा—तृतीय स्थान शुभ प्रह से युत हृष्ट हो तो शुभदेश (काशी आदि तीर्थ स्थान) में मरण होता है। अगर पाप प्रह से युत हृष्ट हो तो कीटक (मगध आदि निन्दित स्थान) में मरण होता है। इस से यह भी सिद्ध होता है कि तृतीय स्थान शुभप्रह और पापप्रह इन दोनों से युत हृष्ट हो तो मध्यम स्थान (न पुण्य स्थान और न अपुण्य स्थान) में मृत्यु होती है ॥ २६-२७ ॥

अथ शानाशानपूर्वकमरणयोगमाह—

गुरुशुकाभ्यां शानपूर्वकम् ॥ २८ ॥ अःतौरन्यथा ॥ २९ ॥

विं०—गुरुशुकाभ्यामिति । लग्नात्कारकप्रहाद्वातृतीये, शुकाभ्योः=वृहस्पति-मार्गवान्मां युद्धेण सति, शानपूर्वकं=शानपूर्वकमरणं स्थात् । अन्यैः=गुरुशुकाति-रिकप्रदैर्युतदृष्टे, अन्यथा=शानपूर्वकं मरणम् ॥ २८-२९ ॥

भाषा—लग्न वा कारक प्रह से तृतीय स्थान शुकाभ्यति, शुक इन दोनों से युत वा हृष्ट हो तो शान पूर्वक मरण होता है। अगर शुकाभ्यों और शुक को ठोड़ कर अथ किसी प्रह से युत वा हृष्ट हो तो शान पूर्वक मरण होता है ॥ २८-२९ ॥

अथ पित्रोः धंस्करस्याऽर्तुव्ययोगम् ह—

लेयज्ञनकयोर्मध्ये शनिराहुकेतुभिः पित्रोर्न संस्कर्ता ॥ ३० ॥

विं०—लेयज्ञनकयोरिति । लेयज्ञनकयोः=लग्नादशयोः, मध्ये=बन्तरे,

२ पादः] सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाद्यसहितम्। १४

चनिराहुकेनुभिः=शनिराहोः शनिकेतोर्वा योगस्थित्या, पित्रोः=मातापित्रोः, संस्कृता-
संस्कार्ता न स्यात् ॥ ३० ॥

भाषा—लग्र के या द्वादश स्थान के मध्य में शनैश्चर, राहु का, या शनि, केतु
का योग पड़े तो माता, पिता का संस्कृता (दाहादिरूप संस्कार करना) नहीं होता है॥

अथाग्रपित्रीविमागमाद्—

लेयादिपूर्वार्थं ॥ ३१ ॥ जनकाद्यपरार्थं ॥ ३२ ॥

विद्—लेमादीति । लेयादिपूर्वार्थं=लग्रादिप्रथमपट्टके लग्रादिपुभावं यावदि-
र्यर्थः लग्रस्य मध्यम् । जनकाद्यपरार्थं=द्वादशादिव्युत्कमेणोत्तरपट्टके सप्तममा-
बादद्वादशभावं यावदित्यर्थः, द्वादशस्य मध्यम् ॥ ३१-३२ ॥

भाषा—लग्र से लेकर है राशि पञ्चम लग्र का मध्य और द्वादश से लेकर
व्युत्कम से है राशि (सप्तम से लेकर द्वादश) पञ्चम द्वादश का मध्य है ।

इस से कलितार्थं यह निरुला कि लग्र से पष्ठ भाथ पञ्चम तक किसी भी स्थान
में शनैश्चर, राहु या शनैश्चर, केतु का योग हो तो माता का संस्कार करने वाला
नहीं होता है । तथा सप्तम से लेकर द्वादश पञ्चम तक किसी भी स्थान में शनैश्चर,
राहु या शनैश्चर, केतु का योग हो तो पिता का संस्कार करने वाला नहीं होता है ॥

विशेष विचार—किसी का मत है कि लग्रादि कम से है राशि पूर्वार्थं और
द्वादशादि उत्क्रम से छ राशि उत्तरार्थं कल्पना करने से पृष्ठ पट्टक में राहु या केतु
और दूसरे पट्टक में शनि, राहु या शनि, केतु सब की कुण्डली में रहती है । अतः
प्रत्येक कुण्डली में माता, पिता इन दोनों में किसी पृष्ठ का असंस्कार करन्तव योग
प्राप्त हो जायगा । अतः ऐसा अर्थ करना सर्वथा असङ्गत है ।

इस लिये उन्होंने दूसरी तरह से पूर्वार्थं और उत्तरार्थं कल्पना कर के अर्थ
किया है । जौसे लेय (लग्र) और जनक (मातृ कारक, पितृ कारक) मान कर
लग्र और कारक पट्ट के मध्य में शनि, राहु, केतु ये तीनों पड़े तो वह माता, पिता
का संस्कार करने वाला नहीं होता है । अर्थात् लग्र से मातृ कारक पट्ट पञ्चम तक
पूर्वार्थं और पितृ कारक पट्ट से लग्र पञ्चम तक उत्तरार्थं मान कर पूर्वार्थं में शनि,
राहु, केतु ये तीनों पट्ट हों तो माता का संस्कार करने वाला नहीं होता है । और
उत्तरार्थं में शनि, राहु, केतु ये तीनों पट्टे तो पिता का संस्कार करने वाला नहीं
होता है । परज्ञ इस तरह अर्थ करना पिछलुल असङ्गत है । क्योंकि इस तरह के
अर्थ करने वालों ने मुनि के सूत्र का तथा दूसरे दीकाकारों का अर्थ बिछुल नहीं
समझा । क्योंकि इस तरह का अर्थ किसी ने नहीं लिखा है । सब का अभिप्राय
यह नहीं है कि शनि, राहु, केतु अलग २ स्थान में रहे । किन्तु पूर्वार्थं (लग्र से

पष्ट राशि पर्व्यन्त) में किसी भी स्थान में शनि, राहु या शनि, केतु का योग हो तो माता का संस्कार करने वाला नहीं होता है । और उत्तरार्ध (सप्तम से लेकर द्वादश पर्व्यन्त) में शनि, राहु या शनि, केतु का योग पड़े तो पिता का संस्कार करने वाला नहीं होता है, इस तरह का योग हजार में विश्वलकुण्डली में रहता है । न कि सब कुण्डली में ।

अतः इस तरह का अर्थ करना सच्चिदा सझूत है । दूसरी बात यह कि (लेय = १३ हुआ, इस में वारह का भाग देने से शेष पृष्ठ बचा अतः लेय से लग्न का प्रहण करना उचित ही है । इसी तरह जनक = १०८ हुआ, इस में वारह का भाग देने से शेष शून्य अर्थात् वारह बचे । अतः जनक से द्वादश भाव का प्रहण करना भी सच्चिदा सझूत है ।

इस के विपर्य स्वर्ण के शब्द को सुलाना थीक नहीं है ।

अथान्येऽपि योगा प्रन्थान्तरादाकृष्यलिङ्गयन्ते—

अकों राहुः कुजः सौरिल्मनात्तिष्ठति पञ्चमे । पितरं मातरं हन्ति आतरं स्वमनुकमात् ॥

भाषा—अगर लग्न से पञ्चम भाव में रवि, राहु, मङ्गल और शनैश्चर पड़े तो क्रम से पिता, माता, आता और जातक को नाश करता है । अर्थात् जन्म लग्न से पञ्चम भाव में रवि पड़े तो पिता का, राहु पड़े तो माता का, मङ्गल पड़े तो भाई का और शनैश्चर पड़े तो जातक का विनाश होता है ।

चन्द्रे वलिष्ठे यदि वा शूर्ये क्षिते शोभनभागयुक्ते ।

चतुष्टये मातृगृहाच्छुभाव्ये मातुश्च दीर्घ्युरुदाहरन्ति ॥

भाषा—अगर चन्द्रमा घलवान् हो, या शुभ पह से दृष्ट युत हो, और माता के स्थान से केन्द्र में शुभ पह हों तो माता की आयु बढ़ती है ॥

अन्यदप्याह—

यदा त्रुयेभावे भवेत्पापस्तेतो यलेनाधिक्षेतदा मातृनाशः ।

तथा मन्दमादेययोर्मध्यग्रन्तेद्वैचन्द्रमाः सर्व्युक्तेक्षितो या ॥

भाषा—अगर घलवान् पाप पह चतुर्थ भाव में हो तो माता का नाश कहना चाहिए । अगर चन्द्रमा, शनि और मङ्गल के मध्य में गत हो या शूर्य से युत दृष्ट हो तो माता का नाश कहना चाहिए ।

अन्यदप्याह—

रिपुस्थाने यदा पापाद्यवस्थाने च चन्द्रमाः । चतुर्थे महालो यस्य मातातस्य न जीवतिः ।

भाषा—जिस के छठे स्थान में पाप पह हों, पारहणे स्थान में चन्द्रमा हो और चतुर्थ स्थान में मङ्गल हो उस की माता मर्ही जीती है ।

अन्यदप्याह—

अर्कोतु लुर्ये राही मन्दे वा भुमिनन्दने । गुहशुकेश्णममृते पितृहा जायते नरः ॥

भाषा—जिस के जन्म पत्री में इवि से चतुर्थं स्थान में राहु या शनि या मङ्गल पड़े, वह गुण कौर शुक्र से युत दृष्टन हो तो वह जातक पिता को नाश करने वाला होता है।
अन्यदप्याह—

अष्टमस्थो यदा जीवः कर्त्तव्याने महीसुतः । सिद्धे सौरिर्भवेयस्य भाता दत्त्य न जीवति

भाषा—जिस के जन्मपत्री में शूद्रस्पति अष्टम स्थान में हो, दशम स्थान में मङ्गल हो, शनीश्वर सिद्ध में हो तो उस को माता नहीं जीती है।

अन्यदप्याह—

द्वादशे रिपुगाने वा यदा बूरो न्यवस्थितः । तदा मातुर्भवं विद्याचतुर्थं दशमे पितृः॥

भाषा—जिस के जन्मपत्री में वारहने या छठं भाव में पापग्रह हों वो माता को अरिष्ट कहना चाहिए। अगर चतुर्थं और दशम भाव में पाप ग्रह हों तो पिता को अरिष्ट कहना चाहिए।

अथान्यदप्याह—

लक्ष्मनस्थितो यदा जीवो धने सौरिर्यदा भवेत् । यहजे च यदा राहुर्नारा तत्त्व न जीवति

भाषा—जिस के जन्म पत्री में वृहस्पति लक्ष्म में हो शनीश्वर धन भाव में हो, दक्षीय भाव में राहु दो तो उस की माता नहीं जीती है।

अन्यदप्याह—

लग्नाचन्द्राहुस्थाने याते सूर्यसुते यदि । पित्रोनाशस्तदाऽङ्गाले वीक्षिते पापसंयुते ॥

भाषा—जिस के जन्म समय में लग्न या चन्द्रमा से नवम स्थान में शनीश्वर और हो पाप ग्रह से दृष्ट युत हो तो अकाल में माता और पिता का नाश कहना चाहिए।

अन्यदप्याह—

पापान्तरे पापयुते शशकि पापेशिते मातुर्गहे विनाशः ।

शुक्रास्तथैवं प्रबद्धनित शनतस्तत्त्वानपाद्मा कचयन्ति शेषम् ॥

निशाकरात्यापयुते स्मरे वा सूर्योहत्थैर्यं जननीविनाशम् ।

सुखे शनी मातुविनाशमेति पापेशिते चेदचिरेण नाशः ॥

भाषा—चन्द्रमा दो पादों के मध्य में हो, पाप ग्रह से युत दृष्ट हो, चतुर्थ भाव में हो तो माता का विनाश होता है। शुक्र और चतुर्थं स्थान के पति से भी हसी तरह सज्जनों ने कल बढ़ा है। अर्थात् शुक्र या चतुर्थं स्थान में हो पाप पर्याप्त हो से युत दृष्ट हो चतुर्थं स्थान में हो तो माता का विनाश होता है। अगर शुक्र

चन्द्रमा से सप्तम स्थान में स्थित हो, पाप प्रह से युत हो तो माता का विनाश होता है । अगर शनि सुख स्थान में हो तो माता का नाश करता है । अगर चतुर्थ स्थान स्थित शनि पाप प्रह से देखा जाता हो तो बहुत जलदी माता

अन्यदप्याह—

लग्ने वैकादशे सौरी रिपुस्थाने निशापतिः॥भूमिपुत्रः सप्तमस्यो मातृविनाशकः॥

भाषा—जिसके जन्म कालमें लग्न या एकादश स्थान में शनैश्चर हो, उसे स्थान में चन्द्रमा हो, भूल सप्तम स्थान में हो उस की माता और पिता का नाश होता है ।

अथ सर्वार्थचिन्तामणी—

चन्द्रे बलिष्ठे यदि वा भूर्गौ वा सौम्येक्षिते शोभनभागयुक्ते ।

चतुर्थे मातृण्हाच्छुभाव्ये मातुष्ठ दीर्घायुदाहरन्ति ॥

भवेशसंयुक्तनवीशनाययुक्ताशये केन्द्रयुते वलाद्ये ।

तस्मिन्दद्युशाद्यायदि केन्द्रयाते मातुष्ठ दीर्घायुदाहरन्ति ॥

भाषा—जिस के जन्म काल में चन्द्रमा या शुक्र वल युत हो, शुभ प्रह से दृष्ट हो, शुभ प्रह के अंश में हो तो चतुर्थ स्थान से केन्द्र में हो शुभ प्रह से युत हो तो उस की माता को दीर्घायु कहना चाहिए । नवीश पति चतुर्थश से युत नवीश पति से युत हो, केन्द्र में हो, यल युत हो या चन्द्रमा से केन्द्र स्थान में हो तो उस की माता को दीर्घायु कहना चाहिए ।

तत्र मातृविनाशगोपमाह—

शुभेशितदेविरक्षलमृत्युमुदाहरन्त्यम् महातुभावाः ।

पापग्रहाणां अवने शनौ तु पापन्विते मातृविनाशमेति ॥

भाषा—पूर्वांक योग कारक प्रह अगर शुभ प्रह से दृष्ट हो तो अधिक काल के साथ मातृदा पितृदा योग प्राप्त होता है । अगर शनि पापप्रहों के स्थान में हो पाप प्रह से युत हो सो शीघ्र मातृ विनाश होता है । ऐसा परिणिक्षण ने कहा है ।

अथान्यदप्याह—

निशाकरात्पापयुते स्मरे या भूमोत्तरैवं जननीविनाशः ।

शुक्रे शनौ मातृविनाशमेति पापेशिते देवचिरेण नाशः ॥

भाषा—चन्द्रमा से या शुक्र से सप्तम स्थान पाप युत हो तो माता की मृत्यु होती है । उथा चतुर्थ स्थान में शनि हो तो पिण्डमय से माता की मृत्यु होती है । अगर उस पर पाप प्रह की दृष्टि होती शीघ्र माता की मृत्यु होती है ।

अन्यदप्याह—

सप्तमस्थाने यदा चौरि शशुद्धस्थाने च चन्द्रमाः । कुप्रथ सप्तमस्थाने पिण्डस्थाने न रंदयः ॥

२ पादः) सोदाहूरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाद्यसहितम् । १४३

भाषा—जिस के लग में शनि हो, शनु स्थान में शनदमा हो और सप्तम स्थान में मङ्गल हो उस का विचार नहीं जीता है ।

अन्यदध्याह—

उच्चस्थो वापि नीचस्थः सप्तमस्थो यदा रविः ।

सदा जातो निहन्याशु मातरं नाम संशयः ॥

भाषा—अगर उच्च या नीच में रवि होकर एग से सप्तम में पड़े तो ऐसे योग में उत्पन्न छाइका बहुत जल्द मात्रा का नाश करता है ।

अन्यदध्याह—

इन्दुतो नवमे द्यूने वैष्णवे पापखेवराः । अखिलाः पितरं हन्तुर्वालं जातं समातृकम् ॥

भाषा—चन्द्रमा से नवम, सलेम और अष्टम में संशपाप पढ़ हों तो वे सरपिता जी। मात्रा के साथ यालक को नाश करते हैं ।

अन्यदध्याह—

द्वादशाष्टमे पापे लगेशी वलवर्जिते । जन्मकाले शिशुर्दुःखो स याले मातृनाशकः ॥

भाषा—हमसे द्वादश या लष्टम में पापमाह हो, लगेश वलहोन हो तो वह यालक जन्म समय में बहुत दुखी होता है । और मात्रा को नाश करने वाला होता है ।

अथ मातृकष्ठमाह चृदः—

चन्द्रमा यदि पापाना त्रितयेन प्रदर्शयते । मातृनाशो सवैतत्त्वं शुभमद्यै शुर्वं वदेत् ॥

घनेराहुर्दुःखः शुक्रः सौरिः सूर्यो यदा रिथतः । तस्य मातृभवेन्मृत्युर्मृते पितरि जायते ॥

पापात्सामरन्द्रस्थे चन्द्रे पापसमन्विते । बलिभिः पापकैर्द्धे जातो मवति मातृद्या ॥

उच्चरथो वाऽथ नीचस्थः सप्तमस्थो यदा रविः ।

पानदीनो भवेद्वालः—अजाईरेण जीवति ॥

चन्द्राच्चतुर्थयः पापो रिपुक्षेत्रे यदा भवेत् ।

तदा मातृबधं कुर्यात्केन्द्रे यदि शुमो न नेत् ॥

लगे बूरो च्यये श्रूरो घने सौम्यस्तथैव च । सप्तमे गवने शूरः परिवारक्षयं करः ॥

लगनस्ये च शुरी सौरी घने राहो तृतीये ।

इति नेजन्मकाले इयान्माता तस्य न जीवति ॥

श्रीणचन्द्रानिश्चोणहये: पापैः सौम्यविर्जितैः ।

माता परित्यजेद्वालं पण्मासाच्च न संशयः ॥

एकोशकस्यौ मन्दारौ यत्र कुव्र स्थितौ यदि ।

शशिकेन्द्रगतौ तौ वा द्विमातृभ्यां न जीवति ॥

मापा—जिस के जन्म समय में तीन पाप प्रहों से चन्द्रमा देखा जाता हो तो उस की माता की मृत्यु होती है । अगर चन्द्रमा शुभ प्रह से देखा जाता हो तो शुभ कहना चाहिए, अर्थात् मातृनाश नहीं होता है ।

जिस के जन्म समय में धन स्थान में राहु, शुभ, शुक्र, शनैश्चर और रवि स्थित हो उसके पिता के मरण के बाद माता का मरण होता है ।

जिस के जन्म समय में पांच सहित चन्द्रमा पाप प्रह से सहम या अष्टम में स्थित हो और बली पाप प्रहों से देखा जाता हो तो वह माता को नाश करने वाला होता है ।

जिस के जन्म समय में उच्चस्थ या नीचस्थ रवि स्थग्न से सहम में स्थित हो तो माता के दूध नहीं पीकर अजा के क्षीर से जीता है ।

जिस के जन्म समय में पाप प्रह चन्द्रमा से चतुर्थ स्थान में होकर इग्न से छठे स्थान में पड़े अगर केन्द्र में शुभ प्रह नहीं होतो यह माता का नाश करता है । केन्द्र में शुभ प्रह को होने पर मातृद्वा योग नहीं लाता ।

जिस के जन्म काल में इग्न और द्वादश में पाप प्रह हो तथा धन स्थान में शुभ प्रह हो और सहम स्थान में भी अगर पाप प्रह हो तो यह जातक परिवार को नाश करने वाला होता है ।

जिस के जन्म समय में, शूहस्पति इग्न में, शनि धन स्थान में और राहु चतुर्थ स्थान में हो तो उस की माता नहीं जीती है ।

जिस के जन्म समय में द्वादश से शुभ प्रह रहिव हो पर पाप प्रह ग्रिकोण (११) में स्थित हो तो यह मास के भीवर माता बालक को कारण वश परित्याग करती है ।

जिस के जन्म समय में एकांश में स्थित होकर शनि और मङ्गल वही भी स्थित हो तो यह एकांश दो मातायें से पालन किया जाता है । या वे होनो चन्द्रमा से केन्द्र में स्थित हों तो दो मातायें से बालक जीता है ।

अथ पितृकृष्णाद् तत्रैव

लग्ने सौरिर्मदे भीमः पष्ठस्पने च चन्द्रमाः ।

इति गेभ्यमाले स्मात् पिता तस्य न जीवति ॥

लग्ने जीवो धने मन्दरविभीमपुष्पात्तमा । विवादेषमपे तस्य बालस्य भिदते पिता ॥
र्ग्यः पातेन र्घुञ्जः र्घ्यो वा पापमध्यगः । एकांश्यामयः पापसदावितृपातो भवेत् ॥
सप्तमे लग्ने र्ग्यः कर्मस्यो भूमिनन्दनः । राहुर्ग्येष च वस्त्रेष पिता कर्तेन जीवति ॥

२ पादः] सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाद्यसहितम् । १४५

दशमस्थो यदा मौम् शशुक्षेपसमाधितः । विषयते तस्य जातस्य पिता शीघ्रं न संशयः ॥
रिपुस्थाने यदा चन्द्रो लग्नस्थाने शनैश्चरः । कुञ्जध्वनासे स्थाने गिता तस्य न जीवति ॥
पाताले चाम्बरे पापी द्वादशो च यदा स्थितीः । पितरं मातरं हत्या देशादेशान्तरं ब्रजेत् ॥
एहुचीवौ रिपुक्षेत्रे लग्ने वाय चतुर्थके । व्रजेविवाहिते वर्ये सुश्रस्तातं न पश्यति ॥
मातुः पिता च अन्तूना चन्द्रो माता तथैव च । पापदृष्टियुतो भातुः पापमध्यगतोऽपि दा ॥

“पित्रारिष्टं विजाभीमाच्छुद्धोर्जातस्य निश्चितम् ।

मानोः पष्ठाटमर्कस्थैः पापैः सौन्दर्यविवर्दितैः ॥

चतुरस्तागतैर्वापि पित्रारिष्टं विनिर्दियोत् ।”

भाषा—जिस के जन्म काल में शनैश्चर एवं मैं, मङ्गल सप्तम स्थान में, और पष्ठ स्थान में चन्द्रमा हो तो उस का पिता नहीं जीता है ।

जिस के जन्म समय में वरन में चृहस्तरि, धन, स्थान में, शनि, रघि, मङ्गल और चुध हो तो उस के विवाह काल में पिता की मृत्यु होती है ।

जिस के जन्म काल में सूर्य पाप ग्रह से युत हो या सूर्य पापों के मध्य में हो और सूर्य से सप्तम में पाप ग्रह हो तो उस के पिता की मृत्यु होती है ।

जिस के जन्म काल में सप्तम में सूर्य हो, मङ्गल दशम में हो और राहु चतुर्थ स्थान में हो उस का पिता कट से जीता है ।

जिस के जन्म काल में लग्न से दशम में मङ्गल हो ऐकिन् वह दशम स्थान मङ्गल के शत्रु का घर हो तो उस के पिता बहुत शीघ्र मरण को प्राप्त करता है ।

जिस के जन्म समय में चन्द्रमा रिपुस्थान में हो वरन में शनैश्चर हो मङ्गल सप्तम में हो तो उस का पिता मर्ही जीता है ।

जिस के जन्म काल में दो पाप ग्रह चतुर्थ, दशम या चाहये में स्थित हो यो वह लड़का माता पिता को नाश करके देश २ शूमता है ।

जिस के जन्म काल में राहु और चृहस्तरि रिपुक्षेत्र में या वरन में, या चतुर्थ में हो सो बालक २३ वर्ष में अपने पिता को नहीं देखता, लयोत् उस के पिता मरण को प्राप्त करता है ।

प्राणियों के पिता सूर्य और माता चन्द्रमा हैं । जिस के जन्मकाल में सूर्य पाप युत हो या पापों के मध्य में हो तो उस जातक के पिता को अरिष्ट कहना चाहिए । हस्त से सिद्ध होता है कि चन्द्रमा पाप युत हो या पाप मध्य में हो तो माता को अरिष्ट कहना चाहिए ।

आगे सूर्य पष्ठ, अष्टम स्थान में स्थित हो, शुभ ग्रह से वर्जित पापग्रह चतुर्थ या कष्टम में स्थित हो तो पिता को अरिष्ट कहना चाहिए ।

अथरिष्टभास्त्रमाह—

एकोऽपि ज्ञार्थशुक्राणां लमारकेन्द्रगतोऽयदि । अरिष्टं निखिलं हन्ति तिभिर भास्करो यथा ॥
 एक एव वली जीवो लग्नस्थोरिष्टसञ्चयम् । हन्ति पापक्षयं भच्या प्रणाम इव शूलिनः ॥
 एक एव विलग्नेशाः केन्द्रसंस्थो वलान्वितः । अरिष्टं निखिलं हन्ति पिताकी त्रिपुरुं यथा ॥
 शुक्रपक्षे क्षपा जग्न लग्ने सौम्यनिरीक्षिते । विपरीतं कृष्णपक्षे तथारिष्टविनाशनम् ॥
 व्ययस्थाने यदा सूर्यस्तुलालम्भे तु जायते । जीवेत्त शतवर्षाणि दीर्घायुर्वालको भवेत् ॥
 गुरुभैर्मै यदा युक्ती गुरुहषेऽयवा कुजः । हरत्रारिष्टभौषं च जनन्याः शुभमूळवेद् ॥
 चतुर्थदशामे पापः सौम्यम् ये यदा भवेत् । पितु दौख्यकरो योगः शुभैः केन्द्रत्रिकोणगैः ॥

लग्नाशतुर्थं यदि पापखेटः केन्द्रत्रिकोणे शुरराजमन्त्री ।

कुलद्रव्यानन्दकरः प्रसूतौ दीर्घायुरारोग्यसमन्वितव्य ॥

सौम्यान्तरगतैः पापैः शुभैः केन्द्रत्रिकोणगैः । सशो नाशयतेऽरिष्टं तद्वावोत्थफलं न सद् ॥
 भापा—स्पष्टार्थं है ।

अथ पूर्वोक्तयोगापवादमाह—

शुभदृश्योगान्तः ॥३३॥

धि०—शुभदृश्योगादिति । शुभदृश्योगात्=लग्नादिकमेण पद्माशिमध्ये द्वादशा-
 युत्कमेण पद्माशिमध्ये च शुभदृश्योगसञ्चात्, न=पूर्वोक्तयोगो न स्पाद्, माता-
 पिश्रोः संस्कर्ता स्यादित्यर्थः ॥ ३३ ॥

भापा—छरन से लेकर कमते छ राशि पर्यन्त और द्वादश से लेकर उत्कम से
 छ राशि पर्यन्त (७-१२) स्थान शुभ पह से युत या इष्ट हो तो पूर्वोक्त योग नहीं
 होता है, किन्तु माता और पिता का संस्कार करने वाला होता है ॥ ३३ ॥

इति महर्षिजैमिनिष्ठणीतजैमिनिसूत्रटीकायाः

द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः ।

अथ द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः ।

अथ दशभेदवलभेदादीन् वक्ष्यति, तत्रादौ नवोदयदशामाह—

यिष्मे तदादिनर्धांशः ॥ १ ॥ अन्यथाऽऽदर्शादिः ॥ २ ॥

धि०—यिष्मे इति । यिष्मे=यिष्मराशौ जन्मदृश्ने थाति, तदादिः=लग्नादिः
 (लग्नादिकमेगेत्यर्थः), नवोदयः=नवोदयाकः (नवादशेत्यर्थः), भवतीति दोषः ।

अन्यथा=समराशी जन्मसग्ने सति, आदर्शादि = सम्मुखराश्यादि (सम्मुखराश्यादि चरणद्वयस्तुक्षेपेत्यर्थ), नवांशदशा भवति । अत्रायमाशय -विषमराशी लग्ने समनादाभ्य प्रथमद्वितीयभावक्षेप, समराशिलग्ने लग्नादारभ्य प्रथमद्वादशे क्षादरोति वैपरीत्यक्षेप नवांशदशा भवति । समराशिलग्ने समादर्शभूतराशि-स्तद्वादशस्थग्निरिति विजैर्विजेयम् ।

लग्न बुरम चदा तर्हि सम्मुख स्त्व चादिभम् ।

अस्यां दशायो ग्रव्येकस्मिन् राशी नव नव समा दशाद्वा भवन्त्यतोऽस्या चर्योशदरोति नाम जातम् ।

अत्र नीलकण्ठेन—

“विषमे लग्ने सति तदादिर्लग्नादिर्नवांशदशा स्यात् । अन्यथा समराशी लग्ने सत्त्वादर्शादि सुप्रस्तराश्यादिर्नवांशदशा स्यात् । आदर्शे सम्मुखी भवति । समुखराशि सप्तम एव भवति । एतद्वयाया प्रतिरूपिनवनवाद्वा भवन्तीति नवांशदरोति नामधेयवेयम् । यतु

“स्त्रिराशे पष्ट राशिरचरस्याश्यम एव स ।

दिस्वभावस्य राशिस्तु सप्तम सम्मुखी मत ”

इति श्लोक इत्या सम्मुखत्व पर्यैकल तग्न तदृष्टिपरमेव न तत्त्वपरमिति”
ब्याख्यातम् ।

इति नीलकण्ठव्याख्यानेऽन्यत्रापि वहुन् तुस्तके “आदर्शे” इति पदेन सप्तम-राशि शूदीत्वा ब्याख्यातमस्ति । परव्य तदस्त्रीचीनमिव प्रतिभातीत्यत्र विवृणै
निषुणं विचारणीयम् ॥ १-२ ॥

भाषा—हस पाद में दशा भेद ब्लड भेद को कहते हैं । उन भेद प्रथम नवांश दशा
में गणना क्रम बतलाते हैं।

जैसे—अगर जन्म छठन विषम राशि में पड़े तो लग्नादि क्रम गणना से बाह
राशियों की नवांश दशा होती है । अगर जन्म लग्न सम राशि में पड़े तो लग्न
द्वादशा आदि वैपरीत्य क्रमसे बाहर राशियों की नवांश दशा होती है । इस दशा में
प्रत्येक राशि के दशा मान नव नव वर्ष होते हैं । उपर इस का नवांश दशा नाम है ।

यही पर नीलकण्ठ ने ‘जन्मलग्न विषमराशि में पड़े तो लग्नादि क्रमसे यारू
राशियों की नवांश दशा होती है । जैसे लग्न सम राशि में पड़े तो समादि क्रमसे

वारह राशियों की नवांश दशा होती है। इस नवांश दशा में प्रत्येक राशि के दशा मान नव नव धर्ष के होते हैं। इस लिये इस का त्वांश दशा संज्ञा है। यदां आदर्श शब्दका अर्थ सप्तम राशि है। “हिंसर राशि का चर, चर राशि का अष्टम राशि, और द्विस्त्रभाव राशि का सप्तम राशि सम्मुख होता है। ऐसा पंथोने कहा है यो हाथि विचार के लिये है। यदां के लिये संस्कृत नहीं है। ऐसा (नीलकण्ठ ने) कहा है। इस तरह नीलकण्ठ के अर्थ में सथा अन्य पुस्तक में भी आदर्श पद से सप्तम राशि को प्रहण करके व्याख्यान किया हैं सो समीचीन नहीं है। इस पर विविध लोग विचार करें ॥ १-२ ॥

उदाहरण— यहाँ पर जन्म लग्न=११ दश २३' को विष्णु राशि में होने के कारण उपर्युक्त ग्रहसे बारह राशियों की नवांश दशा हुई।

अत्र सुटार्थं नवांशदशाचक्रम् ।

अथ स्थिरदशानयनमाद—

रशिनन्दूपावकाः कमाद्वाः स्थिरदशायाम् ॥३॥ ग्रहादिरेपा ॥४॥


चिऽ—शशिनन्देति । स्थिरदशायां = स्थिरसंज्ञकदशायां, व्रमात्, चर
स्थिरदिस्वभावरातीनामिति शेषः, शशिनन्दप्रावक्षः = सप्ताष्टनवमितानि, अद्वा=
षर्पोणि भवन्ति, तदया मेषे सप्त, वृद्धेऽष्टी, मिथुने नव, पुनः कल्के सप्त, सिंहेऽष्टी,
कन्यायां नव, पुनः तुले सप्त, वृद्धिकेऽष्टी, धनुषि नव, पुनः मकरे सप्त, उम्मेऽष्टी,
भौने नव इति ।

एषा = स्थिरदशा, वसादि = व्रद्धा-हाश्चितराशितः प्रवृत्ता भवति ॥ ३-४ ॥

भावा—हिथर संशक दशो में घर आदि क्षमते सात आठ और नव वर्षे दशा होती है, जौसे घर में सात, चिया में आठ और द्वित्त्वभाव में नव वर्षे दशा होती है, अर्थात् रेप में सात, रूप में आठ मिथुन में नव वर्षे, पिर कक्ष में सात, सिंह आठ कन्या में नव वर्षे, एवं तुला में सात, वृश्चिक में आठ, धनु में नव वर्षे, पिर मकर में सात, कुम्भ में आठ, मीन में नव वर्षे दशा होती है। इस दशा की प्रवृत्ति प्रब्रह्मदा-धित राशि से होती है ॥

उदाहरण—पूर्वोक्त उदाहरण में आरम्भकारक रवि कन्या में है, उस से अष्टम स्थान मेप का स्वामी महल है, अष्टम स्थान में कोई प्रह नहीं है। अतः “स्व-भाववेशो भावस्यो प्रद्या” इस सूच में उक्त लियम के अनुशार महल पद्ध प्रह सिद्ध हुआ। वह कान्या में है, अतः प्रद्यप्रहार्थित राशि कन्या से रिपर दशा की प्रवृत्ति सिद्ध हुई। तथा कन्या की सम राशि में होने के फारण उत्कम खेराशियों की दशा लियनी चाहिए।

ग्रहमप्रह शुण्डली—



अथ कन्याशुत्रमेण स्थिरदशाचक्रम्—

राशयः	कन्या	सिंहः	कक्षः	मिथुनः	वृषः	मेषः
प्रह्लः	रविः, कुजः	वृहस्पतिः	शुक्रः	राहुः	००	००
दशावर्ष-	१	८	५	९	८	७
मातानि	०	०	०	०	०	०
सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्
१९६५	१९७४	१९८३	१९९१	१९९८	२००६	२०१३
सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः
५	५	५	५	५	५	५
१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५
४६	४६	४६	४६	४६	४६	४६
३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१

अथ मीनाशुत्रमेण स्थिरदशाचक्रम्—

राशयः	मीनः	कुम्भः	मकरः	घनुः	वृद्धिकः	तुला
प्रह्लः	शतिः	००	००	चन्द्रः केतुः	००	बुधः
दशावर्ष-	१	८	५	९	८	७
मातानि	०	०	०	०	०	०
सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्
२०१३	२०२३	२०३०	२०३७	२०४६	२०५४	२०६१
सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः
५	५	५	५	५	५	५
१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५
४६	४६	४६	४६	४६	४६	४६
३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१

३ पादः] सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाद्यसंहितम् । २०१

अथ राशिवलमाह—

अथ प्राणः ॥ ५ ॥ कारकयोगः प्रथमो भावानाम् ॥ ६ ॥

साम्ये भूयसा ॥ ७ ॥ ततस्तुङ्गादिः ॥ ८ ॥ निसर्गतस्ततः ॥ ९ ॥

विद्या—अधेति । अथ=अनन्तरं, प्राणः=बलं कथ्यते ।

भानो=राशीना, कारकयोगः = कारकाणां प्रहाणां योगः, प्रथमः=आद्यः (आद्यं बलमित्यर्थः) ।

साम्ये=उभयश्च प्रहयोगसमत्वे, भूयसा=प्रहाधिकयसंख्यया बलं प्राप्यम् ।

ततः = तत्रापि उभयश्च प्रहसंख्यासमत्वे, तुङ्गादिः=उच्चादिवलं ज्ञेयम् ।

ततः=तुङ्गादिवलसमत्वे, निसर्गतः=स्वाभाविकवलेन बली (चराद् हितरः, स्थिराद् द्विस्वभावः बली) भवति ॥ ५=९ ॥

भाषा—यहाँ राशियों के बल को कहते हैं ।

जो राशि किसी प्रह से युक्त हो वह बली होता है ।

अगर दोनों राशियों में प्रह हों तो जो राशि अधिक प्रह से युक्त हो वह यली होता है ।

अगर दोनों राशियों में प्रह संख्या तुल्य हो तो जिस में उच्च आदि (उच्च, स्वगृही, स्वमित्रगृह) में गत प्रह हो वह बली होता है । उस में भी तुल्य प्रह हो तो ग्रेसर्गिक बल से बल (चर से हितर, स्थिर से द्विस्वभाव बली) होता है ॥

अथ पुनर्वलनिर्णयमाह—

तदभावे स्वामिनः इत्यं भावः ॥ १० ॥ भाग्यायतोऽप्र विशेषात् ॥ ११ ॥

प्रातिवेशिकः पुरुषे ॥ १२ ॥ इति प्रथमः ॥ १३ ॥

विद्या—तदभाव इति । तदभावे=पूर्वोक्तारणीर्वलनिर्णयमावे, स्वामिनः=तद्राणिस्वमिनः, इत्यं भावः=कारकयोगादी राशीना बलं स्यादर्थात् स्वामिवलनिर्णयेन भानो बलनिर्णयो ज्ञेयः ।

अप्र अस्तिमन् प्रन्थे, आप्रायतः=अप्र आयतः (गतः अंशाधिक इत्यर्थः) प्रहः, विशेषात्=विशेषण बली भवति ।

पुरुषे=विषमराशी, प्रातिवेशिकः=द्वितीयद्वादशस्यो ग्रहो बलवान् भवति ।

इति पूर्वोक्त, प्रथमः प्रथमः प्राणः (बलम्) ॥ १०-१३ ॥

भाषा—बल की समता होने पर उक्त शीति से राशि स्वामी के बलनिर्णय से वस राशि का बल जानना चाहिए ।

उस में भी समान बल आजाय तो जिस राशि के स्वामी का अधिक अंश हो वह राशि बलवती होती है ।

विषम राशि से द्वितीय या द्वादश में ग्रह हो तो वह बलवान् होता है ।

इस तरह प्रथम बल का निर्णय हुआ ॥ १०-१३ ॥

अथ द्वितीयबलनिर्णयमाह—

स्वामिगुरुहृद्ग्योगो द्वितीयः ॥ १३ ॥

विं०—स्वामिगुरुज्ञेति । स्वामिगुरुहृद्ग्योगः=स्वामिना गुरुणामुपेन वा योग-द्वैकैकशो भाना यलं भवति, स्वामिनो गुरुरेत्तुधस्य वा द्विद्वैकैकशो भाना यलं भवत्येवं पद् बलानीति द्वितीयः प्राणः ॥ १४ ॥

भाषा—प्रत्येक राशि अपने स्वामी बृहस्पति, शुभ इन से युत या हृष्ट होने से बली होती है । इस तरह द्वितीय बल निर्णय हुआ ॥ १४ ॥

अथ तृतीयबलमाह—

स्वामिनस्तृतीयः ॥ १५ ॥ स्वात् स्वामिनः कण्ठकादिष्यपारदीर्घलयम् १६

विं०—स्वामिन इति । स्वामिनः=राशिस्वामिनः, तृतीयः=तृतीयः प्राणः (पलम्) ।

स्वात्=भात्मकारतात्, कण्ठकादिष्य=कण्ठकपशकरायोद्दिमेषु, स्वामिनः=राशिस्वामिनः, अपारदीर्घलयं=दुर्बलस्य भावः दीर्घलयं परस्माद्दीर्घलयं परदीर्घलयं तस्य भाव पारदीर्घलयं, न पारदीर्घलयमित्यपारदीर्घलयं भवत्यर्थादपोकितमतः पणकरस्य तस्माकेन्द्रस्य न दीर्घस्यम्, किन्तु अलित्यमेव । अत्र केवित् स्वात्=राशितः इत्यर्थं कुर्यान्ति सन्ते युक्तम् ॥ १५-१६ ॥

भाषा—जिस राशि का स्वामी यली हो वह यली होती है । यह तृतीय बल है ।

अपने स्थान से केन्द्र आदि में ग्रह हो तो आगे की राशि से पूर्व राशि ज्यादा यली होता है आर्यात् स्वस्थान से केन्द्र में ग्रह हो तो पूर्ण यली, पगकर में हो सो मध्य यक्षी आयोक्षिक्षम में हो सो हीन यक्षी होता है । इस तरह तृतीय बल होता है ॥ १५-१६ ॥

अथ विषमराशी चतुर्थबलप्रहणमाह—

चतुर्थः पुरुषे ॥ १७ ॥

पिं०—चतुर्थत इति । पुरुषे=विषमराशी, चतुर्थः=पापहरयोग इत्यादिना चतुर्थमाणवमुर्युदलात्, परं आद्यमिति शेषः ।

३ पाद:] सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दो-टीकाहयसहितम्। २०३

भाषा—विष्णुराति में “पापहरयोग” इत्यादि सूत्र से वक्ष्यमाण चतुर्थ बल का शृण करना चाहिए ॥ १७ ॥

अथ सप्तभिशूलदशामाह—

पितॄलाभप्रथमप्राण्यादिः शूलदशानिर्याणे ॥ १८ ॥

पितॄलाभपुत्रप्राण्यादिः पितुः ॥ १९ ॥ आदर्शादिर्मतुः ॥ २० ॥

कर्मादिस्त्रीतुः ॥ २१ ॥ मात्रादिर्भगिनीपुत्रयोः ॥ २२ ॥

व्यादिज्येष्टस्य ॥ २३ ॥ पितॄवत् पितॄवर्गे ॥ २४ ॥ मातृवत् मातृवर्गे ॥ २५

यि०—पितॄलाभेष्टयादि । पितॄलाभप्रथमप्राण्यादिः = पितॄलाभयोः लरनसप्तम योर्मध्ये यः प्रथमेन प्रथमप्राण्योक्तेन वर्णेन प्राणी वलवान् तदादिः, निर्याणे=निघने, शूलदशा=तदाहयदशा भवति ।

पितॄलाभपुत्रप्राण्यादि = पितॄलाभाभ्यो लरनसप्तमाभ्यो यी पुत्री नवमी तयोर्मध्ये यः प्राणी तदादिः, पितुः=पितॄर्भिर्याणे शूलदशा भवति ।

आदर्शादिः=लरनसप्तमाभ्यो यात्रादर्शी चतुर्थी तयोर्मध्ये यः प्राणी तदादिः गातुः=मातृर्भिर्याणे शूलदशा भवति ।

कर्मादिः=लरनसप्तमाभ्यो ये कर्मणी तृतीयस्थाने तयोर्मध्ये यो वली तदादिः प्रातुः=कनिष्ठस्य भ्रातुर्भिर्याणे शूलदशा भवति ।

मात्रादिः=लरनसप्तमाभ्यो ये मातरां चतुर्थस्थाने तयोर्मध्ये यः प्राणी तदादिः, भगिनीपुत्रयोः=भगिनीपुत्रयोर्भिर्याणे शूलदशा भवति ।

व्यादिः=लरनसप्तमाभ्यो यी व्यादेष्टादशी तयोर्मध्ये यो वली तदादिः, व्येष्टस्य=उवेष्टस्य भ्रातुर्भिर्याणे शूलदशा भवति ।

पितॄवर्गे=पितॄव्यादो, पितॄवत्=पितॄवक्षिर्याणे शूलदशा भवति ।

मातृवर्गे, मातृवत्=मातृवक्षिर्याणे शूलदशा भवति ॥ १८=२५ ॥

भाषा—एवं और सप्तम हन दोनों में जो प्रथम प्रकारोक्त थलं हो वली हो वही से सरण के विचार में शूलदशा की प्रवृत्ति होती है ।

एवं और सप्तम से चूथम में जो वष्टी हो उस से माता के निर्याग में शूलदशा की प्रवृत्ति होती है ।

एवं और सप्तम से चूथीय में जो वष्टी हो उस से छोटे भाई के निर्याग में शूलदशा की प्रवृत्ति होती है ।

एवं और सप्तम से चूथीय में जो वष्टी हो उस से छोटे भाई के निर्याग में शूलदशा की प्रवृत्ति होती है ।

लग्न और सप्तम से पञ्चम में जो बली हो उस से वहन और पुत्र के निर्णय में शूलदशा की प्रवृत्ति होती है ।

लग्न और सप्तम से एकादश में जो बली हो उस से ज्येष्ठ भाइ के निर्णय में शूलदशा की प्रवृत्ति होती है ।

विश्वदय आदि के निर्णय में पिता के समान शूलदशा की प्रवृत्ति होती है । मातृवर्ग के निर्णय में माता के समान शूलदशा की प्रवृत्ति होती है ॥ १८-२६ ॥

अथ ब्रह्मदशामाह—

ब्रह्मादिः पुरुषे समा दासान्ताः ॥२६॥ स्थानव्यतिकरः ॥२७॥

विं०—ब्रह्मादिरिति । पुरुषे=विष्मराशौ (विष्मराशौ ब्रह्मप्रहे सतीत्यर्थः), ब्रह्मादिः=ब्रह्मप्रहाश्रितराशितः (ब्रह्मप्रहाश्रितराशितः कमेण दशा प्रवर्तनीये-त्यर्थः), समाः=वर्धाणि (ब्रह्मदशायां वर्धाणीत्यर्थः), दासान्ताः=स्वराशः पष्ट-राशिस्कामिपर्यन्ता भ्राताः ॥

स्थानव्यतिकरः=तत्र स्थानस्य व्यत्याशः,

एत्रैतदुक्तं भवति—समराशौ ब्रह्मप्रहे स्थिते सति विपरीतकमेण पष्टस्थानं परिगृह्य तदीशपर्यन्ता दशा लेख्या ॥ २६-२७ ॥

नापा—विष्मर राशि में ब्रह्म मह महो तो ब्रह्मप्रहाश्रित राशि से क्रमसे ब्रह्मदशा की प्रवृत्ति होती है । उस दशा में वर्ष के मान प्रत्येक राशि में स्वस्थान से पष्टेश पर्यन्त होता है ।

यदि ब्रह्म मह सम राशि में हो तो ब्रह्मप्रहाश्रित राशि से उत्क्रम से दशा की प्रवृत्ति होती है ॥ २६-२७ ॥

उदाहरण—पूर्वोक्त उदाहरण में ब्रह्म मह महूल है, वह कन्या में है, अतः कन्या को सम राशि में होने के कारण उत्क्रम से दशा की प्रवृत्ति सिद्ध हुई ।

उत्क्रम गणना के दशा कन्या से पष्ट स्थान मेप है, उस का स्वामि महूल ही है असः कन्या राशि में दशा वर्ष मान एक हुआ ।

सिद्ध से पष्ट स्थान भीम है, उस का स्वामी वृद्धस्पति सिद्ध में ही है, अतः सिद्ध राशि में भी दशा वर्ष मान एक ही हुआ ।

कर्क से पष्ट स्थान कुम्भ है, उस का स्वामी शनि है; यह कर्क से पञ्चम स्थान भीम में है, अतः कर्क राशि में दशा वर्ष मान पांच हुए ।

मिथुन से पष्ट स्थान मकर है उस का स्वामी एकादश मिथुन से एकादश स्थान भी सिद्ध में है अतः मिथुन राशि में दशा वर्ष मान एकादश हुए ।

वृष से पष्ट स्थान घनु का स्वामी वृद्धस्पति है, यह वृष से दशम स्थान सिद्ध में

है, अतः शूप में दशा वर्ष मान दशा हुए।

मेरे से पष्ठ स्थान (वृद्धिक) का स्वामी महूल है, वह मेरे से ब्रह्म स्थान (कन्या) है, अतः मेरे राशि में दशा वर्ष मान आठ हुए।

भीज से पष्ठ स्थान (तुला) का स्वामी शुक्र है, वह भीज से नवम स्थान (कर्क) में है, अतः भीज राशि में दशा वर्ष मान नव हुए।

कुम्ह से पष्ठ स्थान (कन्या) का स्वामी बुध है, वह कुम्ह से पञ्चम स्थान (तुला) में है, अतः तुला राशि में दशा वर्ष मान पांच हुए।

मकर से पष्ठ स्थान (सिंह) का स्वामी रवि है, वह मकर से पञ्चम स्थान (कन्या) में है, अतः मकर राशि में दशा वर्ष मान पांच हुए।

घनु से पष्ठ स्थान (कर्क) का स्वामी चन्द्रमा है, वह घनु में ही है, अतः घनु राशि में दशा वर्ष मान एक हुआ।

पृदिवक से पष्ठ स्थान (मिथुन) का स्वामी बुध है, वह पृदिवक से द्वितीय (तुला) में है अतः पृदिवक राशि में दशा वर्ष मान दो हुए।

तुला से पष्ठ स्थान (शूप) का स्वामी शुक्र है, वह तुला से चतुर्थ स्थान (कर्क) में है, अतः तुला राशि में दशा वर्ष मान चार हुए।

अथ कन्याधुतकमेण ग्रहदशाचक्रम्—

राशयः	कन्या	सिंहः	कर्कः	मिथुनः	शूपः	मेरपः
दशावर्षे	१	१	१	१	१०	८
मानानि	०	०	०	०	०	०
सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्
१९६५	१९६६	१९६७	१९६८	१९६९	१९७०	२००९
सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः
५	५	५	५	५	५	५
१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५
४६	४६	४६	४६	४६	४६	४६
३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१

अथ मीनाद्युत्कर्मेण ग्रहदशाचक्रम्—

राशयः	मीनः	फुम्भः	मकरः	धनुः	वृद्धिकः	तुला
दशावर्ष-	९	५	५	१	३	४
मानानि	०	०	०	०	०	०
सम्वत्	सम्वत्	सम्वत्	सम्वत्	सम्वत्	सम्वत्	सम्वत्
२००१	२०१०	२०१५	२०२०	२०२१	२०२३	२०२७
सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः
५	५	५	५	५	५	५
१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५
४६	४६	४६	४६	४६	४६	४६
३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१

अथ चतुर्धर्षबलमाह—

पापद्वयोगस्तुङ्गादिग्रहयोगः ॥ २८ ॥

विद्—पापद्वयिति । पापद्वयोगः=पापमहाणा दृष्टियोगश्च राशेष्वलं (भवतीति शेषः) ।

तथा तुङ्गादिप्रहयोगः=तुङ्गमूलप्रिकोणस्थर्षात्तिमित्रराशिस्थितश्चभप्रहयोगश्च (राशिष्वलं भवति) ॥ २९ ॥

माप्ता—पापप्रहों की दृष्टि वा योग राशियों का बल होता है

तथा उच्च, भूलयिकोण, स्थर्ष, उत्तिमित्र, और मित्र राशि में गत यह की दृष्टि वा योग राशियों का बल होता है ।

यह चतुर्धर्षं बल है ॥ २८ ॥

अथ चरदशालेखनक्रममाह—

पञ्चमे पदकमात् प्राप्तप्रत्यक्षं चरदशायाम् ॥ २९ ॥

विद्—पश्यम इति । चरदशामा, पश्यमे=लग्नास्त्रवे, पदकमात्=विप्रगुरुम् “पदकमेण, प्राप्तप्रत्यक्षं=क्षमोऽक्षमत्वं भवति ॥ २९ ॥

भाषा— छान से नवम स्थान विषम पदीय हो तो छान, द्वितीय हस्यादि
क्रम से चर दशा होती है। यदि छान से नवम स्थान सम पदीय हो तो विशीत
क्रम से चर दशा होती है ॥ ३६ ॥

अथ प्रन्थेऽस्मिन् केतोः शुभत्वमाह—

अथ शुभः कैलु ॥ ३० ॥

विं—अत्रेति । अश्व=अस्मिन् प्रथे, केतु =केतुप्रहः, शुभम्=शुभफलदो
भवति ॥ ३० ॥

मापा—हूस पन्थ में केतु को शुभ पद (शुभ पलद) मानते हैं ॥ ३० ॥

**इति महापितैभिन्नप्रणीतजैभिन्नसुश्रद्धीकार्या
द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः ।**

अथ द्वितीयाध्याये चतुर्थपादः ।

तथा प्रयमं चरन्तदेशायां कि वलं प्राणमित्याह—
द्वितीयं भावधसं चरनवाशे ॥ १ ॥

४०—द्वितीयमिति । चरनवांशोऽचरणतर्दशायाः, द्वितीयं भाववलं “स्वामि
गुणशस्त्रयोगो द्वितीयः” इत्यनेनोऽद्वितीयप्रकारोक्तमावश्यं फलादेशाय प्राप्तमिति
ष्टेषः ॥ १ ॥

भाषा— पर दशा की अन्तर्देश में “स्वामिगुरज्ञायोगो द्वितीय” हस सूत्र से प्रतिपादित द्वितीय भाव घल फलादेश के लिये प्रहृण करना चाहिए ॥ १ ॥

अथ द्वारयात्परान्योलैक्षण्यमाह—

दशाध्येष द्वारम् ॥ २ ॥ ततस्तावितर्थं यात्यम् ॥ ३ ॥

५०—दशाधय इति । दशाधयः=दशाधयो रायिः (यस्मिन् एमये यस्य रायेया दशा चरहिपरपर्यायतस्तदशाधयो रायिरित्यर्थः), द्वार=रूपदण्डम् महादृष्टाचलस्य द्वारत्वात् ।

ततः=द्वारयातित्, तादेतथै=तावस्यैरुप्याकं (प्रथमदशाप्रदरातितो वावस्य-
रुप्याके द्वारयातिस्ततस्तावत्थैरुप्याकहृत्यर्थः), वार्यै=वावर्यसक्तम्, एव
भोगरातिरित्यगिधीयते भोगोत्तरैः पलभावात् ॥ २-१ ॥
भाषा—जिस राति को दशा बहेमान हो उस राति को द्वार कहते हैं।

संथा प्रथम दशाप्रद राशि से द्वार राशि जितनी संख्या पर वर्तमान हो द्वार राशि से उतनी संख्या गिनने पर जो राशि मिले उस को बाद कहते हैं। चूदलोग घाय राशि को भोग राशि भी कहते हैं ॥ १-३ ॥

अथ द्वारवाह्ययोः फलान्याह—

तथेः पापे वन्धयोगादिः ॥४॥ स्वक्षेऽस्य तस्मिन् नोपजीवस्य ॥५॥

भप्रहयोगोक्तं सर्वमस्मिन् ॥ ६ ॥

विद्य०—तयोरिति, तयोः=द्वारवाह्ययोः, पापे=पापयोगे सति, वन्धयोगादिः=वन्धयोगादिकर्मशुभफलं भवेत् ।

तस्मिन्=द्वारराशी वाह्यराशी वा पापयुक्ते, अस्य=पापस्य, उपजीवस्य=गुहसुमी-पगतस्य, स्वक्षेऽस्वराशी, न=पूर्वोक्तं वन्धयोगादशुभफलं न स्यात् ।

अस्मिन्=द्वारे बाह्ये वा चरनवाणी, भप्रहयोगोक्तं=प्रद्वाराशियोगोक्तं, सर्वं फलं विचारणीयम् ॥ ४-६ ॥

भाषा—द्वार और वाह्य राशि में पापग्रह हो तो उस की दशा में वन्धम आदि उक्त फल नहीं होता है ।

राशि और घट के सबन्ध से जो फल कहा गया है वह इस राशि की दशा में भी विचार करना चाहिए ॥ ४-६ ॥

अथ केन्द्रदेशामाह—

पितृलाभप्राणीतोऽयम् ॥ ७ ॥ प्रथमे प्राक्‌प्रत्यकृत्वम् ॥ ८ ॥

द्वितीये रवितः ॥ ९ ॥ पृथक्‌क्रमेण तृतीये चतुर्थ्यादिः ॥ १० ॥

विद्य०—पितृलाभेत्यादि । पितृलाभप्राणीतः=लग्नस्त्रियोर्मध्ये घलवतः (राशीः सकाशादित्यर्थः), अर्ये=वस्त्रमाणदशाक्लो ज्ञेयः (घलवल्लग्नस्त्रमान्यस्तरराशी खण्डितक्लेण दशाक्लो ज्ञेय इत्यर्थः) ।

प्रथमे=चरराशी लग्ने दृतमे वा सति, प्राक्‌प्रत्यकृत्वं=क्लोतक्लत्वं (लग्नाद्वा उत्तमादोन्नयुग्मराशिभेदात्क्लोतक्लमत्त्वमित्यर्थः, विष्वराशी लग्ने वा सतमे उति लग्नाद्वा उत्तमात्प्रथमदितीयादिक्लेण, उत्तमराशी लग्ने वा उत्तमे उति लग्नाद्वा उत्तमात्प्रथमदशादिक्लेण दशाप्रदत्तिर्मदतीति यावत्) ।

द्वितीये=सिवराशी लग्ने वा सतमे उति, रवितः=पष्टराशितो दशाप्रदत्तिर्मदति (घलवतो लग्नस्त्रमान्यतंराशीरोन्नयुग्मराशिभेदात्क्लोतक्लमीत्या पष्टवष्टराशिक्लेण दशाप्रदत्तिर्मदतीत्यर्थः) ।

सुतीये=द्विस्वभावराशी लगे वा सप्तमे सति, चतुष्टयादि=केन्शादि, पूर्यक्-
क्रमेण=लगनपश्चमनवमादिक्रमेण दशा प्रवृत्तिर्भवति (द्विस्वभावराशी बलवति लगे
वा सप्तमे सति प्रथमं तदादिकेन्द्रराशीना ततस्तत्पश्चमादिपणाफरराशीना ततस्तत्त्व-
वमायापोहिमराशीना दशा भवतीत्यर्थः) अस्या नवनवादा प्राणाः ॥७-१०॥

मापा—लग्न, सप्तम इन दोनों में जो खलवान् हो उस से केन्द्र दशा की प्रवृत्ति
होती है ।

यदि चर राशि में खलवान् लग्न वा सप्तम हो तो उस से क्रमोक्तम रीति से
द्वादश राशियों की दशा प्रवृत्ति होती है, (क्रमोक्तम गणना इस सरह समझनी
चाहिए—खलवान् लग्न वा सप्तम विषम में हो तो क्रम से सम में हो तो उत्तक्रम से
दशा प्रवृत्ति होती है) ।

यदि लिपर राशि में खलवान् लग्न वा सप्तम हो तो उस से छठे राशि से क्रमो-
क्तम से द्वादश राशियों की दशा प्रवृत्ति होती है ।

यदि द्विस्वभाव राशि में खलवान् लग्न वा सप्तम हो तो पहले क्रमोत्कर्मरीत्या
केन्द्र आदि राशियों की दशा प्रवृत्ति होती है । अर्थात् द्विस्वभाव राशि के विषम
राशि में खलवान् लग्न वा सप्तम हो तो पहले केन्द्रगत राशि की उस के बाद पण-
फर गत राशि की उस के बाद आपोहिम गत राशि की दशा प्रवृत्ति होती है ।
अगर द्विस्वभाव राशि के सम राशि में हो तो पहले केन्द्रगत राशि उस के बाद
आपोहिम गत राशि उस के बाद पणफर गत राशि की दशा होती है ॥७-१०॥

उदाहरण—पूर्वोक्त उदाहरण में घन राशि उस में है, उस में खन्द्रगत राशी केन्द्र
दो प्रह औडे हैं । लग्न से सप्तम मिथुन में केवल युक्त राहु औडा है, अतः “अग्रहा-
सपष्ठो व्याधान्” इत्यादि निषम से सप्तम से लग्न खलवान् सिद्ध हुआ । तथा लग्न
को घनु (द्विस्वभाव) राशि के विषम राशि में होने के कारण पहले केन्द्र गत
राशि वी उस के बाद पणफर गत राशि की उप के बाद आपोहिम गत राशि को
दशा होगी ।

जैसे पहले घन राशि की उस के बाद उप से पश्चम पणफर गत राशि (मेष),
उस के बाद इस से पश्चम (घनराशि से नवम) सिंह राशि की दशा होगी ।
पिर केन्द्र गत राशि मीन की उस के बाद उस से पश्चम कर्क राशि की तथा उस से
नवम वृश्चिक राशि की दशा होगी । इष के बाद पिर केन्द्र गत मिथुन की उप के
पाद उप से पश्चम तृतीय की उस के बाद मध्यम कुम्भ राशि की दशा होगी । पिर
उस के बाद केन्द्र गत राशि वृश्चिक की उस के बाद मध्य इष के बाद युष की
दशा होगी ।

अथ स्फुटार्थ केन्द्रदशाचक्रम्—

राशयः	धनुः	मैषः	सिंहः	मीनः	कर्कः	वृथिकः
ब०	९	९	९	९	९	९
मा०	०	०	०	०	०	०
दि०	०	०	०	०	०	०
सम्बत्						
१९६५	१९७४	१९८३	१९९२	२००१	२०१०	२०१९
सूर्यः						
५	५	५	५	५	५	५
१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५
४६	४६	४६	४६	४६	४६	४६
३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१

अथ स्फुटार्थ केन्द्रदशाचक्रम्—

राशयः	मिथुनं	तुला	कुम्भः	फन्या	महरः	वृषः
षष्ठी	९	९	९	९	९	९
मासः	०	०	०	०	०	०
दिनः	०	०	०	०	०	०
सम्बत्						
२०१९	२०२८	२०३७	२०४६	२०५५	२०६४	२०७३
सूर्यः						
५	५	५	५	५	५	५
१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५
४६	४६	४६	४६	४६	४६	४६
३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१

४ पाठ] सोदाहरण-यिमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाद्वयचहितम् । २११

वाय धनुराशीः केन्द्रदशायामन्तर्दशाचक्रम्—

राशयः	घनुः	मेषः	सिंहः	मीनः	कर्कः	वृषभः
वर्षः	०	०	०	०	०	०
मासः	१	१	१	१	१	१
दिनः	०	०	०	०	०	०
सम्बत्						
११६५	११६६	११६६	११६७	११६७	११६८	११६९
सूर्यः						
५	३	११	८	५	३	११
१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५
२६	२६	२६	२६	२६	२६	२६
३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१

वाय धनुराशीः केन्द्रदशायामन्तर्दशाचक्रम्—

राशयः	मिथुने	तुला	कुम्हः	कन्या	मकरः	वृशः
वर्षः	०	०	०	०	०	०
मासः	१	१	१	१	१	१
दिनः	०	०	०	०	०	०
सम्बत्						
११६९	११७०	११७१	११७२	११७२	११७३	११७४
सूर्यः						
११	८	५	३	११	८	५
१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५
२६	२६	२६	२६	२६	२६	२६
३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१

अथात्र वदा:—

चोरेऽनुलिङ्गतमार्गः स्थात् पष्टपष्टादिकाः स्थिरे। उभये कण्ठकाज्ञेया लग्नपश्चमभाग्यतः। चरस्थिरद्विस्वभावेष्वेजेषु प्राक्कमो मतः। तेष्वेष त्रिषु युग्मेषु ग्राह्यमुत्कमतोऽस्तिलम्॥ एवमालिखितो राशिः पाकराशिरदीर्घ्यते। स एव भोगराशिः स्थात् पर्व्याये प्रथमे स्मृतः। लग्नाशावितयः पाकः पर्व्याये यत्र दृश्यते। तस्मात्तावितयो भोगः पर्व्याये तत्र गृहताम्। तदिदं चरपर्व्यायस्थिरपर्व्यायोद्दृश्योः। त्रिकोणाख्यदशायां च पाकभोगप्रकल्पनम्॥

भाषा—स्पष्ट है।


अथ कारककेन्द्रदशामाद—

स्वकेन्द्राद्याः स्वामिनो नवांशानाम् ॥ ११ ॥

विद्—स्वकेन्द्राद्या इति। स्वकेन्द्राद्याः=कारककेन्द्रादिस्थिता राशयः, नवांशानां=नवांशदशातुल्याद्वानां, स्वामिनो भवन्ति। अर्थात् कारके विषमे राशी स्थिते सति प्रथमं कारककेन्द्रस्थानो राशीनां ततः पणकरस्थानो राशीनां ततः आपोक्लिमस्थानो राशीनां दशा भवति। कारके समराशिस्थे प्रथमं कारक केन्द्रस्थानां तत आपोक्लिमस्थानां ततः पणकरस्थानो राशीनां दशा भवति। किय स्वकेन्द्रस्थाद्याः=कारककेन्द्रस्थाद्या प्रद्वा:, नवांशानां=नवप्रदृदत्तानामद्वानां, स्वामिनो भवन्ति। अर्थात् कारके विषमराशी सति प्रथमं कारककेन्द्रस्थयेटानां ततः पणकरस्थयेटानां ततः आपोक्लिमस्थयेटानां दशा भवति। कारके समराशी सति प्रथमं कारककेन्द्रस्थयेटानां तत आपोक्लिमस्थयेटानां ततः पणकरस्थयेटानां दशा भवति। अथमप्यर्थः सूत्रकर्तृसम्मत एव। राशिकेन्द्रादिदशायां प्रतिभूतं नववर्षाणि दशामानानि भवन्ति, प्रदृकेन्द्रादिदशायां “सतल्लाभयोरावर्तते” इति सूत्रेण वर्षान्तयन्न कार्यम् ॥ ११ ॥

भाषा—कारक केन्द्रदि दशा राशि और प्रदृष्ट दोनों की होती है। उन में पहले कारक के केन्द्रादि में स्थित राशियों की दशा होती है। जैसे कारक विषम स्थित राशि में हो तो पहले कारक के केन्द्रगत राशि की उस के बाद पणकर उस के बाद आपोक्लिम गत राशि की दशा होती है। कारक सम राशि में हो तो पहले कारक के केन्द्रगत राशि की उस के बाद आपोक्लिम गत राशिकी उस के बाद पणकर गत राशि की दशा होती है। एवं कारककेन्द्रादि में स्थित प्रदृष्ट की दूसरी कारक केन्द्रादि गत प्रदृष्ट की दशा होती है। जैसे कारक विषम राशि में हो तो पहले कारक के केन्द्रगत प्रदृष्ट की दशा के बाद पणकर गत प्रदृष्ट की

उस के बाद आपोक्षिम गत प्रह की दशा होती है । यदि कारक समराशि में हो तो पहले कारक केन्द्र गत प्रह की उस के बाद आपोक्षिम गत प्रह की उम के बाद पण्ठर गत प्रह की दशा होती है । प्रत्येक राशियों की दशा मान नव वर्ष होते हैं । ग्रहों के केन्द्रादि दशा में “सतरलाभयो रावतेते” इस दृश्य से डाना चाहिए ॥११॥



उदाहरण—यहाँ आपकारक रवि है उस की आधित राशि कन्या है । कन्या को समराशि में होने के कारण पहले केन्द्रगत राशि की उस के बाद आपोक्षिम गत राशि की उस के बाद पण्ठर गत राशि की दशा होगी । कारक केन्द्रगत राशि घनु, मीन और मिथुन हैं । अतः कन्या से उत्कम शीत्या मिथुन, मीन, घनु राशियों की क्रम से दशा होगी । उस के बाद आपोक्षिम गत राशि (कर्क, मेषः भक्त, तुला) की क्रम से दशा होगी । उस के बाद पण्ठर गत राशि (कर्क, मेषः भक्त, तुला) की क्रम से दशा होगी । प्रत्येक राशि में नव वर्ष दशा प्रमाण पूरण करना चाहिए ।

अथ कारककेन्द्रादिराशिदशाचक्रम्—

राशयः	कन्या	मिथुनं	मीनः	घनुः	सिंहः	बुधः
वर्षः	१	१	१	१	१	१
मासः	०	०	०	०	०	०
दिनः	०	०	०	०	०	०
सम्बत्						
१९६५	१९७४	१०८३	१९९२	२००१	२०१०	३०१९
सूर्यः						
५	५	५	५	५	५	५
१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५
४६	४६	४६	४६	४६	४६	४६
३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१

अथ कारककेन्द्रादिराशिदशाचक्रम्—

राशयः	कुम्भः	बृहिकः	कर्कः-	मेषः	मकरः	तुला
वर्ष	९	९	९	९	९	९
मास	०	०	०	०	०	०
दिन	०	०	०	०	०	०
सम्बत्						
२०१९	२०२८	२०३७	२०४६	२०५५	२०६४	२०७३
सूर्यः						
५	५	५	५	५	५	५
१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५
२६	२६	२६	२६	२६	२६	२६
३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१

अथ कायाराशोः कारककेन्द्रादिराशिदशायामन्तर्दशाचक्रम्—

राशयः	कन्या	मिथुनं	सीनः	घगुः	सिंहः	वृषः
वर्ष	०	०	०	०	०	०
मास	९	९	९	९	९	९
दिन	०	०	०	०	०	०
सम्बत्						
१९६५	१९६६	१९६६	१९६७	१९६८	१९६९	१९६९
सूर्यः						
५	२	११	८	५	२	११
१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५
२६	२६	२६	२६	२६	२६	२६
३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१

अथ वन्याराष्ट्रे कारकवेन्द्रादिदशायामन्तर्दशाचक्रम्—

प्राप्ति	पूर्णम्	शैविक	कर्क	मेष	मकर	तुला
वर्ष	०	०	०	०	०	०
मास	१	१	१	१	१	१
दिन	०	०	०	०	०	०
सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्
१९६७	१९७०	१९७१	१९७२	१९७३	१९७३	१९७४
सूर्य	सूर्य	सूर्य	सूर्य	सूर्य	सूर्य	सूर्य
११	८	५	३	११	८	५
१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५
४६	४६	४६	४६	४६	४६	४६
३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१

कारक प्रथा केन्द्रादि दशाएः उदाहरण—कारकवेन्द्र में महूल, घन्द वा गु, गनि और शहू है, इनमें सब से बड़ी शहू उस से छालप बड़ी घन्दमा उस से अच्छ खेल। गनि और उस से अच्छ पली बेगु है अठः जात्म कारक रवि वे बाद उपर्युक्त से सब प्रहों की दशा होगी। इस पे बाद जारीहितम गत बृहस्पति और गुक है, जह एहले गुक की उसक बाद बृहस्पति की दशा होगा। इसक बाद पर्याप्त गत गुप्त की दशा होगी।

वर्दीनयन—यही लगत विषम पर्याप्त है अत प्रमोत्पा कारक (रवि) पर्याप्त गिनते से दशा आया, तथा सहम (निषुभ) को भा विषम पर्याप्त होने के कारण प्रमोत्पा कारक पर्याप्त गिनते से ४ आया इन दोनों में अधिक दशा होता है, अत रवि के दशा वर्ष मान दशा हुआ। महूल वो रवि के साथ होने के कारण उपर्युक्त की दशा वर्ष मान दशा हुआ। शहू से शेष रीत्यो कारक पर्याप्त गिनते से भार और बरकरार रीत्या गिनते से दशा आता है, अत उसका अप्रिक सल्लय दशा दशा वर्ष मान हुआ। पष बन्ध वर्हों का भी जानना चाहिए।

अथ तुला—

शानदाहरणपर्याप्त उपर्युक्त दशाओं नहेत्। उमरेव पिता ईश्वरा दारकर्यदशा। एषा ॥

तयुक्तानां तु तपुत्यं प्रत्येकं स्युर्देशा क्वमात् ।

प्रहारकारकपर्यन्ते संख्याऽन्यस्य दशा मवेत् ॥

कारकस्तयुतद्यादौ तत्केन्द्रादि स्थितास्ततः । दशाक्रमेण विशेषाः शुभाशुभफलप्रदाः ॥

अथात्रान्तर्देशाविभागमाह—

प्रतिभूतवर्षाणि कारकाथयराशितः । जन्मसंपदिप्रस्तेमः प्रत्यर्थिः साधको दधः ॥

सैवं परममीत्रं चेत्येवमन्तर्देशां नवेत् ।

अथ अहकेन्द्रादिदशाचक्रम्—

प्रहा:	रवि:	कुलः	राहुः	चन्द्रः	शनि:	केतुः	शुक्रः	गुरुः	बुधः
वर्षः	१०	१०	१०	१०	५	१०	१२	१२	१२
मासः	०	०	०	०	०	०	०	०	०
दिनः	०	०	०	०	०	०	०	०	०
सम्वत्	सम्वत्	सम्वत्	सम्वत्	सम्वत्	सम्वत्	सम्वत्	सम्वत्	सम्वत्	सम्वत्
१९६५	१९८५	१९८५	१९९५	२००५	२०१२	२०२२	२०३४	२०४६	२०५८
सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः
५	५	५	५	५	५	५	५	५	५
१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५
४६	४६	४६	४६	४६	४६	४६	४६	४६	४६
३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१

अथ प्रकारान्तरेण केन्द्रादिराशिदणानयनमाह—

पितृचतुष्टयश्चैपम्यवलाधयदित्यतः ॥ १२ ॥

यिऽ—पितृचतुष्टयेति । पितृचतुष्टयश्चैपम्यवलाधयस्थितः = पितृचतुष्टयेतु

यैवायवस्थाधयोऽधिष्ठापत्तस्मन्वितो यो राशिः ए स्थितः प्रथमदशाप्रदे राशिः पर्यवसितः । विषमष्टमराशिभेदेनात्रापि बलवतो राशितः अमोरकमीत्या दशाऽद्युतिर्हेत्या । कथा प्रतिभूतवर्षाणि भाषणानि ॥ १२ ॥

४ पदः] सोदाहरणा-विमला-संस्कृत-हिन्दो-टीकाद्यसहितम् । २१७-

भाषा—लाल के केन्द्र हिंस्त राशियों में जो सब से बलवान् राशि हो उस से विषम सम राशि के दशा क्षमोत्कम रीत्या दशा प्रवृत्ति होती है । प्रत्येक राशियों में नव वर्ष दशा मान होता है ॥ १३ ॥

व्यग कारककेन्द्रादिप्रददशायां वर्षीनयनमाद—।

स तल्लाभयोरावत्तंते ॥ १३ ॥

चिठ्ठी—सप्तल्लाभयोरिति । सः=आत्मकारकः, तल्लाभयोः=लग्नसूत्रमयोर्ध्ये, आवर्तते=परिवर्तते,

अश्रापमाशबः—लग्नात्सप्तमाच्च म्योत्कमरीत्या आत्मकारकपर्यन्तं गणनीया, तत्राधिकसंख्यासमानानि कारकदशावर्षाणि भवन्ति ।

कारकेन सदृ वर्तमानान्तं प्रदाणां कारकदशावर्षसमानि दशावर्षाणि भवन्ति । अन्येण प्रदाणां प्रदात्कमरीत्योरकमरीत्या च गणनीया तत्र याऽधिका संख्या दत्तुत्यं तद् महदशाद्वामानं ज्ञेयम् ॥ १३ ॥

भाषा—लग्न और सप्तम से विषम, सम एव के अनुसार क्षमोत्कम रीत्या कारक पर्यन्त गिनते से जो संख्या अधिक हो वह कारक केन्द्रादि प्रददशामें आत्मकारक वह और उस के साथ में स्थित प्रद का दशा वर्ष मान होता है । एवं ज्ञेय, पहों की दशा उस प्रद से क्षमोत्कम रीत्या कारक पर्यन्त गिनते से जो संख्या अधिक हो वहानी होती है ॥ १३ ॥

जन्म कुण्डली

द्वितीयकेन्द्रादि राशि दशा के उद्धरण—यद्या लग्न केन्द्रात्म राशि घनु, गीत, विशुन और कन्या है, इन चारों में सब से बड़ी कन्या है, उपर कन्या सम राशि है, अतः कन्या से उत्कम रीत्या दशा प्रवृत्ति होगी । प्रत्येक राशि में नव वर्ष दशा मान होता है ।



अथ मण्डूकदशामाह—

स्थूलादर्श-दैपम्याश्रयो मण्डूकस्त्रिकूटः ॥ १५ ॥

विद्—स्थूलेति । स्थूलादर्शवैषम्याश्रयः—स्थूलादर्शयोर्लभसमयोर्मध्ये वै यम्यं बलाधिकयं यस्य तदाश्रयः—तदादिकमेण, मण्डूकः—मण्डूकदशा भवति ।

स मण्डूकः, त्रिकूटः—त्रिकूटकमेण (चरस्थिरद्विस्वभावराशिकमेण भवतीत्यर्थः) ॥ १५ ॥

आपा—लग्न और सप्तम में जो बली हो उससे आरम्भ कर चर, स्थिर, द्विस्वभाव राशि के क्रम से मण्डूक दशा होती है । अर्थात् लग्न, सप्तम इन दोनों में बली राशि विषम हो तो पहले चर उसके बाद स्थिर उसके बाद द्विस्वभाव राशि की दशा होती है । यदि बली राशि सम होतो पहले चर उस के बाद द्विस्वभाव उस के बाद स्थिर राशि की दशा होती है ॥ १५ ॥

उदाहरण—पूर्वोक्त कुण्डली में लग्न और सप्तम में बली लग्न ही है, वह विषम राशि (धनु) और द्विस्वभाव है, अतः क्रम रीत्या पहले द्विस्वभाव राशि की उस के बाद चर की उस के बाद स्थिर राशि की दशा होगी । अतः पहले द्विस्वभाव राशि धनु राशि की उस के बाद भीन राशि की उस के बाद मिथुन राशि की उस के बाद कन्या की दशा होगी । उस के बाद चर राशि में पहले मकर राशि की उस के बाद मेप, कक्ष, तुला राशि की क्रम से दशा होगी । स्थिर राशि में पहले कुम्भ राशि की उस के बाद वृष, सिंह, वृश्चिक राशि की दशा होगी । इस में वर्ष प्रमाण स्थिर दशा के समान (चर राशियों के ७, स्थिर के ८और द्विस्वभाव के ९, जानना चाहिए ।

अथ मण्डूकदशाचक्रम्—

राशयः	घनुः	मीनः	मिथुने	कन्या	मकरः	मेपः
वर्षे-	९	९	९	९	७	७
मासः-	०	०	०	०	०	०
दिन	०	०	०	०	०	०
सम्बत्						
१९५५	१९५४	१९५३	१९५२	२००१	२००८	२०१५
सर्यः						
५	५	५	५	५	५	५
१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५
२५	२५	२५	२५	२५	२५	२५
३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१
११	११	११	११	११	११	११

अथ मण्डकदशाचक्रम्—

राशयः	कर्कः	तुला	कुम्भः	वृषः	सिंहः	वृद्धिकः
वर्ष.	७	७	८	८	८	८
मासः	०	०	०	०	०	०
दिनः	०	०	०	०	०	०
सम्बत्						
२०१३	२०१२	२०११	२०१०	२०१५	२०१३	२०११
सूर्यः						
५	५	५	५	५	५	५
१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५
४६	४६	४६	४६	४६	४६	४६
३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१

अथ धनुराशोर्मण्डकदशायामन्तर्दशाचक्रम्—

राशयः	धनुः	मीनः	मिथुनः	कन्या	मकरः	मेषः
वर्ष.	०	०	०	०	०	०
मासः	१	१	१	१	१	१
दिनः	०	०	०	०	०	०
सम्बत्						
११६५	११६६	११६६	११६७	११६८	११६९	११६९
सूर्यः						
५	२	११	८	५	२	११
१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५
४६	४६	४६	४६	४६	४६	४६
३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१

अथ प्रकारान्तरेण कारककेन्द्रादिराशिदशाचक्रम्—

राशयः	कन्या	सिंह	कर्कः	मिथुनं	वृषः	मेषः
वर्षः	६	९	९	९	९	९
मासः	०	०	०	०	०	०
दिनः	०	०	०	०	०	०
सम्बत्						
१९६५	१९७४	१९८३	१९९२	२००१	२०१०	२०१९
सूर्यः						
५	५	५	५	५	५	५
१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५
४६	४६	४६	४६	४६	४६	४६
३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१

अथ प्रकारान्तरेण कारककेन्द्रादिराशिदशाचक्रम्—

राशयः	मीनः	कुम्हः	मकरः	धनुः	वृषिः	तुला
वर्षः	९	९	९	९	९	९
मासः	०	०	०	०	०	०
दिनः	०	०	०	०	०	०
सम्बत्						
२०१९	२०२८	२०३७	२०४६	२०५५	२०६४	२०७३
सूर्यः						
५	५	५	५	५	५	५
१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५
४६	४६	४६	४६	४६	४६	४६
३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१

३ पादः] सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाद्यसहितम्। २१६

अथ प्रकारान्तरेण कल्याराशेः कारककेन्द्रादिदशायामन्तर्दशाचक्रम्—

राशयः	कल्या	सिंहः	कर्कः	मिथुनः	तुपः	मेषः
वर्षः	०	०	०	०	०	०
मासः	१	१	१	१	१	१
दिनः	०	०	०	०	०	०
सम्वत्						
१९६५	१९६६	१९६६	१९६७	१९६८	१९६९	१९६९
सूर्यः						
५	३-	५	८	५	३	५
१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५
४६	४६	४६	४६	४६	४६	४६
३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१

अथ प्रकारान्तरेण कल्याराशेः कारककेन्द्रादिदशायामन्तर्दशाचक्रम्—

राशयः	मीनः	कुम्भः	मकरः	धनुः	वृद्धिकः	तुला
वर्षः	०	०	०	०	०	०
मासः	१	१	१	१	१	१
दिनः	०	०	०	०	०	०
सम्वत्	सम्वत्	सम्वत्	सम्वत्	सम्वत्	सम्वत्	सम्वत्
१९६९	१९७०	१९७१	१९७२	१९७३	१९७३	१९७४
सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः
११	८	५	३	११	८	५
११	१५	१५	१५	१५	१५	१५
४६	४६	४६	४६	४६	४६	४६
३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१

अव्याप्तकलमाह—

स्वामित्वलक्ष्मानि च प्रागवस् ॥ १४ ॥

यिऽ—स्वामीत्वादि । स्वामित्वलक्ष्मानि=दशास्वामिनो महाणो राशीनो च चक्रानि फलानि च, प्राग्वस्=प्रागुक्तग्राव्यवत् ज्ञेयानि ॥ १४ ॥

प्रापा—इत्यावे स्वामो प्रह और राशिर्यों का वल, फल दोनों इस से पूर्व अधिन शायर के अनुभाव आनन्द घासिए ॥ १४ ॥

अथ धनूराशोर्मद्वकदशायामन्तर्दयाचक्रम्—

राशयः	कक्षः	तुला	कुम्भः	वृष	सिंहः	वृद्धिकः
वर्षः	०	०	०	०	०	०
मासः	१	१	१	१	१	१
दिनः	०	०	०	०	०	०
सम्बत्						
१९६९	१९७०	१९७१	१९७२	१९७३	१९७३	१९७४
सूर्यः						
११	८	५	३	११	८	५
१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५
४६	४६	४६	४६	४६	४६	४६
३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१

अथ शूलदशामाह—

तिर्याणलाभादिशूलदशा फले ॥१६॥

विं०—निर्याणेति । फले = फलेक्षणविषये, निर्याणलाभादिशूलदशा=निर्याणो निर्याणराशिः (मरणकारकराशिरित्यर्थः) तस्मादो लाभः सप्तमो राशिस्तस्मादादरभ्य शूलदशा प्रदृष्टा भवति । शूलदशोति नाममात्रनिर्देशः एद शूलदशाप्रयमहेश्वरर्खमारकर्खादिनिर्याणस्थानानां विभवात् ॥ अशापि प्रत्येकस्मिन् राशी नव नवाद्वा प्राप्ताः ॥ १६ ॥

मात्रा—निर्याण राशि से जो सप्तम राशि उस से शूलदशा की प्रवृत्ति होती है । निर्याण स्थान (एद शूल, ददाधय, महेश्वर राशि, मारक राशि……) अनेक प्रकार के हैं, अत यही शूल दशा कह कर नाम निर्देश मात्र किया गया है । यही पर भी प्रत्येक राशि में नव नव दशा पर्यं प्रमाण होता है ॥ १६ ॥

४ पादः] सादाहरणा-विमला-संस्कृत-हिन्दी-ट्रीकार्यसहितम् । २२३

अथ सर्वदशासाधारणेन दशारम्भदशाद्वानयनयोर्विशेषमाह—

पुरुषे समाः सामान्यतः ॥ १७ ॥

विं०—पुरुष इति । पुरुषे=विषमरात्रौ, सामान्यतः=कमेण, समाः=अद्वा ज्ञेयाः, अतः सम उत्क्रमादित्यपि सिद्धति ॥ १७ ॥

भाषा—विषम पद में उस स्थान से व्यमरीत्या दशा घर्ये पहुण करना चाहिए । अतः सम पद में उत्क्रम से दशा घर्ये पहुण करना यह भी सिद्ध होता है ॥ १७ ॥

अथ नक्षत्रदशानयनमाह—

सिद्धा उडुदाये ॥ १८ ॥

विं०—सिद्धेति । उडुदाये=नक्षत्रायुर्दाये (विशेषतरीदशायामयोत्तरीदशायां च), सिद्धाः=शास्त्रान्तरप्रसिद्धा प्राप्ताः ॥ १८ ॥

भाषा—विशेषतरी, लष्टोत्री नक्षत्र दशा शास्त्रान्तर से जापना चाहिए ॥ १८ ॥

अथ नक्षत्राद् दशापतिशानर्थमाह—

गणयेत्कृतिशामाद्य ग्रावद्वै जन्मभावति ।

नवमिथ इरेद्वार्णे दोर्ये प्रददशा भवेत् ॥

आ चद्वकु रा जी रा शु के शु पूर्णाः ।

क्षमाद्वेषुः स्वदशापिमायाः ॥

भाषा—हृतिका नक्षत्र से लेकर अपने जन्म नक्षत्र तक गिने जो खंक्या हो उस में नीं का भाग हेने से एकादि दोष में ग्रमये सूर्य, चन्द्र, महूल, राहु, गुरु, शनि, शुक्र, केतु और शुक्र की दशा होती है ।

अथ ग्रहाणां दशावृप्तप्रमाणमाह—

रसा आशाः दौला वमुविषुमिता यूपतिमिता ।

नदेला दौलेला नगपरिमिता विंशतिमिता ॥

रवाविन्दावारे तमसि च शुपौ भासुतनये ।

युधे देतो शुके क्षयश उदिताः पाकशरदः ॥

भाषा—सूर्ये के (१), चन्द्रमा के (१०) महूल के (*), राहु के (१८) शूष्मन्यति के (१६), शनि के (११), केतु के (१) और शुक्र के (२०) दशा घर्ये होते हैं ॥

अथ स्फुटार्थं दशाद्वानाय चक्रम्—

नक्षत्र	कृ.	रो.	मृ.	आ.	पु.	पु.	अ.	म.	पू. फा
	उ.फा.	ह.	चि.	स्वा.	वि.	अ.	ज्ये.	मू.	पू. पा
	उ.पा.	अ.	ध.	श.	पू. भा.	उ.भा.	रे.	अ.	भ.
दशापति	र.	चै.	कु.	रा.	बृ.	श.	बु.	के.	शु.
वर्ष	६	१३	७	१८	१६	१९	१७	७	२०

उदाहरण—पूर्वोक्त उदाहरण में जन्म नक्षत्र मूल है। कृतिका से मूल पर्यान्त गिनने से १७ आया, इस में नौ का भाग देने से शेष ८ रहा, अतः अक्रम गणना से केतु की दशा हुई।

अथ भुक्तभौम्यदशावर्णनियनमाह—

भवात्तनाडी निहता दशाद्वैर्भमोगनाड्या विहता फलं यत् ।

वर्णादिकं भुक्तमिहप्रवीणैर्भौर्यं दशाद्वान्तरितं निरुचम् ॥

मापा—जिस प्रह की दशा में जन्म हो उस प्रह की दशा वर्ष संख्या से भवात को गुणा कर भमोग से भाग देवे लक्षित क्रम से वर्ष, मास, दिन, दण्ड, पल उस प्रह की भुक्त दशा होती है। इस को प्रह के दशा वर्ष में घटाने से भोग्य दशा होती है।

उदाहरण—पूर्वोनीत भवात = २६१२९, भमोग = ६११९ यद्या दशाधीश केतु है, अतः केतु की दशावर्ष संख्या = ७ को भवात के प्रक जातीय = (१५ × ६० + २९ = १९२९) से गुणा किया तो १९२९ × ७ = १३४०३ हुआ, इस में भमोग के प्रक जातीय = ५८ × ६० + ९ = ३४८० + ९ = ३४८९ से भाग दिया तो लक्षण वर्ष = ३, शेष = २३६, को १२ से गुणा किया तो गुणनफल = २८३२ हुआ, इस में ३४८९ इस का भाग नहीं लगता, अतः मास = ०, शेष = २८३२ को ३० से गुणा किया तो इतना ८४९६०, हुआ। इस में भमोग का भाग दिया तो लक्षित दिन = ३४, शेष = १२२४, को साठ से गुणा किया तो इतना ४३४४० हुआ, इस में भमोग का भाग दिया तो दण्ड = २१, हुआ। शेष = १४१ को छिर साठ से गुणा कर १०२६०, भमोग का भाग दिया तो लक्षित पला = ३, शेष = ३२८२, “अपीचिं रूपं पाद्यग्” इस नियम से पला = ३ हुई। अतः लक्षण भुक्त दशा वर्षादि = ३।०।०।२।१।२।१।३, इस को ऐतु के महादशा वर्ष में घटाने से भोग्यवर्षादि = ३।१।१।१।३।१।३ इतना हुआ।

अथ विशेषरीमहादशाचक्रम्—

महा.	वेतु.	शुक्र.	रवि.	चन्द्र.	बुध.	राहु	गुरु	शनि.	शुक्र.
ष.	३	२०	६	१०	७	१८	१६	१५	१४
मा.	११	०	०	०	०	०	०	०	०
दि.	५	०	०	०	०	०	०	०	०
दे.	३८	०	०	०	०	०	०	०	०
प.	३७	०	०	०	०	०	०	०	०
वदोपते	प.	व.	व.	व.	व.	व.	व.	व.	व.
ष.	३	२३	२९	३३	४६	६४	८०	९९	११६
मा.	११	११	११	११	११	११	११	११	११
दि.	५	५	५	५	५	५	५	५	५
दे.	३८	३८	३८	३८	३८	३८	३८	३८	३८
प.	३७	३७	३७	३७	३७	३७	३७	३७	३७
शकः	शकः	शकः	शकः	शकः	शकः	शकः	शकः	शकः	शकः
१८१०	१८११	१८१२	१८१३	१८१४	१८१५	१८१६	१८१७	१८१८	१८१९
सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः
५	४	४	४	४	४	४	४	४	४
१६	२१	२१	२१	२१	२१	२१	२१	२१	२१
४६	२५	२५	२५	२५	२५	२५	२५	२५	२५
३१	८	८	८	८	८	८	८	८	८

अथात् दशानदत्तम्—

दशा दशाहता वारी दशमिमोगमाहीत् ।

मासी तद्देवमायदिवसनिर्जन्म दिने भवेद् ॥

भाषा—जिप एह की अस्तर्दशा आरी हो तय एह के दशा एवं को पह के दशा एवं से गुला वर दशा वा भाग हेवे जिप यास देव को हीत से गुला वर दिप दशा वा भाग हेवे हो एवं दिप होता । हसी ताह घटी पला भादि जिहड़ आते हैं ।

दशाहता—दशा एवि हसा में इष्टादि पहों की भागहता करी है, अतः १५ और १०

रवि महादशा वर्ष—६ को रवि की महादशा वर्ष ६ से गुणा किया तो ३३ हुआ। इस में दशोंकी भाग दिया तो लग्न भास ३, दिन=१८, इस तरह रवि की दशा में रवि की अन्तर्देशा मासादि=३।१८।००।००, इसी तरह रवि की दशा में चन्द्रादि प्रह की अन्तर्देशा लानी चाहिए।

अथान्तर्देशाध्युवानयने मदीय पद्धम्—

पाकवर्षप्रमाणं यतिविधं रूपद्वृत्तं फलम्।

अन्तर्देशायां विशेषं दिनायं ध्रुवकं द्वृष्टेः ॥

यदशावर्षमानेन विनिधनं ध्रुवकं भवेत् । अन्तर्देशा दिनाया तदशायां हि भ्रुवापतेः ॥

भाषा—महादशा वर्ष को ठीन से गुणा करने से अन्तर्देशा में दिनादि भ्रुवा होगी। जिस प्रह की दशा वर्ष मान से भ्रुवा को गुणा करे उस प्रह की अन्तर्देशा हो जायगी।

उदाहरण—जैसे रवि महादशा वर्ष ६ को सौन में गुणा करने से सूर्य का ध्रुवकादिन =१८ हुआ। इस ध्रुवक को सूर्य की दशा वर्ष से गुणा किया तो अन्तर्देशा दिन =१०८ हुआ। इसमें ३० का भाग देने से दूसर्य की दशा में सूर्य की अन्तर्देशा मासादि=३।१८ हुआ। इसी तरह भ्रुवा पर से अन्य यहों की भी अन्तर्देशा सूर्य की दशा में लानी चाहिए।

अथ प्रहाणाध्युवक्चक्रम्—

प्रहा:	रवि:	चन्द्रः	कुजः	राहुः	शुक्रः	शनिः	मुखः	केतुः	द्वृकः
ध्रुवक दिन	१८	३०	३१	५४	४८	५७	५१	२१	६०

— अथ सूर्यदशायां सूर्यादिप्रहाणामस्तदेशाचक्रम् —

प्रहा:	रवि:	चन्द्रः	कुजः	राहुः	शुक्रः	शनिः	मुखः	केतुः	द्वृकः
वर्ष.	०	०	०	०	०	०	०	०	०
मास.	३	१	४	१०	९	११	१०	८	०
दिन.	१८	०	१	३४	१८	१२	९	६	०

*१८] सोदाहरण-विमला सस्तत-हिन्दो-दीक्षाद्वयसहितम्। २२७

अथ चन्द्रदशायां चन्द्रादिप्रहणामन्तर्दशाचक्रम्—

महा	चन्द्र	कुप्र	राहु	गुरु	शनि	बुध	केतु	शुक्र	रवि
वर्षी	०	०	१	१	१	१	०	१	०
मास	१०	५	६	४	५	५	०	८	६
दिन	०	०	०	०	०	०	०	०	०

अथ कुञ्जदशायां कुञ्जादिप्रहणामन्तर्दशाचक्रम्—

महा	कुप्र	राहु	गुरु	शनि	बुध	केतु	शुक्र	रवि	चन्द्र
वर्षी	०	१	०	१	०	०	१	०	०
मास	४	०	११	१	११	४	२	४	५
दिना	२०	१०	६	१	२०	३७	०	१	०

अथ राहुदशायां राहुआदिप्रहणामन्तर्दशाचक्रम्—

महा	एक	द्वि	त्रि	चतु	पंच	षष्ठि	शुक्र	रवि	चन्द्र	कुप्र
वर्षीनि	२	१	३	१	१	१	०	१	१	१
मासा	८	५	१०	१	०	०	१०	१	०	०
दिनानि	१२	१४	५	१०	१०	०	१४	०	१०	१०

अथ गुरुमहादशायां गुर्वादिप्रहाणामन्तर्दशाचक्रम्—

प्रहा:	गुरुः	शनिः	बुधः	केतुः	शुक्रः	रविः	चन्द्रः	कुजः	राहुः
वर्षा.	२	३	२	०	२	०	१	०	२
मासा:	१	६	३	११	८	९	४	११	४
दिना.	१८	१३	६	६	०	१८	०	९	१४

अथ शनिमहादशायां शन्यादिप्रहाणामन्तर्दशाचक्रम्—

प्रहा:	शनि:	बुधः	केतुः	शुक्रः	रविः	चन्द्रः	कुजः	राहुः	गुरुः
वर्षा.	१	२	१	३	०	१	१	२	२
मासा:	६	८	१	१२	११	७	१	१०	११
दिना.	३	९	९	०	१२	०	१	६	१२

अथ बुधमहादशायां बुधादिप्रहाणामन्तर्दशाचक्रम्—

प्रहा:	बुधः	केतुः	शुक्रः	रवि	चन्द्रः	कुजः	राहुः	गुरुः	शनि:
वर्षा.	२	०	२	०	१	०	२	१	१
मासा:	८	११	१०	१०	५	११	१	१	६
दिना.	१८	१८	०	१	०	२८	१८	१	१

अथ शुक्रमहादशायां केरयादिग्रहाणामन्तर्दशाचक्रम्—

महा	केतु	शुक्र	रवि	चन्द्र	कुज	राहु	गुरु	शनि	बुध
वर्षी	०	१	०	०	०	१	०	१	०
मासा	४	३	४	७	४	०	११	१	११
दिनानि	२५	०	६	०	२०	१०	६	०	२०

अथ शुक्रमहादशायां शुक्रादिग्रहाणामन्तर्दशाचक्रम्—

महा	शुक्र	रवि	चन्द्र	कुज	राहु	गुरु	शनि	बुध	केतु
वर्षीणि	३	१	१	१	१	२	३	३	१
मासा	४	०	८	३	०	८	३	१०	१
दिनानि	०	०	०	०	०	०	०	०	०

अथोपदशालियनमाह—

स्वामतदशाशुक्रवर्ष च ह यादेष्ट्रेष्ट्रहस्य च । विश्वोरात्मतेवाक्ष यसा शेष घटीपलम् ॥

माया—अन्तर्दशा को दिनात्मक बना कर आगे २ वर्षों से गुणा करे गुणन फल जो हो वस में एक सौ बीस का माय देने से जो दिन आदि उभिय हो वह वस यह की उपदशा होती है ।

उपदशा—रवि अन्तर्दशा मायादि—३१८ इसको दिनात्मक बनाया हो १०८ द्वय, इस को सूर्य के ४८८६ से गुणा किया हो ६४८ द्वय, इस में १२० का भाग होने से लघ्य दिन=५, होय ४८ को १० से गुणा कर ३८८८ विर १२० का भाग किया हो लघ्य दर्शी=१४, अतः सूर्य को अन्तर्दशा में सूर्य की उपदशा—११३४ दिनादि ।

५८८ सूर्य के अन्तर्दशा दिन (१०८) को चन्द्र दशर वर्ष (१०) से गुणा किया हो (१०८०) द्वय । इस में १२० का भाग होने से लघ्य दिन=१, होय=०, अतः सूर्य के भागमें लघ्य की उपदशा—१ दिन द्वय, (इसी तारीका ग्रन्थ की भी सारी चारों४) ।

अथ सूर्यमहादशायां सूर्यन्तर्दशायामुपदशाचक्रम्—

प्रद्वाः	र.	चं.	मं.	रा.	वृ.	श.	सु.	के.	शु.
मा.	०	०	०	०	०	०	०	०	०
दि.	५	१	६	१६	१४	१७	१५	६	१८
घ.	२४	०	१०	१२	२४	६	१८	१८	०

अथ सूर्य. चन्द्रान्तर्दशायामुपदशाचक्रम्—

प्रद्वाः	चं.	कु.	रा.	वृ.	श.	सु.	के.	श.	र.
मा.	०	०	०	०	०	०	०	१	०
दि.	१५	१०	२५	२४	२८	२५	१०	०	९
घ.	०	३०	०	०	३०	३०	३०	०	०

अथ सूर्य. कुजान्तर्दशायामुपदशाचक्रम्—

प्रद्वाः	मं.	रा.	वृ.	श.	सु.	के.	शु.	र.	चं.
मा.	०	०	०	०	०	०	०	०	०
दि.	७	१८	१६	११	१७	७	२१	६	१०
घ.	२१	५४	४८	५७	५१	२१	०	१८	३०

अथ सूर्य. राहुन्तर्दशायामुपदशाचक्रम्—

प्रद्वाः	रा.	वृ.	श.	सु.	के.	शु.	र.	चं.	कु.
मा.	१	१	१	१	०	१	०	०	०
दि.	१८	१३	२१	१५	१८	२४	१६	१७	१८
घ.	३६	१२	१८	५४	५४	०	१२	०	५४

३ पादः] सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाघ्रयसहितम्। २३१

श्री शुर्यः गुर्वन्तदेशायामुपदयाचकम्—

प्रदेश	हृ	सं	हु.	के.	ग्र.	रा.	च.	क्ष.	रा.
मा.	१	१		०	१	०	०	०	१
दि.	८	१५	१०	१६	१८	१४	२४	१६	१३
य.	२४	३५	१८	२५	०	२४	०	२५	११

अथ सूर्यः शान्त्यन्तदेशायामुपदशोचकम्—

महाः	ष.	मु.	के.	श.	८.	वं.	कु.	१०.	११.	१२.
मा.	१	०	१	०	०	०	०	१	१	१
दि.	३४	१८	५३	३४	१५	३६	११	२९	१५	१५
घ.	१	३४	५३	०	८	३०	५५	१५	३५	३५

अथ सूर्यः युधान्तेदशायामुण्डशानकम् ।

प्रधान:	गु.	के.	गु.	इ.	चं.	कु.	रा.	गु.	इ.
मा.	१	०	३	०	०	०	१	१	१
दि.	१३	१०	३१	१५	२५	१०	१५	१०	१०
प.	३१	११	०	१८	३०	५९	५४	४८	३५

अथ सूर्यः केवल दैवायामुपदग्निवक्त्रः ॥

प्रदा	क.	शु.	ट.	चे.	फ़	रा.	द.	स.	दु.
मा.	*	*	*	*	*	*	*	*	*
दि.	८	२१	६	२०	*	१५	१६	१९	१०
ए.	२१	*	१६	३०	२१	५४	४८	५०	५१

अथ सूर्यः शुक्रः तदेवायामपृष्ठशान्तिः ।

अथ चन्द्रमहादशायां चन्द्रोन्तदेशायामुपदशाचक्रम्—

प्रहा:	च.	कु.	रा.	वृ.	श.	सु.	के.	शु.	र.	च.
मा.	०	०	१	१	१	१	०	१	०	०
दि.	२५	१७	१५	१०	१०	१२	१७	२०	१५	
घ.	०	३०	०	०	१०	३०	३०	०	०	

— अथ कृजान्तदेशायामुपदशाचक्रम् —

प्रहा:	कु.	रा.	वृ.	श.	सु.	के.	शु.	र.	च.
मा.	०	१	०	१	०	०	१	०	०
दि.	१२	१	२८	३	२९	१२	५	१०	१७
घ.	१५	३०	०	१५	४५	१५	०	३०	३०

— अथ राहुन्तदेशायामुपदशाचक्रम —

प्रहा:	रा.	च.	श.	सु.	के.	शु.	र.	च.	कु.
मा.	२	२	२	२	१	३	०	१	१
दि.	२१	१२	२५	१६	१	०	२७	१५	१
घ.	०	०	३०	३०	३०	०	०	०	३०

— अथ ग्रहेन्तदेशायामुपदशाचक्रम —

प्रहा:	च.	श.	सु.	के.	श.	र.	च.	कु.	रा.
मा.	२	२	३	०	३	०	१	०	२
दि.	४	१६	८	१८	२०	२४	१०	२८	१२
घ.	०	०	०	०	०	०	०	०	०

— अथ शन्येन्तदेशायामुपदशाचक्रम —

प्रहा:	श.	सु.	के	शु.	र.	च.	कु.	रा.	च.
मा.	१	२	१	३	०	१	१	२	२
दि.	०	२०	३	५	२८	१७	३	१५	१६
घ.	१५	४५	१५	०	३०	३०	१५	३०	०

४ पाठ] सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दो-ट्रीकाह्यसहितम् । २३३

अथ शुद्धान्तर्दर्शशायामुपदशाचक्रम्—

प्रहा:	मु.	के.	शु.	र.	चे.	कु.	रा.	ह.	श.
मा.	३	०	३	०	१	०	३	३	३
दि.	१२	१९	२५	२५	१२	११	७६	८	२०
ष.	१५	४८	०	३०	३०	४५	३०	०	४५

अथ वेत्यन्तर्दर्शशायामुपदशाचक्रम्—

प्रहा:	के.	शु.	र.	चे.	कु.	रा.	ह.	श.	मु.
मा.	०	१	०	०	०	१	०	१	०
दि.	१२	६	१०	१५	१२	१	८८	३	२९
ष.	१५	०	३०	३०	१५	२०	—	१५	४५

— — — अथ शुक्रान्तर्दर्शशायामुपदशाचक्रम्— — —

प्रहा:	शु.	र.	चे.	कु.	रा.	ह.	श.	मु.	के.
मा.	३	१	१	१	३	०	३	३	१
दि.	१०	०	३०	५	०	०	५	२५	५
ष.	०	०	०	०	०	०	०	०	०

अथ सूर्यान्तर्दर्शशायामुपदशाचक्रम्—

प्रहा:	र.	चे.	कु.	रा.	ह.	श.	मु.	के.	शु.
मा.	०	०	०	०	०	६	०	०	१
दि.	९	१५	१०	२७	२४	२८	२५	१०	०
ष.	०	०	३०	०	०	३०	१०	१०	०

अथ कुञ्जप्रहान्तर्दशायार्था कुञ्जान्तर्दर्शशायामुपदशाचक्रम्—

प्रहा:	कु.	रा.	ह.	श.	मु.	के.	शु.	र.	चे.
दि.	८	२२	११	२३	२०	८	२४	८	१२
ष.	३४	३	३६	१६	४९	३४	३०	३१	१५
५.	३०	०	०	३०	३०	१०	०	०	०

राहुन्तदर्शायामुपदशाचक्रम्—

प्रहा:	रा.	वृ.	श.	बु.	के.	शु.	र.	च.	कु.
मा.	१	१	१	१	०	२	०	१	०
दि.	२६	२०	२९	२३	२३	३	१०	१	२३
ष.	४३	२४	५१	३३	३	०	५४	३०	३

गुरुन्तदर्शायामुपदशाचक्रम्—

प्रहा:	वृ.	श.	बु.	के.	शु.	र.	च.	कु.	रा.
मा.	१	१	१	०	१	०	०	०	१
दि.	१४	२१	१७	१९	२६	१६	२८	१९	२०
ष.	४८	१३	२६	३६	०	४८	०	३६	२४

शन्यन्तदर्शायामुपदशाचक्रम्—

प्रहा:	श.	बु.	के.	शु.	र.	च.	कु.	रा.	वृ.
मा.	२	१	०	२	०	१	०	१	१
दि.	३	२६	२३	६	१९	३	१३	२१	२३
ष.	१०	२१	१६	३०	५७	१५	१६	५१	१२
प.	३०	३०	३०	०	०	०	३०	०	०

बथ गुरुन्तदर्शायामुपदशाचक्रम्—

प्रहा:	बु.	के.	शु.	र.	च.	कु.	रा.	वृ.	श.
मा.	१	०	१	०	०	०	१	१	१
दि.	२०	२०	२९	१७	२९	२०	२३	१७	२६
ष.	३४	४१	३०	५१	४५	४९	३३	३६	३१
प.	३०	३०	०	०	०	३०	०	०	३०

अथ केत्यन्तदर्शायामुपदशाचक्रम्—

प्रहा:	के.	शु.	र.	च.	कु.	रा.	वृ.	श.	
दि.	८	२४	८	१२	८	२२	११	२३	२०
ष.	३४	३०	२१	१५	३४	३	३६	१६	४९
प.	३०	०	०	०	३०	०	३०	०	३०

४ पादः] सोदाहरण-यिमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाव्याख्यातहितम् । २३५

अथ शुक्रान्तर्देशायामुपदशाचक्रम्—

महा:	शु.	र.	व.	कु.	रा.	शु.	व.	का.	कु.	क.
मा.	३	०	१	०	२	१	०	१	०	०
दि.	१०	२१	५	२४	३	३६	६	२९	१४	
ष.	०	०	०	३०	०	०	०	३०	३०	३०

अथ शूर्यान्तर्देशायामुपदशाचक्रम्—

महा	र.	व.	क.	रा.	शु.	व.	का.	कु.	शु.	
मा.	०	०	०	०	१०	०	०	०	०	०
दि.	६	१०	७	१८	१६	१३	१७	७	३१	
ष.	२८	३०	२१	५४	४८	५०	५१	३१	०	

अथ चन्द्रान्तर्देशायामुपदशाचक्रम्—

महा	ष.	कु.	रा.	शु.	व.	का.	कु.	श.	र.
मा.	०	०	१	०	१	०	०	१	०
दि.	१४	१३	१	२०	३	२१	१२	५	१०
ष.	३०	१५	३०	०	१५	४५	१५	०	३०

अथ रात्रुमहादशायामुपदशाचक्रम्—

महा	रा.	शु.	व.	कु.	क.	शु.	र.	ष.	कु.
मा.	४	४	५	४	०	५	३	३	१
दि.	२५	९	३	१५	१९	१२	१५	२१	२५
ष.	४८	३६	४८	४२	४२	०	३६	०	४२

अथ शुर्यान्तर्देशायामुपदशाचक्रम्—

महा	१	श.	कु.	४	१३	८	१	३	११
मा.	१	४	४	१	४	१	१	१	४
दि.	१५	१६	१	१०	१४	११	१३	३०	१
ष.	१२	४८	३८	३४	—	१२	०	३४	३८

अथ शन्यन्तरदर्शायामुपदर्शाचक्रम्—

महा:	श.	वृ.	क.	श.	र.	च.	कु.	रा.	वृ.
मा.	५	४	१	५	१	२	१	५	४
दि.	१२	२५	२९	३१	२१	२५	२९	३	१६
घ.	२७	२१	५१	०	१८	१०	५१	५४	४८

अथ वृधान्तरदर्शायामुपदर्शाचक्रम्—

महा:	वृ.	के.	श.	र.	च.	कु.	रा.	वृ.	श.
मा.	४	११	५	१	२	११	४	४	४
दि.	१०	२३	३	१५	१६	२३	१७	२	२५
घ.	३	३३	०	५४	०	३३	४२	२४	२१

अथ केत्यन्तरदर्शायामुपदर्शाचक्रम्—

महा:	के.	श.	र.	च.	कु.	रा.	वृ.	श.	वृ.
मा.	०	१२	०	११	०	१	१	१	१
दि.	२३	१३	०	१	२२	२६	२०	२१	२३
घ.	३	१०	२४	३०	३	४२	३५	५१	३३

अथ शुक्रान्तरदर्शायामुपदर्शाचक्रम्—

महा:	श.	र.	च.	कु.	रा.	वृ.	श.	वृ.	के.
मा.	६	१	३	२	५	४	५	५	२
दि.	०	२४	०	३	१२	२४	२१	३	३
घ.	०	०	०	०	०	०	०	०	०

अथ सूर्यन्तरदर्शायामुपदर्शाचक्रम्—

महा:	र.	च.	कु.	रा.	वृ.	श.	वृ.	के.	श.
मा.	०	०	०	१	१	१	१	१	१
दि.	१६	२७	१८	१८	१३	२१	१५	१४	२४
घ.	१२	९	५४	३६	१२	१८	५४	५४	०

४ पाद] सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाद्यसहितम् । २३७

अथ च द्रावन्तदेशायामुपदशाचक्रम्—

महा.	च.	फ.	रा.	ष.	श.	हु.	के.	द्व.	र.	न.
मा.	१	१	२	२	३	३	१	३	०	
दि.	१५	१	२१	१२	२५	१६	१	०	२७	
ष.	०	३०	०	०	३०	३०	३०	०	०	

अथ कुञ्जन्तदेशायामुपदशाचक्रम्—

महा.	कु.	रा.	ष.	श.	हु.	के.	द्व.	र.	न.
मा.	०	११	१	१	१	०	३	०	१
दि.	२२	२६	२०	२१	२३	२२	०	८	१
ष.	३	२२	२४	२१	२३	३	०	५४	३०

अथ गुरुमहादशामध्ये गुर्यन्तदेशायामुपदशाचक्रम्—

महा.	ष.	श.	हु.	के.	द्व.	र.	न.	फ.	रा.
मा.	३	४	३	१	४	१	३	१	३
दि.	१२	१	१८	१४	८	८	४	१४	१०
ष.	१४	३६	४८	४८	०	३४	०	४८	३३

अथ शन्यन्तदेशायामुपदशाचक्रम्—

महा.	श.	हु.	के.	द्व.	र.	ष.	फ.	रा.	ष.
मा.	४	४	३	५	१	३	१	४	४
दि.	२४	१	२३	३	१६	१६	२३	१६	१
ष.	२४	१२	१२	०	३६	०	१२	४८	३१

अथ मुधान्तदेशायामुपदशाचक्रम्—

महा.	मु.	के.	द्व.	र.	ष.	फ.	रा.	ष.	
मा.	२	१	४	१	३	१	४	३	४
दि.	१५	१७	१६	१०	८	१०	३	१८	११
ष.	३१	३१	०	४८	०	३१	२४	४८	३१

अथ केत्वन्तर्दशायामुपदशाचक्रम्—

प्रहा:	के.	शु.	र.	च.	कु.	रा.	वृ.	श.	सु.
मा.	०	१	०	०	०	१	१	१	१
दि.	१५	२६	१६	२८	१५	२०	१४	२३	१७
घ.	३६	०	४८	०	३६	२४	४८	१२	३६

अथ शुक्रान्तर्दशायामुपदशाचक्रम्—

प्रहा:	शु.	र.	च.	कु.	रा.	वृ.	श.	सु.	के.
मा.	५	१	२	१	४	०	५	१	०
दि.	१६	१८	२०	२६	२४	८	१२	१६	२६
घ.	०	०	०	०	०	०	०	०	०

अथ सूर्यान्तर्दशायामुपदशाचक्रम्—

प्रहा:	र.	च.	कु.	रा.	वृ.	श.	सु.	के.	श.
मा.	०	०	०	१	१	१	१	०	१
दि.	१४	२४	१६	१३	८	१५	१०	१६	१८
घ.	३४	०	४८	१२	२४	३६	४८	४८	०

अथ चन्द्रान्तर्दशायामुपदशाचक्रम्—

प्रहा:	च.	कु.	रा.	वृ.	श.	सु.	के.	श.	र.
मा.	१	०	२	२	२	२	०	२	०
दि.	१०	२८	१२	४	१६	८	२८	२०	२४
घ.	०	१०	२	०	०	०	०	०	०

अथ कुञ्जान्तर्दशायामुपदशाचक्रम्—

प्रहा:	कु.	रा.	वृ.	श.	सु.	के.	श.	र.	च.
मा.	०	१	१	१	१	१	०	०	०
दि.	१८	३०	१४	२३	१७	१९	२६	१६	२८
घ.	३६	२४	४८	१२	३६	३६	०	४८	०

४ पादः) सोदादरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाद्यसहितम्। २३६

अथ राहन्तदेशायामुपदशाचक्रम्—

महा.	रा.	वृ.	शा.	बु.	के.	जु.	र.	च.	कु.
मा.	५	३	४	४	१	४	१	३	१
दि.	१	२५	१६	३	२०	२४	१३	१२	२०
ष.	३६	१२	४८	२४	२४	०	१२	०	२४

अथ शनिमहादशामस्ये शन्यन्तदेशायामुपदशाचक्रम्—

महा.	शा.	बु.	के.	जु.	र.	च.	कु.	रा.	वृ.
मा.	५	५	२	६	१	३	२	५	४
दि.	२१	३	३	०	२४	०	१	१२	२४
ष.	२८	२५	१०	३०	९	१५	१०	२७	२४
प.	३०	३०	३०	०	०	०	३०	०	०

अथ बुधान्तर्देशायामुपदशाचक्रम्—

महा.	बु.	के.	जु.	र.	च.	कु.	रा.	वृ.	श.
मा.	५	१	५	१	-१	१	४	४	५
दि.	१५	२६	११	१८	३०	२६	२५	१	३
ष.	१६	३१	३०	२७	४५	३१	२१	१२	२५
प.	३०	३०	०	०	०	३०	०	०	३०

अथ केत्यन्तर्देशायामुपदशाचक्रम्—

महा.	कु.	श.	र.	च.	कु.	रा.	बु.	श.	बु.
मा.	०	३	०	१	०	१	१	३	१
दि.	२३	६	११	३	२१	२१	३३	३	२६
ष.	१६	३०	५५	१५	१६	५१	१२	१०	३१
प.	३०	०	०	०	-३०	०	-०	३०	३०

अथ शुक्रान्तर्देशायामुपदशाचक्रम्—

महा.	श.	र.	च.	कु.	रा.	बु.	श.	बु.	क.
मा.	६	१	१	३	५	५	६	५	२
दि.	१०	२५	५	६	२१	३	०	११	६
ष.	०	०	०	१०	०	०	३०	१०	१०

अथ सूर्यान्तर्देशायामुपदशाचक्रम्—

प्रहा:	र.	च.	कु.	रा.	वृ.	श.	सु.	के.	श.
मा.	०	०	०	१	१	१	१	०	१
दि.	१७	२८	१५	२१	१५	२४	१८	१९	२७
घ.	६	३०	५७	१८	३६	९	२७	५७	०

अथ चन्द्रान्तर्देशायामुपदशाचक्रम्—

प्रहा:	च.	कु.	रा.	वृ.	श.	सु.	के.	श.	र.
मा.	१	१	३	२	३	२	१	३	०
दि.	१७	३	२५	६	०	२०	३	५	२८
घ.	३०	१५	३०	०	१५	४५	५	०	३०

अथ कुञ्जान्तर्देशायामुपदशाचक्रम्—

प्रहा:	कु.	रा.	वृ.	श.	सु.	के.	श.	र.	च.
मा.	०	१	१	०२	१	०	३	१०	१
दि.	२३	२५	२३	३	२६	२३	६	१९	३
घ.	१८	५१	१२	१०	११	१६	३०	५७	१५
प.	३०	०	०	३०	३०	३०	६	०	०

अथ राहुन्तर्देशायामुपदशाचक्रम्—

प्रहा:	रा.	वृ.	श.	सु.	के.	श.	र.	च.	कु.
मा.	५	४	५	४	१	५	१	२	१
दि.	३	१६	१२	२५	२९	२९	२१	२५	२९
घ.	५४	४८	२७	२१	५१	०	१८	३०	५१

अथ शुर्वन्तर्देशायामुपदशाचक्रम्—

प्रहा:	वृ.	श.	सु.	के.	श.	र.	च.	कु.	रा.
मा.	४	४	४	१	५	१	२	१	४
दि.	१	२४	१	२३	२	१५	१६	१३	१६
घ.	३६	२४	१२	१२	०	३१	०	१२	४८

४ पादः) सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाद्वयसहितम्। २४१

अथ शुधमहादशामध्ये शुधान्तर्दशायामुपदशाचक्रम्—

प्रदा.	वृ.	के.	श.	र.	च.	फ.	रा.	जी.	श.
मा.	४	१	४	१	३	१	४	३	४
दि.	३	२०	२४	१३	१२	२०	१०	२५	१७
ष.	४९	३४	३०	२१	१५	३४	३	३६	१६
प.	३०	३०	०	०	०	३०	०	०	३०

अथ फेत्यन्तर्दशायामुपदशाचक्रम्—

प्रदा:	के.	श.	र.	च.	फ.	रा.	जी.	वृ.	श.
मा.	०	१	०	०	०	१	१	१	१
दि.	२०	२१	१७	२१	२०	२३	१७	२६	२०
ष.	४९	३०	५१	४५	४९	३३	३६	३१	३४
प.	३०	०	०	०	३०	०	०	३०	३०

अथ शुक्रान्तर्दशायामुपदशाचक्रम्—

प्रदा.	श.	र.	च.	फ.	रा.	जी.	वृ.	क.
मा.	५	१	२	१	५	४	५	१
दि.	२०	२१	२५	२१	३	१६	११	२४
ष.	०	०	०	३०	०	०	३०	३०

अथ सूर्यान्तर्दशायामुपदशाचक्रम्—

प्रदा:	र.	च.	फ.	रा.	जी.	वृ.	के.	श.
मा.	०	०	०	१	१	१	०	१
दि.	१५	२५	१७	१५	१०	१८	१३	१७
ष.	१८	३०	५१	५४	४८	२७	२१	५१

अथ चन्द्रान्तर्दशायामुपदशाचक्रम्—

प्रदा.	च.	फ.	रा.	जी.	वृ.	क.	श.	र.
मा.	१	०	२	२	३	१	०	०
दि.	१२	२१	१६	८	२०	१२	२९	२५
ष.	३०	४५	३०	०	४५	१५	४५	३०

अथ कुञ्जन्तर्देशायामुपदशाचक्रम्—

प्रहा:	कु.	रा.	वृ.	श.	बु.	के.	शु.	र.	चं.
मा.	०	१	१	१	१	०	१	०	०
दि.	२०	२३	१७	२६	२०	२०	३९	१७	२९
घ.	४९	३३	३६	३१	३४	४९	३०	५१	४५
प.	३०	०	०	३०	३०	३०	०	०	०

अथ राहन्तर्देशायामुपदशाचक्रम्—

प्रहा:	रा.	वृ.	श.	बु.	के.	शु.	र.	चं.	कु.
मा.	४	४	४	४	१	५	१	२	१
दि.	१७	२	२५	१०	२३	३	१५	१६	२३
घ.	४२	२४	२१	३	३३	०	५४	३०	३३

अथ गुर्वन्तर्देशायामुपदशाचक्रम्—

प्रहा:	कु.	श.	बु.	के.	शु.	र.	चं.	कु.	रा.
मा.	३	४	३	१	४	१	२	१	४
दि.	१८	९	२५	१७	१६	१०	८	१७	२
घ.	४८	१२	१६	३६	०	४८	०	३६	२४

अथ शन्यन्तर्देशायामुपदशाचक्रम्—

प्रहा:	श.	बु.	के.	शु.	र.	चं.	कु.	रा.	वृ.
मा.	५	४	१	५	१	२	१	४	४
दि.	३	१७	२६	११	१८	२०	२६	२५	१
घ.	२५	१६	३१	३०	२७	४५	२१	२१	१२
प.	३०	३०	३०	०	०	०	३०	०	०

अथ केतुमहादशामध्ये केत्वन्तर्देशायामुपदशाचक्रम्—

प्रहा:	के.	शु.	र.	चं.	कु.	रा.	वृ.	श.	बु.
मा.	०	०	०	०	०	०	०	०	०
दि.	८	१४	८	१२	८	२२	१९	२३	२०
घ.	३४	३०	२१	१५	३	३	३६	१६	४९
प.	३०	०	०	०	३०	०	०	३०	२०

४ पादः] सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाद्वयसहितम् । २४३

अथ शुक्रान्तर्दशायामुपदशाचक्रम्—

महा:	शु.	र.	च.	फु.	रा.	वृ.	ष.	बु.	के.
मा.	३	०	१	०	२	१	३	१	०
दि.	१०	२१	५	२४	३	२६	६	२९	२४
ष.	०	०	०	३०	०	०	३०	३०	३०

अथ सूर्यान्तर्दशायामुपदशाचक्रम्—

महा:	र.	च.	फु.	रा.	वृ.	ष.	बु.	के.	शु.
मा.	०	०	०	०	०	०	०	०	०
दि.	६	१०	७	१०	१६	११	१७	७	२१
ष.	१८	३०	२१	५४	४८	५७	५१	२१	०

अथ चन्द्रान्तर्दशायामुपदशाचक्रम्—

महा:	च.	फु.	रा.	वृ.	ष.	बु.	के.	शु.	र.
मा.	०	०	१	०	१	०	०	१	०
दि.	१७	१२	१	२०	३	११	१२	५	१०
ष.	३०	१५	३०	०	२५	४६	१५	०	३०

अथ कुजान्तर्दशायामुपदशाचक्रम्—

महा:	शु.	रा.	वृ.	ष.	बु.	के.	शु.	र.	च.
दि.	८	३२	११	३३	२०	८	३४	७	१२
ष.	३४	३	३६	६	४६	३४	३०	११	१५
प.	३०	०	०	३०	३०	३०	०	०	०

रात्रिन्तर्दशायामुपदशाचक्रम्—

महा:	रा.	वृ.	ष.	बु.	के.	शु.	र.	च.	फु.
मा.	१	१	१	१	०	३	०	१	०
दि.	२९	३०	२६	३३	२२	३	१४	१	२२
ष.	३४	३४	५१	३३	३	०	५४	३०	१

गुर्वन्तर्दशायामुपदशाचक्षम्—

महा:	व.	श.	सु.	के.	ग्र.	र.	च.	कु.	रा.
मा.	१	१	१	०	१	०	०	०	१
दि.	१४	२३	१७	१९	२६	१६	२८	१९	३०
प.	४८	१२	३६	३६	०	४८	०	३६	२४

शन्यन्तरं शायामूपदशाचक्रम् ।

महा:	श.	सु.	के.	शु.	२.	च.	कु.	रा.	ह.
मा.	२	१	०	२	०	१	०	१	१
दि.	३	२६	२३	६	९९	३	२३	२९	२३
प.	१०	३१	१६	३०	५७	१५	१६	५९	१२
प.	३०	३०	३०	०	०	०	३०	०	०

अथ वृधान्तदेशायामुपदेशाचकम्—

महाः	तु.	के.	शु.	र.	वं.	कु.	रा.	तु.	श.
मा.	१	०	.१	०	०	०	१	१	१
दि.	२०	३०	३९	१७	३९	२०	२३	१५	२६
घ.	३४	४९	३०	५१	४५	४९	३३	३६	३१
प.	३०	३०	०	०	०	३०	०	०	३०

अथ शुक्रमहादशामध्ये शुक्रान्तर्दशायामुपदशाचक्रम्—

अथ सुर्यान्तदेशायामुपदशाचक्रम्—

४ पादः] सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाद्यसंहितम् । १२५५

अथ चन्द्रान्तर्दशायामुपदशाचक्रम्—

महा:	च.	बु.	श.	व.	स.	मु.	के.	श.	र.
मा.	१	१	३	२	३	२	१	३	१
दि.	२०	५	०	२०	५	३५	५	१०	०
घ.	०	०	०	०	०	०	०	०	०

अथ मङ्गलान्तर्दशायामुपदशाचक्रम्—

महा:	कु.	रा.	बु.	श.	व.	स.	के.	श.	र.	च.
मा.	०	२	१	३	१	०	०	०	०	१
दि.	२४	३	२६	६	२९	२४	४०	२१	५	
घ.	३०	०	०	३०	३०	३०	०	०	०	०

अथ राहन्तर्दशायामुपदशाचक्रम्—

महा:	रा.	बु.	श.	व.	स.	के.	श.	र.	च.	बु.
मा.	५	४	५	५	३	६	१	३	२	
दि.	१३	२४	२१	३	१	०	२४	०	३	
घ.	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०

अथ जायान्तर्दशायामुपदशाचक्रम्—

महा:	बु.	श.	व.	स.	के.	श.	र.	च	बु	रा
मा.	४	५	४	१	५	१	२	१	२	३
दि.	८	३	१६	२६	१०	१०	२०	२६	२४	
घ.	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०

अथ शन्यन्तर्दशायामुपदशाचक्रम्—

महा:	रा.	बु.	के.	श.	र.	च.	कु.	रा.	बु.	
मा.	६	५	३	६	७	३	२	५	५	
दि.	०	११	६	१०	२७	५	६	२१	२	
घ.	३०	३०	३०	०	०	०	३०	०	०	

अथ बुधान्तर्देशायामुपदशाचक्रम्—

प्रहा:	घु.	के.	शु.	र.	च.	कु.	रा.	घु.	श.
मा.	४	१	५	१	२	१	५	४	५
दि.	२४	२१	२०	२१	२५	२५	३	१६	११
घ.	३०	३०	-	०	-	३०	१	०	३०

अथ केत्यन्तर्देशायामुपदशाचक्रम्—

प्रहा:	क.	शु.	र.	च.	कु.	रा.	घु.	श.	घु.
मा.	०	२	०	१	०	२	१	२	१
दि.	२४	१०	२१	५	२४	३	२५	६	२९
घ.	३०	०	०	०	३०	०	०	३०	३०

अथाष्टोत्तरीदशानव्यनमाह—

चावारि भानि पापेषु शुभेषु त्रीणि योजयेत् । रीढादिमृगपर्यन्तं लिखेदभिजिता सह ॥
षट्ठादित्ये च वर्षाणि चन्द्रे पशदशैव च । मङ्गले चाष्टवर्षाणि बुधे सप्तदशैव च ॥
शानी च दशवर्षाणि गुरुवेकोनविंशतिः । राहौ द्वादशवर्षाणि शुकस्याप्येकविंशतिः ॥

भाषा—पाप प्रहो में चार नक्षत्र और शुभ प्रहो में तीन नक्षत्र जोड़ना चाहिए । आद्रो से मृगशिरा पर्यन्त २७ नक्षत्र अभिजित सहित (२८ नक्षत्र) लिखे । इस दशा में सूर्य के (६), चन्द्रमा के (११), मङ्गल के (८), बुध के (१७), शनैवर के (१०), गुरु के (१९), राहु के (१२) और शुक के (२१) दशा वर्ष होते हैं ।

अथ स्फुटार्थं चक्रम्—

प्रहा:	रवि:	चन्द्र:	कुज:	बुध:	शनि:	गुरु:	राहु:	शुक:
दशावर्ष.	६	१५	८	१७	१०	११	१२	२१
नक्षत्राणि	आद्री मुन. पुष्य. छाइले.	पू.पा. चित्रा पू.फा. उ.फा.	इस्ते चित्रा स्वाती विशा.	पू.पा. अनु. ज्येष्ठा. भूल.	घनि. उ.भा. शत. श्रव.	उ.भा. उ.पा. रेवती श्रव.	हृतिका रोहिणी मरणी मृगशि.	
प्रत्येकनक्षत्रे	व. १	५	३	५	२	६	३	७
दशामाने	माघ ६	०	०	८	६	४	०	०

अथ दशान्तयने मदीयपदम्—

अमीषनक्षत्रदशाप्रमाणं भयातनिष्ठं च भग्नोगमकम् ।

गतक्षेत्रपि: यद्हित्वं प्रदस्य वर्पीदिकं सुखदशाप्रमाणम् ॥

दयाहृनानादहित भवेत्पत् भोग्याभिधे खेडदशाप्रमाणम् ।

भाषा—जिस नक्षत्र में जन्म हो उस नक्षत्र के वर्षे चक्र में स्थित है। उस से भयात घटी को गुण कर भगवान का मार्ग देने से लक्ष्य वर्षांदि जो हो उस में जिस प्रह के दशा में जन्म हो उस प्रह के जितने यह नक्षत्र के वर्ष मान हों उन को जोड़ देने से शुक्र दशा वर्षांदि हो जायगी। उस को प्रह दशा वर्षे में धृतने से वर्षांदि भौत्य दशा हो जायगी।

अथाएत्तरीमहादशाचक्रप—

उदाहरण—पूर्वोक्त उदाहरण में जन्म लान धनु है, उस से सप्तम मिथुन है। इन दो के बीच दशा वृषभ के इसी

अथ योगार्धदशाचक्रम्—

राशयः	धनुः	मकरः	कुम्भः	मीनः	मेषः	वृषः
वृष.	८	८	८	८	६	५
मास.	६	६	०	०	०	६
दिन.	०	०	०	०	०	०
सम्बत्						
१९६५	१९७३	१९८१	१९९१	१९९९	२००५	२०१०
सूर्यः						
५	११	५	५	५	५	११
१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५
४६	४६	४६	४६	४६	४६	४६
३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१

अथ धनुराशेऽर्योगार्धदशायामन्तर्दशाचक्रम्—

राशयः	धनुः	मकरः	कुम्भः	मीनः	मेषः	वृषः
व०	०	०	०	०	०	०
मा०	८	८	८	८	८	८
दि०	१५	१५	१५	१५	१५	१५
सम्बत्						
१९६५	१९६८	१९६६	१९६७	१९६८	१९६९	१९६९
सूर्यः						
५	२	१०	८	३	०	८
१५	०	१५	०	१५	०	१५
४६	४६	४६	४६	४६	४६	४६
३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१

४ पाद:] सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाघण्टहितम्। २५१

अथ धनुराशेयागार्वदशायामन्तर्दशाचक्रम्—

राशयः	मिथुनं	कर्कं	चिंहः	कन्या	तुला	वृश्चिकः
वर्ष.	०	०	०	०	०	०
मास.	८	८	८	८	८	८
दिनः	१५	१५	१५	१५	१५	१५
सम्बत्						
१९६९	१९७०	१९७१	१९७१	१९७२	१९७३	१९७३
सूर्यः						
८	५	१	१०	६	३	११
१५	०	१५	०	१५	०	१५
४६	४६	४६	४६	४६	४६	४६
३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१

राशयः	घनुः	मकर.	कुम्भ	मीन.	मेषः	यूपः
चरदशावर्षे.	८	१०	८	७	५	३
हिंसरदशावर्षे-	१	७	८	९	७	८
योगार्थ } व. दशा } मा.	८	८	८	८	६	५

राशयः	मिथुनः	कर्कः	चिंहः	कन्या	तुला	वृश्चिकः
चरदशावर्षे.	८	७	११	११	१०	१
हिंसरदशावर्षे.	१	७	८	९	७	८
योगार्थ } व. दशा } मा.	६	६	०	०	६	६

हसी घक से पूर्वोंक (५३ पृष्ठस्थ) घक को भी शुद्ध कर लेना चाहिए । वहाँ कुम्म, वृप, सिद्ध, वृश्चिक, इन राशियों में क्रमोत्क्रम गणना अभ्यास विधीत हो गया है । इसी तरह (५२) पृष्ठस्थ चर देशा वर्ष को भी पाठक शुद्ध कर लें ।

अथ दृगदशानयनमाह—

कुञ्जादिस्त्रिप्रकूटपद्कमेण दृगदशा ॥ २१ ॥

विद०—कुञ्जादिरिति । कुञ्जादिः=कुञ्जो लग्नाश्ववमः (कुञ्जः=५६३, शे=१) चक्षादिः, त्रिप्रकूटपद्कमेण=चरस्थिरर्द्दिस्वभावराशिकमेण दृगदशा भवति । धात्राय-भाशयः—अहादै लग्नान्वदमराशेस्ततो विषमस्वमपदवरोन क्रमोत्क्रमगणना तदूर्ध्य-राशित्रयस्य दशा लेख्या । अथ यदि लग्नान्वदमो राशित्थरस्तदा तदप्रिमराशेः (ल-मादृदशमराशेः) दशा विलिख्य ततस्तदूर्धराशित्रयस्य दशा लेख्या ततो लग्नादे-धादशाराशेस्ततः क्रमोत्क्रमगणनया तदूर्धराशित्रयस्य दशा लेख्या ।

यदि च लग्नाश्ववमः स्थिरराशिस्तदोत्कमेण दशा लेख्या, अथात् ग्रन्थमें लग्ना-श्ववमराशेस्ततस्तदूर्धराशित्रयस्य च दशा विलिख्य ततस्तदूर्धस्थराशेः (लग्न-दूर्धराशेः) ततस्तदूर्धराशित्रयस्य ततस्तदूर्धस्थराशेः (लग्नान्वयन्तमराशेः) ततः प्रमोत्क्रमगणनया तदूर्धराशित्रयस्य दशा लेख्या ।

यदि च लग्नान्वेषमो राशिद्विस्वभावराशेविषमराशिस्तदा चरदशावदन्यथा स्थिरदशावदहा लेख्या ।

अथ वर्षभ्राणं ‘राशिभन्दपात्रक’ इत्यादिनोक्तस्थिरप्रज्ञेयम् ॥ २१ ॥

भाषा—लग्न से आरम्भ कर चर, स्त्रिया, द्विस्वभाव राशि के क्रमसे द्वादश राशि-यों की दृगदशा होती है । भाव यह है कि एहुले लग्न से नवम राशि को चादू उम से दृष्ट तीनों राशियों की विषम तम पद यदा क्रम उत्क्रम गणना के क्रमसे दशा लिखनी चाहिए । तथ यदि लग्न से नवम राशि चर हो तो उस के चादू उम से अष्टम राशि (उम से दशम राशि) का चादू उम से दृष्ट तीनों राशियों की दशा लिखनी चाहिए । उस के चादू उम से यूक्तदश राशि की तम उम से दृष्ट तीनों राशियों की दशा लिखनी चाहिए ।

[४५८] सोदाहरण-विभला-संस्कृत-हिन्दी-दीकाढ्यसहितम्। २५३

इस राति को उल्कम से (वृष, कुम्भ, पूर्वक) देखा होगी । उस के बाद मिथुन राति की तथ उस से टृष्ण रातियों की ग्रन्थ से (कन्या, धनु, मीन) देखा होगी । इत्ता वर्ष स्थित दशा के समान (चर राति में ७, स्थित में ८, और हिस्त्वा भाव में ९) जानता चाहिए ।

अथ द्रवदशावक्रम—

राशयः	सिंहः	मेषः	मकरः	तुला	कर्कः	वृषः
पर्ष.	८	५	८	८	८	८
मातृ.	०	०	०	०	०	०
दिनः	०	०	०	०	०	०
सम्बत्						
१९६५	१९७३	१९८०	१९८७	१९९४	२००१	२००९
सूर्यः						
५	५	५	५	५	५	५
१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५
२६	२६	२६	२६	२६	२६	२६
३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१

अथ द्रवदशावक्रम—

राशयः	कुम्भः	बूद्धिकः	मिथुन	कन्या	धनु	मीनः
पर्ष.	८	८	९	९	९	९
मातृ.	०	०	०	०	०	०
दिनः	०	०	०	०	०	०
सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्
२००६	२०१७	२०२५	२०३४	२०४३	२०५२	२०६१
सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः
५	५	५	५	५	५	५
१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५
२६	२६	२६	२६	२६	२६	२६
३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१

अथ सिंहराशेहृगदशायामन्तर्दशाचक्रम्—

राशयः	सिंहः	भेषः	मक्तरः	तुला	कर्कः	वृषः
वर्ष.	०	०	०	०	०	०
मास.	८	८	८	८	८	८
दिन.	०	०	०	०	०	०
सम्बत्						
१९६५	१९६६	१९६६	१९६७	१९६८	१९६८	१९६९
सूर्यः						
५	९	९	५	९	९	५
१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५
४६	४६	४६	४६	४६	४६	४६
३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१

अथ सिंहराशेहृगदशायामन्तर्दशाचक्रम्—

राशयः	कुम्भः	वृद्धिकः	मिथुनं	कन्या	घटुः	मीनः
वर्ष.	०	०	०	०	०	०
मास.	८	८	८	८	८	८
दिन.	०	०	०	०	०	०
सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्
१९६९	१९७०	१९७०	१९७१	१९७२	१९७२	१९७३
सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः
५	९	९	५	९	९	५
१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५
४६	४६	४६	४६	४६	४६	४६
३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१

अथ वस्यमाणत्रिकोणदशायां गणनाकमाद—

मातृधर्मयोऽसमान्य विपरीतमोजकूटयोऽ ॥ २२ ॥
यथासामान्य युग्मे ॥ २३ ॥

विठ—मातृधर्मयोरिति । प्राक्प्रतिपादितचरदशायां गणनाविधौ “न क्षनित”
इत्युक्तिशेषसंश्लेषित्यपि स्पष्टीकृत्यते ।

मातृधर्मयो =सिंहकुम्भयोविषमरात्रयो , सामान्य =प्राचीरुतिर्विषपमेष्वीत्यनेनोक्त-
कमगणनारूपसामान्यनियम , विपरीत =उक्ताद्विपरीतकमेण गणना स्यात् (उत्क-
मगणना स्यादित्यर्थ) । तथा औजकूटयोऽयुग्मदृष्ट्यक्तयो उमरात्रयो , सामान्य=पराहृत्येतरवित्यनेनोक्तविपरीतकमगणनानियम , विपरीत=उक्ताद्विलोम (कम
गणना स्यादित्यर्थ) ।

युग्मे=द्विस्वभावरात्रौ (मिथुनकन्याधनुमीनेषु), यथासामान्य=उक्तनियमानुसारेण
विषमे (मिथुने, धनुषि च) कमेण सम्भे (कन्याया, मीने च) उत्कमेण गणना
कार्येत्यर्थ ।

भाषा—पूर्व कथित चर दशा के गणना विधि में कहा हुआ “न क्षणित्” इस
विशेष सूत्र को स्पष्ट करते हैं । जैसे सिंह और कुम्भ की विषम राति में होने के
कारण “प्राचीरुतिर्विषपमेषु” इस सूत्र से कम गणना होने पर भी चर दशा और वस्य
माण त्रिकोण दशा में उत्कम गणना होती है ।

पूर्व यूप और शूष्किक की सम राति में होने के कारण उत्कम गणना सिद्ध होने पर
भी कम गणना होनी चाहिए ।

द्विस्वभाव राति (मिथुन, कन्या, धनु, मीन) में यथा कथित गणना करनी
चाहिए, अर्थात् विषम राति (मिथुन धनु) में कम से और सम राति (कन्या,
मीन) में उत्कम से गणना करनी चाहिए ॥ २२-२३ ॥

अथ त्रिकोणदशामाद—

पितृमातृधनप्राण्यादित्रिकोणे ॥ २४ ॥ तत्र द्वारव्याधाभ्यां तद्वत् ॥ २५ ॥

विठ—पितृमातृधनप्राण्यादि । पितृमातृधनप्राण्यादि =पितृमातृधनेषु लम्प
पश्चनवर्षेषु च प्राणी वस्त्री तदादि , त्रिकोणे =त्रिकोणदशायां (दशाप्रतिर्विषय
क्तीति शेष) ।

तत्र=त्रिकोणदशायां, द्वारव्याधाभ्यां-द्वारव्याधरातिभ्यां, तद्वत्=पूर्ववदेव कल्प
शेषम् , तथा वर्षान्यनमपि चरदशावर्षेष्यमिति ।

भाषा—लम्प, पश्च और लवम में जो बला हो उस से त्रिकोण दशा की प्रवृत्ति
होती है । इस में द्वार, वायु राति से पूर्ववद् कल्प का विषार करना चाहिए और
वस्त्रं प्रमाण भी यह दशा के समान प्रहण करना चाहिए ॥ २४-२५ ॥

उदाहरण— पूर्वोक्त उदाहरण में लग्न (धनु), पञ्चम (मेष) नवम (सिंह) इन तीनों में लग्न पली है अतः धनु से दशा की प्रवृत्ति होगी । जौसे पहले धनु राशि की उस के पाद उस के श्रिकोणस्थ मेष, सिंह की उस के पाद मकर राशि की पाद उस के श्रिकोणस्थ वृष, कन्या राशि की दशा होगी इत्यादि । वर्ष प्रभाग घर दशा के समान लेना चाहिए ॥

अथ श्रिकोणदशाचक्रम्—

राशयः	धनुः	मेषः	सिंहः	मकरः	वृषः	कन्या
वर्षः	८	५	११	१०	३	११
मासाः	०	०	०	०	०	०
दिनः	०	०	०	०	०	०
सम्बत्						
१९६५	१९७३	१९७८	१९८३	१९९०	१९९३	२००४
सूर्यः						
५	५	५	५	५	५	५
१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५
४६	४६	४६	४६	४६	४६	४६
३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१

अथ श्रिकोणदशाचक्रम्—

राशयः	कुम्भः	मिथुनः	तुला	वीनः	कक्षः	चुम्बिकः
वर्षः	८	४	१०	७	७	१
मासः	०	०	०	०	०	०
दिनः	०	०	०	०	०	०
सम्बत्						
२००४	२०१२	२०१६	२०२६	२०३३	२०४०	२०४१
सूर्यः						
५	५	५	५	५	५	५
१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५
४६	४६	४६	४६	४६	४६	४६
३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१

४ पाद] सोदाहरण-विमला सहस्रत-हिन्दी-टीकाद्वयसहितम् । २५७

अथ धनुराशेखिकोणदशायामन्तर्दशाचक्रम्—

राशय	धनु	मैथि	दिवं	मकर	वृष	कन्या
वर्ष	०	०	०	०	०	०
मास	८	८	८	८	८	८
दिन	०	०	०	०	०	०
सम्बत्						
११६५	११६६	११६६	११६७	११६८	११६८	११६९
सूर्य						
५	१	५	५	१	१	५
१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५
२५	२५	२५	२५	२५	२५	२५
३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१

अथ धनुराशेखिकोणदशायामन्तर्दशाचक्रम्—

राशय	कुम्भ	मिथुन	तुला	मीन	इष्ट	युरियक
षष्ठे	०	०	०	०	०	०
मास	८	८	८	८	८	८
दिन	०	०	०	०	०	०
सम्बत्						
११६९	११७०	११७०	११७१	११७२	११७२	११७३
सूर्य	एष	सूर्य	सूर्य	सूर्य	सूर्य	सूर्य
५	१	५	५	१	१	५
१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५
२५	२५	२५	२५	२५	२५	२५
३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१

अथोक्ते शृङ्खः—

लग्ने विकोणे यो राशिर्बलवानुकहेतुभिः । तदाभ्योन्नयेच्छीमच्चरपर्यायवदशा ॥

कमोत्कमाभ्यां गणयेदोजयुग्मेषु राशिषु ।

कमादृष्टे वृश्चिके च व्युत्कमात्कुम्भसिंहोः ॥

अन्यस्त्वं—विकोणदृष्टिपर्यायवदशा स्वेवं फलस्थितिः ।

विकोणालयवदशायां तु विशेषोऽन्योऽपि कथ्यते ॥

जन्मकालप्रदस्थितयां गोवरस्यप्रदैरपि । विचारितः प्रबक्षव्यं स्यात्विकोणदशाकलम्
भाषा-स्पष्ट है ।

अथात्र फलमाह—

धासगैरिकात् पत्नीकरात् कारकैः फलादेशः ॥ २६ ॥

विं—धासगैरिकादिति । धास—गैरिकात्—पत्नी—करात्=सप्तमतृतीयप्रथम

मनवमेभ्यः (धास=७९, $\frac{५}{१३}$, शे=७, गैरिक=१२३, $\frac{१३}{१३}$, शे=३, पत्नी=१)

कर=२१, $\frac{३}{१३}$, शे=९), कारकैः=तत्तत्कारकैः, फलादेशः=फलादेशः कार्यः ।

तथाहि—छीकारकैः सप्तमात्वियाः, भातृकारकैस्तृतीयादभातुः, धात्मकारकैलेन्द्रना-

त्स्वदेहस्य, वितुकारकैस्तृतिपुरुषमेस्य च विचारः कार्यः ॥ २६ ॥

भाषा—सप्तम, तृतीय, प्रथम, नवम इन स्थानों के वश अपने कारकों से फलादेश करना चाहिए । जैसे खीकारक से सप्तम स्थान के वश खीका, आतृ कारक से तृतीय स्थान के वश भाई का, आत्म कारक से लग्न के वश अपने शारीर का और पितृ कारक से नवम स्थान के वश पिता, तथा धर्म का विचार करना चाहिए ॥ २६ ॥

अथ नववदशामाह—

ताराकोशे मन्दाद्यो दशेशः ॥ २७ ॥

विं—ताराकोशे इति । ताराकोशे=नक्षत्रद्वादशाशी, मन्दाद्यः=लग्नाद्यः (लग्नादिराशिस्वामीत्यर्थः), दशेशः = दशाधीशो भवति । अर्थात् जन्मकाले या भभोगपटिकास्ता द्वादशभिंभिञ्च लविधतुल्यं प्रथमखण्डामानं तद्विशुण्ठं द्वितीयखण्डामानं श्रिशुण्ठं तृतीयखण्डामानं मित्रादिद्वितीयखण्डामानं भभोगसमानं भवेत् । तप्रयदि प्रथमखण्डे भयातपटिका तदा लग्नराशिमारम्य विषम-समराशिभेदेन कमोत्कमरीत्या दशाप्रश्निः, यदि द्वितीयखण्डामाने भयातपटिका भवेत्तदा द्वितीयभावराशिमारभ्य विषमसमराशिभेदेन कमोत्कमगणनया दशाप्रश्निः, यदि च तृतीयखण्डामाने भयातपटिका भवेत्तदा तृतीयभावराशिमारभ्य कमोत्कमगणनया दशाप्रश्निः भवति । तपात् तत्तद्भाषेशो दशाधीशः, दशाद्वाः । नव ग्रतिभविति ॥ २७ ॥

भाषा—भासोग घटिका जो हो उस को बारह से भाग देकर एवं त्रुष्ण प्रथम खण्डा, दस के द्वितीय तुल्य द्वितीय खण्डा, त्रितीय तुल्य तृतीय खण्डा इत्यादि अन्तिम खण्डाओं का मान ला कर एक सारिणी बनाये । पदि प्रथम खण्डा में भयात घटिका पड़े हो इन आदि क्रमसे (विषम राति इन हो तो क्रमसे सम राति हो सो उत्तमसे) दशा प्रवृत्ति होती है ।

अगर द्वितीय खण्डा में भयात घटिका पड़े हो द्वितीय भाव राति से आरम्भ हर के श्वासक्रम रीत्या दशा प्रवृत्ति होती है ।

अगर तृतीय खण्डा में भयात घटिका पड़े हो तृतीय राति आरम्भ पर के दशा प्रवृत्ति होती है ।

अपने अपने राति के स्थानी पद दशा धीर दीते हैं । प्रत्येक राति में दशावर्षं नर होते हैं ॥ २७ ॥

अथ खण्डादानाय चक्रम्—

गुरु	घु	४१५०१४५	प्रथम खण्डा
शनि	महारा	५१५११३०	द्वितीय खण्डा
शनि	पुम्प	१४१३२११५	तृतीय खण्डा
शुक्र	मीन	१११३३१००	चतुर्थ खण्डा
शुक्र	मेष	२४११३१४५	पञ्चम खण्डा
शुक्र	वृष	१११०४१३०	षष्ठु खण्डा
शुक्र	मिथुन	३३१५८११५	षष्ठीम खण्डा
जन्म	कर्ष	३०१४६१००	अष्टम खण्डा
रवि	सिंह	४३१३६१४५	नवम खण्डा
शुक्र	कर्त्त्वा	४८१३७१०	दशम खण्डा
शुक्र	तुला	५३११८१५	एकादश खण्डा
शुक्र	वृषभ	५८१०९१००	द्वादश खण्डा

होने के कारण यहाँ पर भी वृप, मिथुन इत्यादि राशियों की दशा होगी। दशा के स्वामी शुक्र, द्वितीय के शुधः... इत्यादि होंगे। दशा वर्ष प्रमाण प्रत्येक राशियों में जव है।

अथ नक्षत्रे लग्नादिद्वादशराशिदशाचक्रम्—

राशयः	वृपः	मिथु नं	कर्कः	सिंहः	कन्या	तुला
स्वामिनः	शुक्रः	शुधः	चन्द्रः	रविः	शुधः	शुक्रः
वर्षः	९	३	३	३	९	९
मासः	१०	०	०	०	०	०
दिनः	११	११	०	०	०	११
सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्
१९६५	१९७४	१९८३	१९९२	२००१	२०१०	२०१९
सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः
५	५	५	५	५	५	५
१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५
४६	४६	४६	४६	४६	४६	४६
३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१

अथ नक्षत्रे लग्नादिद्वादशराशिदशाचक्रम्—

राशयः	वृद्धिकः	भगुः	गकरः	कुम्भः	मीनः	मधः
स्वामिनः	कुजः	जीवः	शनिः	शनिः	शुरुः	कुजः
वर्षः	९	९	९	९	९	९
मासः	०	०	०	०	०	०
दिनः	०	०	०	०	०	०
सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्	सम्बत्
२०१९	२०२८	२०३७	२०४६	२०५५	२०६४	२०७३
सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः	सूर्यः
५	५	५	५	५	५	५
१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५
४६	४६	४६	४६	४६	४६	४६
३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१

पा.] सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टोकाइयसहितम् । २६१

बृप्तराशेष्यन्द्रनक्षश्चलग्नादिटादशराशिदशायामन्तर्दशाचक्रम्—

राशयः	षष्ठी	मिथुने	कर्कि	सिंहः	कन्या	तुला
षष्ठी	०	०	०	०	०	०
मासः	१	१	१	१	१	१
दिनः	०	०	०	०	०	०
समवत्						
१९६५	१९६६	१९६६	१९६७	१९६८	१९६९	१९६९
सूर्यः						
५	६	७	८	९	३	११
१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५
२६	२६	२६	२६	२६	२६	२६
३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१

अथ एषराशेष्यन्द्रनक्षश्चलग्नादिटादशराशिदशायामन्तर्दशाचक्रम्—

राशयः	शैशवः	घनुः	मकरः	उमा:	मीनः	मध्यः
षष्ठी	०	०	०	०	०	०
मासः	१	१	१	१	१	१
दिनः	०	०	०	०	०	०
समवत्						
१९६९	१९७०	१९७१	१९७२	१९७३	१९७३	१९७४
सूर्यः						
११	८	५	२	११	८	५
१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५
२६	२६	२६	२६	२६	२६	२६
३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१

अथ एषराशेष्यन्द्रनक्षश्चलग्नादिटादशराशिदशायामन्तर्दशाचक्रम्—

तस्मिन्नुप्ये नीचे पा धीमतः ॥ २८ ॥

एषमित्रमे निश्चित् ॥ २९ ॥

दुर्गतोऽपरथा ॥ ३० ॥

विं०—तस्मिन्निति । तस्मिन् = नक्षप्रदशाधिपे, उच्चने = स्वोच्चस्थाने, नीचे = स्वनीचस्थाने स्थिते स्थिति, ध्रीमन्त = लक्ष्मीवन्नो भवन्ति ।

स्वमित्रमे = स्वराशौ मित्राराशौ वा स्थिते सति, किंचित्—०५
विन्यून फल भवति (स्वल्पधनवन्तो भवन्तीत्यर्थ),

अपरथा = उच्चादन्यन् स्थिते सति, दुर्गत = दरिद्र स्थात् ॥ २८-३० ॥

भाषा—यदि नक्षत्र दशा के स्वामी अपने उच्च या नीच में स्थित हो जातक लक्ष्मीवान् होता है ।

अपने राशि या मित्र राशि में हो तो उस से अल्प धनवान् होता है ।

इस से भिन्न स्थान में स्थित हो तो दरिद्र होता है ॥ २८-३० ॥

थधान्तर्दशोपदशयोर्विशेषमाह—

स्वदैषम्ये यथास्व कमच्युतकमौ ॥ ३१ ॥

साम्ये विपरीतम् ॥ ३२ ॥ शनौ चेत्येके ॥ ३३ ॥

अन्तर्मुक्त्यशयोरेतत् ॥ ३४ ॥

विं०—स्वदैषम्यम् इति । स्वदैषम्ये = आत्मकारकस्य विषमपदत्वे यथास्व = यथाकम, कमच्युतकमौ = कमोकमी भवत, (विषमपदे विषमराशौ समराशादुकमेणान्तर्दशोपदशयो प्रशृतिः चेत्यर्थ) ।

साम्ये = आत्मकारकस्य युग्मपदत्वे सति, विपरीत = दोकाद्विलोम (राशौ कमेण विषमराशादुकमेणान्तर्दशाविदशयो प्रशृतिः चेत्यर्थ) ।

शनौ = शनैर्थो च, इति एके = केचिद्वदन्ति, अत्रैतदुक्त भवति क्वश्चेन कमोकमी भवतस्तथैव शनैश्चरवशोनापि विचारणीयमिति चार्या वदन्ति ॥

अन्तर्मुक्त्यशयो = अन्तर्दशोपदशयो, एतत् = पूर्वोक्तादशाकमो शेय ॥ ३१-३२ ॥

भाषा—आत्म कारक विषम पद में हो तो यथाकम गणना करनी (अपोत् विषम राशि में क्रम सम राशि में उत्कम गणना करनी चाहिए) ।

सम पद में हो तो उस से विपरीत गणना करनी चाहिए (अर्थात् सम में क्रम विषम में उत्कम गणना करनी चाहिए) ।

शनैश्चर के बश भी इसी तरह कमोकम गणना होती है, अर्थात् विषम, पद हिंस्त आत्मकारक के बश जिस तरह पूर्व में गणना प्रकार कहा गया है, तरह शनैश्चर के बश भी होती है, वह किसी का मत है ।

यह क्रम, उत्कम गणना अन्तर्दशा और उपदशा में होती है ॥ ३१-३४ ॥

पाद] संशोद्धरण-चिमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाद्वयसहितम् । २६३

अथ दशान्तरदेशयो फलमाह—

शुभा दशा शुभयुते धाम्न्युच्चेवा ॥ ३५ ॥

अन्यथा अन्यथा ॥ ३६ ॥ सिद्धमन्यत् ॥ ३७ ॥

पि—शुभेति । शुभयुते=शुभप्रदान्विते, धाम्न्यां=रासी, वा, उच्चे=उच्चते प्रदेव सति, शुभा=शुभफलदा, दशा भवति ।

अन्यथा=उच्चादितरस्ये (पापयुते नीचये वा प्रदेव सति), अन्यथा=अशुभ-फलदा दशा भवति ।

अन्यत्=यदप्रानुकूलत्वर्थ, यिद्=शास्त्रान्तरप्रणीति सिद्धं शास्त्रस्यम् ॥ ३५-३७

भाषा—जो रात्रि शुभ पद से युत हो या जिस में उच्च का पद हो उस रात्रि
उन पदों देने वाली होती है ।

दक्ष स्थान से अन्यथा (वार्यात् जो रात्रि पाप युत हो या जिस में नीच गत हो) उस रात्रि को दक्षा अशुभ पद देने वाली होती है ।

पितोष पष्ट शास्त्रान्तर से जानना चाहिए ॥ ३८-३९ ॥

मुविदित 'दरभझा' ख्ये प्रान्ते पश्चालये "यहेडा" ख्ये ।

"जरिसो" नाम्ना ख्यातं नगरं भूदेवावलिसम्बलितम् ॥

अश्वरोत्तम निवासी थीमद् 'यलदेय' शार्मणस्तनय ।

"थीलाच्युतादिनन्द" थीकेऽरिमन् जैमिने स्मृते ॥

"जरिसो" निषासि यं थीमद्युतानन्दमा शार्म विरचितायां महर्णि-
प्रणीत जैयिनिसूक्तटीकायां द्वितीयाद्याये चतुर्थः पादः समाप्तः ।

तस्याभवत्सुतकदम्बकसर्वगोरयो वैहानिकः सहदयः सरलो वदान्यः ।
 विद्यातपेविनयकीत्युलोङ्गलायामस्मित्प्रामहपिता किल “भाइनाथः”॥ ५ ॥
 जातो विशुद्धगुणवर्घ्यप्रितामदो मे स्वच्छाशयो गिरिशपादविलग्नचेताः ।
 चित्तः कृती फलितशास्त्रविधी नितान्तं “गोसाँई” संश इद शान्तगुणेकमूर्तिः॥ ६
 योऽम्बां निभाल्य सुरमन्दिर आपत्तवमासी विहाय जनकस्य सुवासभूमिम् ।
 “ठाढ़ी” समाल्यनगरी “मिथिला” प्रसिद्धामन्बाकुलं ७८ ८० ८२
 ख्यातेऽतिरम्यनगरे किल “बौगमा” ख्ये शोपाहयेन धनधर्मसंख्यनिवेतन ।
 “गूना” ख्याया जगति संप्रथितेन चार्य मातामहेन सुतवत्परिपालितोऽभूत ।
 तेनैव नैजपुटमेदनसम्बिन्दाने ख्यातेऽतिरम्यनगरे “जरिसो” ऽभिधाने ।
 मुञ्च्या सुभीधनयशोषलसंयुतस्य प्रोद्धाद्वितो व्ययमुदारगुणान्वितस्य ॥ ९ ॥
 कालं कियन्तमय मातृकुले निनाय सम्मानितः श्वसुरमन्दिरमागतोऽतः ।
 उब्ध्वा धर्न च बहुमानपुरःपरेण संप्रैव नैजवस्ति कृतवान् मनीषी ॥ १० ॥
 तस्याभवन्निखिलंलोकद्विसैकदक्षाः पुत्रा विरेकनिपुणा श्वतिशान्तकान्ताः ।
 पश्चानवद्यगुणसम्बलितास्त्वमीपु सर्वानुजो मम पिता “बलदेव” नामा ॥ ११
 भूमी सुरेज्य इव सर्वंनरैः प्रतीदयः शान्तः शदा चकलदैवविद्मगण्यः ।
 - काश्यपपूतद्वदयः परिपन्थिद्वीनो शार्मण्डलोभरहितोऽतिविनीतवेषः ॥ १२ ॥

तउजातेषु सुतेषु सप्तसु कुलालक्षाभूतेष्वह् ।
 उद्येषाद्ध्री “स्त्रुवर्णा” शादवरजो विद्वज्ञनानां उत्ताम् ।
 वाम्हन् प्रेमसुधारसाद्वदयानां सन्ततं यत्कृपा
 श्रीकालीपदपद्मरोपककृती “थोभच्युतानन्दकः” ॥ १३ ॥

“बलनकलन” नामिन ग्रन्थरत्ने प्रकृतिं विवरणमतिसदमं सर्वप्रस्तोतराणाम् ।
 तदनुपथलटीकायुगमकं “चोडुदाये” सदनु च श्विरितद् “धास्तुरत्नाधली”के ।
 सदनु च सदलानां मानवानां नितान्तगुणहति करणार्थं “पदतीर्ती प्रकाशम्”
 सदतु विवुपदर्घ्याः? “जैमिने: सूत्रके”ऽमूर्धविरयुगलटीकां पथमे पुस्तकेऽस्मिन् ॥ १५
 यदि हि कुटिलदृष्ट्याऽपि प्रपत्तेयुरेनां इकृतिमहि मदीया स्वच्छमायेन सन्तः ।
 ए किमु पत्तवटीर्यं संभगपेत्कामवल्ली माम मनसि गता या एर्दिताऽदर्भंगारैः ॥ १६ ॥

इति परिहारः ।